

Board of Directors
निदेशक मंडल



Shri S.K. Gupta
Chairman & CEO



Shri R.K. Malik



Shri S.G. Rao



Shri Neeeraj Sharda



Shri V.P.S. Arora



Shri L.M. Asthana



Shri V.K. Gupta



Shri Mradul Kumar Agarwal



Shri Atul Kumar Aggarwala



Shri Naresh Bhardwaj
Chief Operating Officer



Shri K.K. Arora
Vice President



Shri Pramod Kumar
Vice President



Shri B.M. Mehta
Vice President



Shri D.K. Kandpal
Vice President



Shri R.K. Gupta
Associate Vice President



Shri S.N. Dubey
Associate Vice President



Shri S.C. Joshi
Associate Vice President



Shri Narendra Sharma
Associate Vice President



Shri B.S. Rachora
Associate Vice President



Shri Ravindra Saxena
Associate Vice President



Shri K.C. Tewari
Associate Vice President



Shri Deep Chandra
Associate Vice President



Shri G.C. Pant
Associate Vice President



Shri Raman Kumar Gupta
Associate Vice President



Shri Gur Charan Singh
Associate Vice President



Shri B.C. Chandola
Associate Vice President



Shri Sanjay Lal Sah
Associate Vice President



Shri R.C. Chaudhary
Associate Vice President



Shri Amar Singh
Associate Vice President



Shri M.C. Pant
Associate Vice President



Shri U. C. Ruwali
Associate Vice President

विषय-सूची

CONTENTS

निष्पादन वैशिष्ट्य 2013-2014	1	Performance Highlights 2013-2014
निदेशक मंडल की रिपोर्ट	2	Report of the Board of Directors
बासेल III पिलर 3 प्रकटीकरण	15	Basel III Pillar 3 Disclosures
31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र	42	Balance Sheet as on 31st March 2014
31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ और हानि खाता	43	Profit & Loss Account for the Year Ended 31st March, 2014
तुलन-पत्र की अनुसूचियां	44	Schedules to Balance Sheet
खातों पर टिप्पणियां	42	Notes on Accounts
31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह का विवरण	72	Statement of Cash Flow for the Year Ended 31st March, 2014
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	73	Auditors' Report
हमारी शाखायें	75	Our Branch Network

Performance Highlights 2013-14

- ❖ Total business stood at ₹ 7120 crore.
- ❖ Deposits increased to ₹ 4650 crore.
- ❖ Gross Advances increased to ₹ 2470 crore.
- ❖ CASA to total deposits stood at 36.33%.
- ❖ C.D. Ratio stands at 53.12%;
- ❖ Bank's Net Owned Funds increased to ₹ 445.28 crore.
- ❖ Cost of Deposits stands at 7 %.
- ❖ Yield on Advances stands at 12.53 %.
- ❖ Priority Sector Lending stands at 64.22% of adjusted net bank credit against RBI stipulation of minimum 40%.
- ❖ Operating Profit increased to ₹ 96.86 crore.
- ❖ Net Profit stood at ₹ 65.42 crore.
- ❖ Capital Adequacy Ratio stood at 15.02 % as per Basel-II and 15.13 % as per Basel-III norms.
- ❖ Gross NPA to gross advances stood at 2.47%.
- ❖ Net NPA remains at **0.00% (zero level)**.
- ❖ Net Interest Margin (NIM) stands at 3.71%.
- ❖ Return on Average Assets (RoA) stood at 1.48 %.
- ❖ Business per Employee increased to ₹ 8.73 crore from ₹ 7.48 crore.
- ❖ Book Value per Share stands at ₹ 65.97.
- ❖ Earning per Share (EPS) stood at ₹ 9.69.
- ❖ All branches working on CBS platform with RTGS/NEFT and SMS alert facility.
- ❖ Implementation of Financial inclusion plan in line with RBI/ GOI Directives.

निदेशक मंडल की 92वीं रिपोर्ट

92nd REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

प्रिय अंशधारको,

आपके निदेशकों को वर्ष 2013-14 के लेखा परीक्षित तुलन पत्र, लाभ-हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरणी तथा व्यवसाय व परिचालन विवरणी के साथ बैंक की 92वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष है।

महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतक:

- ◆ बैंक का सकल व्यवसाय जो 31 मार्च, 2013 को ₹. 5899 करोड़ था, 20.68 प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हुए ₹. 7120 करोड़ रहा।
- ◆ बैंक की जमा राशि जो गत वर्ष ₹.3723 करोड़ थी, 24.87 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹. 4650 करोड़ रही।
- ◆ बैंक के (सकल) अग्रिम जो विगत वर्ष ₹. 2176 करोड़ थे, 13.53 प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हुए इस वर्ष ₹. 2470 करोड़ रहे।
- ◆ कुल जमा राशि में कम लागत वाली जमा राशि (CASA) का अंश 36.33 प्रतिशत रहा।
- ◆ ऋण जमा अनुपात इस वर्ष 53.12 प्रतिशत रहा।
- ◆ बैंक की शुद्ध निजी निधि जो विगत वर्ष ₹.400.65 करोड़ थी, 31 मार्च, 2014 को ₹.445.28 करोड़ रही।
- ◆ जमा लागत विगत वर्ष के 7.23 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 7.00 प्रतिशत रही।
- ◆ अग्रिमों से आय 12.53 प्रतिशत रही।
- ◆ समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 64.22 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिया गया जबकि इसके लिए भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक 40 प्रतिशत है।
- ◆ परिचालन लाभ जो विगत वर्ष ₹.96.81 करोड़ था, 0.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹.96.86 करोड़ रहा।
- ◆ शुद्ध लाभ जो विगत वर्ष ₹. 51.06 करोड़ था, बढ़कर 31 मार्च, 2014 को ₹.65.42 करोड़ रहा।
- ◆ पूंजी पर्याप्तता अनुपात बेसल-II के अनुसार 15.02 प्रतिशत तथा बेसल III के अनुसार 15.13 प्रतिशत रहा।
- ◆ सकल अग्रिमों में सकल गै.नि.आ. (एन.पी.ए.) जो विगत वर्ष 3.09 प्रतिशत थी, 31 मार्च, 2014 को घटकर 2.47 प्रतिशत रही।
- ◆ शुद्ध गै.नि.आ. का प्रतिशत 0.00 (शून्य) बना रहा।
- ◆ शुद्ध व्याज अन्तर (एनआईएम) 3.71 प्रतिशत रहा।
- ◆ औसत आस्तियों से प्राप्ति 1.48 प्रतिशत रही।
- ◆ प्रति कर्मचारी व्यवसाय ₹. 7.48 करोड़ से बढ़कर ₹. 8.73 करोड़ रहा।

Dear Members,

The Directors of your Bank feel immense pleasure in presenting the 92nd Annual Report of the Bank along with statement of the Audited Balance Sheet, Profit & Loss Account, Cash-Flow Statement and the Report on Business and Operations for the year 2013-14.

KEY PERFORMANCE INDICATORS

- ◆ Total business of the Bank increased from ₹ 5899 crore as on 31st March 2013 to ₹ 7120 crore, registering a growth of 20.68%.
- ◆ Deposits increased to ₹ 4650 crore against ₹ 3723 crore last year, recording a growth of 24.87%.
- ◆ Gross Advances registered a growth of 13.53% over previous year to reach at ₹ 2470 crore against ₹ 2176 crore last year.
- ◆ Share of CASA to total deposits stood at 36.33%.
- ◆ C.D. Ratio stood at 53.12%.
- ◆ Bank's Net owned Funds increased to ₹ 445.28 crore as on March 31, 2014 as against ₹ 400.65 crore last year.
- ◆ Cost of Deposits reduced to 7.00 % as on March 31, 2014 as against 7.23% last year.
- ◆ Yield on Advances stood at 12.53 %.
- ◆ Priority Sector Lending stood at 64.22% of Adjusted Net Bank Credit against RBI stipulation of minimum 40%.
- ◆ Operating Profit increased to ₹ 96.86 crore, up by 0.05% as against ₹ 96.81 crore last year.
- ◆ Net Profit increased to ₹ 65.42 crore as on March 31, 2014 as against ₹ 51.06 crore last year.
- ◆ Capital Adequacy Ratio stood at 15.02 % as per Basel - II and 15.13 % as per Basel-III norms
- ◆ Gross NPA to gross advances reduced to 2.47% as on March 31, 2014 as against 3.09% last year.
- ◆ Net NPA maintained at 0.00% (zero level).
- ◆ Net Interest Margin (NIM) stood at 3.71%
- ◆ Return on Average Assets stood at 1.48 %
- ◆ Business per Employee increased to ₹ 8.73 crore from ₹ 7.48 crore

- ◆ प्रति शेयर बही मूल्य जो विगत वर्ष रु.59,36 था, 31 मार्च, 2014 को बढ़कर रु.65,97 रहा ।
- ◆ प्रति शेयर आय (ई.पी.एस.) जो विगत वर्ष रु.7,56 थी 31 मार्च, 2014 को बढ़कर रु. 9,69 हो गई ।
- ◆ बैंक की सभी शाखाएं आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी और एस.एम.एस. एलर्ट सुविधा के साथ सी.बी.एस. पटल पर कार्य कर रही हैं ।
- ◆ भा.रि.बैं./भारत सरकार के अनुदेशों की तर्ज पर वित्तीय समावेशन (फाइनेन्सियल इन्क्लूजन) योजना का कार्यान्वयन किया गया ।
- ◆ Book Value per Share increased to ₹ 65.97 as on March 31, 2014 as against ₹ 59.36 last year.
- ◆ Earning per Share (EPS) increased to ₹ 9.69 as on March 31, 2014 as against ₹ 7.56 last year.
- ◆ All branches working on CBS platform with RTGS/NEFT and SMS Alert facility
- ◆ Implementation of Financial inclusion plan in line with RBI/ GOI Directives.

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

तीन वर्ष की मंदी के उपरान्त वर्ष 2013 की दूसरी छमाही में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में मजबूती आई और 2014 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि में सुधार का अवसर मिला । हाल में किये गये आंकलन के अनुसार 2014 में भौगोलिक वृद्धि के 3.5 प्रतिशत के समीप होने की उम्मीद है जो 2013 से लगभग 0.50 प्रतिशत बिन्दु अधिक है । यह उम्मीद की जाती है कि वैश्विक उत्पादन में वृद्धि पर विकसित अर्थव्यवस्थाओं विशेषकर अमेरिका का नियंत्रण होगा । 2013 के तीसरे त्रैमास में अमेरिका के स.घ.उ. (जीडीपी) में 4.10 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि हुई जो कि दूसरे त्रैमास में 2.50 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में सुधार की ओर इंगित करती है । परन्तु लगातार दो त्रैमासों में मंदी ने जापान की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि की उम्मीद को कम कर दिया । तथापि अमेरिका में मात्रात्मक सुधारों की गति में कमी, सतत मंदी की चिन्ता, यूरो क्षेत्र में कमजोर तुलन पत्र और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव के कारण वृद्धि के मार्ग में जोखिम उत्पन्न हुआ । चीन में कमजोर पड़ती वृद्धि और वित्तीय अनिश्चितता, जो हाल के वर्षों में तेजी से ऋण के कारण उत्पन्न हुई, वैश्विक व्यापार और विकास के लिए बड़ा जोखिम है । उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में चीन के स.घ.उ. (जीडीपी) में वृद्धि जो तीसरे त्रैमास में 9.10 प्रतिशत थी घटकर चौथे त्रैमास में 7.40 प्रतिशत रही । ब्राजील के स.घ.उ. में 2013 के दूसरे त्रैमास में 7.20 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में तीसरे त्रैमास में 1.90 प्रतिशत का संकुचन हुआ ।

भारतीय आर्थिक परिदृश्य

2013-14 के दूसरे त्रैमास में भारत के स.घ.उ. की मंदी में पिछले त्रैमास की गतिविधियों से उलट कुछ सुधार हुआ । इस सुधार के बावजूद 2013-14 की प्रथम छःमाही में वृद्धि दर विगत वर्ष की प्रथम छः माही से न्यूनतर थी । मुद्रास्फीतिक दबाव और संरचनात्मक कमियाँ कुछ ऐसे तथ्य हैं जो वृद्धि की प्रक्रिया को कम करने के कारण रहे हैं ।

चालू वित्त वर्ष में अभी तक भारतीय अर्थव्यवस्था में मंद वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति का परस्पर विपरीत मिश्रण रहा है । परन्तु खरीफ और रबी की फसल के बेहतर होने से कृषि में अपेक्षित उछाल और सुधरी हुई वैश्विक वृद्धि के कारण निर्यात में उभार एवं घटी हुई विनिमय दरों के कारण 2013-14 की दूसरी छः माही में वृद्धि पहली छः माही से किंचित अधिक होना संभावित है ।

निवेश और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी के परिणाम स्वरूप अप्रैल-नवम्बर, 2013 के दौरान औद्योगिक उत्पादन संकुचित रहा जो पूंजीगत माल और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में कमी में परिलक्षित होता

GLOBAL ECONOMIC SCENE

After three years of deceleration, global economic activity had strengthened in second half of 2013, global growth is poised to improve in 2014. On the current reckoning, global growth is likely to be in the vicinity of 3.50% in 2014, about 0.50 a percentage point higher than in 2013. The expansion in global output is expected to be led by advanced economies (AEs), especially the US. The US GDP increased at an annual rate of 4.10% in Q3 of 2013 as against 2.50% in Q2. The United Kingdom continued on a recovery path for the third consecutive quarter in Q3 of 2013 with a growth of 3.10% (q-o-q). However, the expectations of faster growth have diminished for Japan with q-o-q deceleration for two successive quarters. However, downside risks to growth trajectory arise from ongoing tapering of quantitative easing (QE) in the US, continuing deflation concerns and weak balance sheets in the euro area and, inflationary pressures in the emerging market and developing economies (EMDEs). Weakening growth and financial fragilities in China, that have arisen from rapid credit in recent years, pose a large risk to global trade and growth. Among the EMDEs, China's GDP growth in Q4 of 2013 slowed down to 7.40% as compared with 9.10% in Q3. Brazil's GDP witnessed a contraction of 1.90% in Q3 of 2013 in contrast to a growth of 7.20% in Q2

INDIAN ECONOMIC ENVIRONMENT

The deceleration in growth of India's GDP picked up moderately in Q2 of 2013-14 reversing the direction of the previous quarter's movement. However, despite this pickup, the growth rate in first half of 2013-14 was lower than in first half of last year. Inflationary pressures and structural bottlenecks are some of the factors weighing down the growth process.

During the current fiscal so far, the Indian economy has experienced an adverse mix of slowing growth and high inflation. However, an expected rebound in agriculture on the back of better kharif and rabi crops and a pickup in exports driven by improved global growth prospects and depreciated exchange rate is likely to keep growth in second half 2013-14 a tad higher than it was in first half.

Subdued investment and consumption demand resulted in contraction in industrial output during April-November 2013, which is reflected in a decline in the production of capital goods

है। इसके अलावा नियामक और वातावरण सम्बन्धी मामलों के कारण खदान क्षेत्र में संकुचन ने भी औद्योगिक उत्पादन में समग्रतः कमी लाने में योगदान दिया।

2013-14 में उद्योगों को ऋण में कमी आई और यह (विगत वर्ष के 15.20 प्रतिशत से घटकर) 14.10 प्रतिशत हो गया। दिसम्बर 2013 के दौरान कृषि और सम्बन्धित कार्यकलापों को ऋण में भी कमी देखी गई।

भारतीय अर्थव्यवस्था के परिदृश्य में सावधानीपूर्ण सकारात्मक व्यावसायिक संवेदनार्थ, ग्राहकों के सुधरे हुए आत्मविश्वास, वृद्धि में हल्के सुधार की उम्मीद और मुद्रास्फीति में कमी की सम्भावना की वजह से पिछले दो महीनों में सुधार आया किन्तु मध्य अवधि में गैर-मुद्रास्फीतिकारी गति बनाये रखने की चुनौती बनी हुई है। 2013-14 के तीसरे त्रैमास में स.घ.उ. में 4.70 प्रतिशत की वृद्धि विगत वर्ष के इस त्रैमास से थोड़ी सी अधिक रही लेकिन यह इस सुझाव को देने के लिए पर्याप्त नहीं है कि 2013-14 के दौरान 4.90 प्रतिशत का अग्रिम अनुमान पूरा किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को इस वृद्धि को प्राप्त करने के लिए चौथे त्रैमास में 5.50 प्रतिशत की वृद्धि अंकित करनी होगी जो वर्तमान आकलन में कठिन प्रतीत होती है।

रिजर्व बैंक द्वारा कराये गये बाहर के प्रोफेशनल पूर्वानुमान लगाने वालों के पर्यवेक्षण के 27वें चक्र में यह दर्शाया गया है कि 2014-15 में हल्के सुधार के साथ लगभग 5.50 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। 2014-15 के लिए प्रत्याशित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति को पिछले चक्र के सर्वेक्षण के 8.50 प्रतिशत से घटाकर 8.00 प्रतिशत किया गया है। उनका 2014-15 में चालू खाता घाटे का पूर्वानुमान भी महत्वपूर्ण रूप से कम होकर स.घ.उ. का 2.4 प्रतिशत हो गया है।

भारतीय बैंकिंग परिदृश्य

बैंकिंग व्यवस्था आर्थिक स्थिति का प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब होता है। अनु.वा.बैं. के लिए आस्तियों की गुणवत्ता बड़ी चिन्ता का विषय बनी रहती है। अनु. वा.बैं. की सकल गै.नि.आ. जो मार्च, 2013 को 3.40 प्रतिशत थी सितम्बर, 2013 की समाप्ति पर 4.20 प्रतिशत हो गयी। पुनः संरचित मानक अग्रिम भी जो मार्च, 2013 को सकल अग्रिम का 5.80 प्रतिशत थे बढ़कर सितम्बर, 2013 के अंत तक सकल अग्रिम का 6.00 प्रतिशत हो गये। समग्रतः दबाव झेल रहे अग्रिम जो मार्च, 2013 को सकल अग्रिम का 9.20 प्रतिशत थे महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाते हुए सितम्बर, 2013 की समाप्ति पर सकल अग्रिम का 10.20 प्रतिशत रहे।

वित्तीय स्थिरता को बनाये रखते हुए भा.रि.बैं. ने बैंकिंग व्यवस्था में सहभागी प्लेयर्स के भिन्नता और कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से दो नये वाणिज्यिक बैंकों को लाइसेंस जारी किए हैं। इस अनुभव की जांच के उपरान्त भा. रि.बैं. लाइसेंस देने की अधिक नियमित प्रक्रिया घोषित करेगा। चूंकि बढ़ती हुई गै.नि.आ. वर्ष भर भारी चिन्ता का विषय रही है, भा.रि.बैं. ने भारत में बेसल III के अन्तर्गत पूंजी विनियमतीकरण के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए अन्तर्वर्ती अवधि को 31 मार्च 2018 की वजाय 31 मार्च, 2019 कर दिया है। यह भारत में बेसल III के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य 1 जनवरी, 2019 की दिनांक के अनुरूप एवं करीब होगी।

and consumer durables. This apart, contraction of the mining sector due to regulatory and environmental issues has also contributed to the overall decline in the industrial output.

Deployment of credit to industries moderated in 2013-14, decelerated to 14.10% (from 15.20% last year). A slowdown in credit off-take across agriculture and allied activities was also witnessed during December 2013.

The outlook for the Indian economy has improved over the past two months with cautiously positive business sentiments, improved consumer confidence, expectations of a modest recovery in growth and decline in inflation expectations. However, the challenge remains for maintaining disinflationary momentum over the medium term. GDP growth at 4.70% in Q3 of 2013-14, was slightly higher than that in the corresponding quarter of the previous year, but it has not been enough to suggest that the advanced estimates of 4.90% during 2013-14 could be realized. The economy will now have to record a 5.50% growth in Q4 to realize that growth, which on current assessment looks difficult.

Reserve Bank's 27th round of the Survey of Professional Forecasters outside the Reserve Bank showed that a modest recovery in 2014-15 is expected with growth at round 5.50%. The expected CPI inflation for 2014-15 has been revised downwards to 8.00% from 8.50% in the previous round of the survey. Their forecast for CAD in 2014-15 is also now significantly lower at 2.40% of GDP.

INDIAN BANKING SCENARIO

The Banking system is a direct reflection of the state of the economy. Asset quality continues to be a major concern for SCBs. The GNPA ratio of SCBs increased to 4.20% as at end September 2013 from 3.40% of March 2013. The restructured standard advances also increased to 6.0% of total advances as at end September 2013 from 5.80% of March 2013. Overall the stressed advances rose significantly to 10.20 % of total advances as at end September 2013 from 9.20% of March 2013.

With a view to expand the variety and efficiency of players in Banking system while maintaining with financial stability RBI has announced two new Commercial Bank licenses. After examining this experience RBI will announce a more regular process of giving licenses. As the growing NPA has been matter of deep concern throughout the year, RBI has extended the transitional period for full implementation of Basel III Capital Regulations in India up to March 31, 2019, instead of as on March 31, 2018. This will also align full implementation of Basel III in India closer to the internationally agreed date of January 1, 2019.

अनु.वा.बैं. के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण कुछ बैंकों में लागू किया गया है। बैंकों से जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की रूपरेखा पर प्राप्त प्रतिक्रिया (Feedback) के आधार पर इसे सुधारा जा रहा है। भारि.बैं. ने अपने जोखिम प्रबंधन संरचना, व्यवहार, सम्बन्धित प्रक्रियाओं और प्रबंधन सूचना व्यवस्था (MIS) को मजबूत करने पर जोर दिया है ताकि जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के दूसरे चरण में आसानी से जाया जा सके।

सूक्ष्म और लघु उद्योगों के उधारकर्ताओं को ऋण प्रवाह प्रोत्साहित करने के लिए भारि.बैं. ने अनु.वा.बैं. को सूक्ष्म और लघु उद्योगों के उधारकर्ताओं और अन्य उन उधारकर्ताओं जिनकी ऋण सुविधाएं 'ऋण गारन्टी योजना' के अन्तर्गत आती है, को भिन्न ब्याज दर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अनु.वा.बैं. को प्रोत्साहित किया गया है कि वे अपनी सूक्ष्म और लघु उद्योगों के क्षेत्र को ऋण देने की नीति की समीक्षा करें और सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र के उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन में अपने निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित गुणांकन नमूने (Scoring Model) को ध्यान में रखें।

बैंक के कार्यकलाप

उपरोक्त परिदृश्य के अन्तर्गत विविध मानकों में हमारे बैंक के कार्यकलाप निम्नानुसार रहे –

वित्तीय उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.14 की स्थिति के अनुसार	31.03.13 की स्थिति के अनुसार
1.	कुल ब्याज आय	432,58	392,71
	(क) अग्रिमों से ब्याज के रूप में आय	268.03	256.53
	(ख) निवेशों से ब्याज के रूप में आय	79,39	83,27
	(ग) अन्य	85,16	52,91
2.	गैर ब्याज आय	25,95	30,26
	कुल आय—क (1 + 2)	458,53	422,97
3.	कुल ब्याज जो खर्च किया गया	268,72	246,10
	(क) जमा पर खर्च किया गया ब्याज	268,63	245,49
	(ख) अन्य ब्याज व्यय	0,09	00,61
4.	स्टाफ लागत	63,32	53,79
5.	अन्य परियालन लागत	29,63	26,27
	सकल खर्च—ख (3 + 4 + 5)	361,67	326,16
	परिचालन लाभ (क – ख)	96,86	96,81
	प्रावधान और आकस्मिकताएं—ग	31,43	45,75
	शुद्ध लाभ (क—ख—ग)	65,43	51,06

The risk-based supervision (RBS) for scheduled commercial banks (SCBs), has been implemented in few banks. The framework is being fine-tuned on the basis of feedback received on the RBS framework from banks. RBI has emphasized to strengthen their risk management architecture, practices, related processes and management information systems (MIS) in order to smooth switch over to RBS in Phase II.

In order to give a boost to the flow of credit to micro and small enterprises (MSEs) borrowers, RBI has directed SCBs to provide differential interest rates for MSEs and other borrowers whose loans are covered under the credit guarantee scheme. SCBs are encouraged to undertake a review of their loan policy governing extension of credit facilities to the MSE sector and should consider using Board approved credit scoring models in their evaluation of the loan proposals of MSE borrowers.

BANK'S PERFORMANCE

Under the above scenario the Bank's performance on various parameters was as listed below:

FINANCIAL HIGHLIGHTS

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31,3,2014	As on 31,3,2013
1.	Total Interest Income	432,58	392,71
	(a) Interest Income from Advances	268,03	256,53
	(b) Interest Income from Investments	79,39	83,27
	(c) Others	85,16	52,91
2.	Non Interest Income	25,95	30,26
	TOTAL INCOME –A (1+2)	458,53	422,97
3.	Total Interest Expended	268,72	246,10
	(a) Interest Expended on Deposits	268,63	245,49
	(b) Other Interest Expenses	0,09	00,61
4.	Staff Cost	63,32	53,79
5.	Other Operating Costs	29,63	26,27
	Total Expenses - B (3+4+5)	361,67	326,16
	Operating Profit (A–B)	96,86	96,81
	Provision & Contingencies – C	31,43	45,75
	Net Profit (A – B – C)	65,43	51,06

वित्तीय अनुपात

क्र. सं.	विवरण	31.03.14 की स्थिति के अनुसार	31.03.13 की स्थिति के अनुसार
1.	जमा की औसत लागत (%)	7.00	7.23
2.	अग्रिमों से औसत प्राप्ति (%)	12.53	13.03
3.	शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	3.71	3.73
4.	आस्तियों से औसत प्राप्ति (%)	1.48	1.30
5.	औसत कार्यशील निधि में स्टाफ का खर्च (%)	1.43	1.37
6.	औसत कार्यशील निधि पर परिचालन लाभ (%)	2.19	2.46
7.	प्रति शेयर आय (₹0 में)	9.69	7.56
8.	प्रति शेयर बही मूल्य (₹0 में)	65.97	59.36

पूंजी की पर्याप्तता

बेसल II के मानकों के अन्तर्गत बैंक की पूंजी की पर्याप्तता जो विगत वर्ष 14.43 प्रतिशत थी, बढ़कर 15.02 प्रतिशत रही। 31.03.2014 को सकल पूंजी की पर्याप्तता में टियर-I पूंजी 14.58 प्रतिशत तथा टियर-II पूंजी 0.44 प्रतिशत रही।


31.03.2014 को बेसल III मानकों के अन्तर्गत पूंजी की पर्याप्तता 15.13 प्रतिशत रही जिसमें टियर-I पूंजी 14.69 प्रतिशत तथा टियर-II पूंजी 0.44 प्रतिशत है।

31.03.2014 को बैंक की शुद्ध निजी निधि ₹. 445.28 करोड़ है जबकि 31.03.2013 को यह ₹. 400.65 करोड़ थी। इस प्रकार इसमें विगत वित्तीय वर्ष से 11.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

जमा संग्रहण

बैंक की जमा राशियां जो 31.03.13 को ₹. 3723 करोड़ थीं, 31.03.2014 को बढ़कर ₹. 4650 करोड़ हो गयीं। इस प्रकार इनमें 24.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 31.03.2014 को कुल जमा राशियों में कम लागत वाली जमा राशियां 36.33 प्रतिशत रहीं जबकि विगत वर्ष ये 39.40 प्रतिशत थीं।

कुल जमा राशि



FINANCIAL RATIOS

Sr. No.	Particulars	As on 31.3.2014	As on 31.3.2013
1.	Average cost of Deposits (%)	7.00	7.23
2.	Average Yield on Advances (%)	12.53	13.03
3.	Net Interest Margin (%)	3.71	3.73
4.	Average Return on Assets (%)	1.48	1.30
5.	Staff Expenses to Avg. working Fund (%)	1.43	1.37
6.	Operating Profit to Avg. Working Funds (%)	2.19	2.46
7.	EPS (in Rs)	9.69	7.56
8.	Book value per share (in Rs)	65.97	59.36

CAPITAL ADEQUACY

Bank's Capital Adequacy under Basel II norms improved to 15.02 % against 14.43% last year. Out of the total Capital Adequacy, Tier I capital was 14.58% and Tier II was 0.44% as on 31.3.2014.


The capital adequacy under Basel III norms stood at 15.13% out of which, Tier I Capital was 14.69% & Tier II was 0.44% as on 31.03.2014.

The net owned funds of the Bank is ₹ 445.28 crore as on 31.3.2014 against ₹ 400.65 crore as on 31.3.2013 representing a strengthening of capital by 11.14 % over previous financial year.


DEPOSIT MOBILISATION

The Deposits of the Bank as on 31.3.2014 increased to ₹ 4650 crore from 3723 crore on 31.3.2013, showing a growth of 24.87%. The share of low cost deposit was 36.33% as on 31.3.2014 as against 39.40 % in previous year.


TOTAL DEPOSIT



कम लागत वाली जमा राशियाँ



LOW COST DEPOSIT




अग्रिम अभिनियोजन

31.03.2014 को बैंक का सकल ऋण बढ़कर रु. 2470 करोड़ हो गया जबकि 31.03.2013 को यह रु. 2176 करोड़ था। इस प्रकार इसमें विगत वर्ष से 13.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई।


CREDIT DEPLOYMENT

The gross advances of the Bank increased to ₹ 2470 crore as on 31.3.2014 from ₹ 2176 crore on 31.3.2013, showing a rise of 13.53 % over previous year.

सकल अग्रिम




GROSS ADVANCES




प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण पूर्व की तरह ही भा0रि0बैं0 द्वारा निर्धारित 40 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक रहा। 31.03.2014 को बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को सकल अग्रिम रु. 1402.55 करोड़ रहा जबकि 31.03.2013 को यह रु. 1093.99 करोड़ था। इस प्रकार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण बैंक के सकल ऋण का 56.78 प्रतिशत रहा।

The priority sector advances of the Bank continued to be higher than regulatory stipulation of RBI @ 40%. The gross priority sector advances of the Bank increased to ₹ 1402.55 crore as on 31.3.2014 from ₹ 1093.99 crore as on 31.3.2013 representing 56.78 % of gross advances.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम



PRIORITY SECTOR ADVANCES



बैंक का खुदरा ऋण जो 31.03.2013 को रु. 1562 करोड़ था, 31 मार्च, 2014 को 3.26 प्रतिशत की वृद्धि अंकित करते हुए रु. 1613.00 करोड़ रहा।

Retail advances of the Bank increased to ₹ 1613 crore as on March 31, 2014 from ₹ 1562 crore as on 31.03.2013 registering a growth of 3.26%.

अग्रिमों से औसत प्राप्ति, जो विगत वर्ष 13.03 प्रतिशत थी, 31.03.2014 को 12.53 प्रतिशत रही।

The average yield on advances stood at 12.53% as on 31.03.2014 as against 13.03% last year.

नये प्रयास

आज के वैश्विक गांव में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग आवश्यक हो गया है – न केवल सफलतापूर्वक बैंकिंग परिचालन के लिए अपितु ग्राहकों की बढ़ती हुई मांगों की संतुष्टि के लिए भी । पिछली दो दशकियों में तकनीकी ने बैंकिंग को पुनर्परिभाषित किया है । ग्राहकों की कुशलता से और प्रभावपूर्ण ढंग से, सेवा का मार्ग कम्प्यूटरीकरण और उपलब्ध तकनीकी का सर्वाधिक उपयोग करना है । बैंक की सभी शाखाएं सीबीएस पटल पर कार्य कर रही हैं और ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सुविधा जैसे आरटीजीएस, एनइएफटी, आईएमपीएस(एसएमएस चैनल पर मोबाइल बैंकिंग) आदि दे रहा है । बैंक अपने ग्राहकों को रु पे एटीएम कार्ड और एसएमएस बैंकिंग सुविधा जारी कर रहा है ।

बैंक ने सूचना तकनीकी (IT) कार्ययोजना तैयार की है जिसमें व्यावसायिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र जिन पर जोर देना है चिन्हित किये गये हैं –

- डेबिट कार्ड जारी करना
- नेट बैंकिंग का क्रियान्वयन
- ऑटोमेटेड डेटा फ्लो (एडीएफ) का क्रियान्वयन

विकास

- मोबाइल बैंकिंग सेवाओं (IMPS) का क्रियान्वयन
- ऑटोमेटेड डेटा फ्लो (एडीएफ) और एम आई एस प्रोजेक्ट उच्च स्थिति में हैं । एडीएफ/एम आई एस से 30 रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं ।
- रुपये एटीएम कार्ड से विभिन्न खातों को जोड़ने वाली सुविधा का कार्यान्वयन ।
- उ.प्र. राज्य में भी ई-स्टाम्प की बिक्री का विस्तार ।

आस्ति गुणवत्ता प्रबन्धन

गै.नि.आ. को रोकने की दिशा में अधिसक्रिय रवैया अपनाकर तथा वसूली के प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करके बैंक 20013-14 के दौरान अपनी गैर निष्पादक आस्तियों को कम करने में सफल रहा है ।

आस्तियों का वर्गीकरण निम्नानुसार है:-

आस्ति वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

	31.03.14 की स्थिति के अनुसार		31.03.13 की स्थिति के अनुसार	
	राशि	%	राशि	%
मानक	2408.71	97.53	2108.78	96.92
अवमानक	12.02	0.49	43.42	1.99
संदिग्ध	31.47	1.27	17.55	0.81
हानिकर आस्ति	17.61	0.71	05.94	0.27
सकल अग्रिम	2469.99	100	2175.69	100

NEW INITIATIVES

In today's Global village, extensive use of information technology has become a necessity not only to carry out successful banking operations but also to satisfy growing customer demands. In last two decades, the technology has redefined the 'Banking'. To serve the customer efficiently and effectively, the way-out is to go in for computerization and make maximum use of technology available. Bank's all branches are functioning on CBS platform and facilitating customers by providing electronic payment facility like RTGS, NEFT, IMPS (mobile banking on SMS channel). Bank is issuing RuPay ATM cards and SMS banking facility to its customers.

Bank has prepared IT Strategy Plan wherein following major thrust areas are identified for achieving business growth-

- Issuance of Debit Cards
- Implementation of Net Banking
- Implementation of Automated Data Flow (ADF)

DEVELOPMENTS

- Implemented Mobile Banking Services (IMPS)
- Automated Data Flow (ADF) & MIS Project is in advance stage. 30 reports are being generated from ADF/ MIS.
- Implemented multiple accounts linking facility with single RuPay ATM cards.
- Sale of e-stamps extended in the state of U.P. also.

ASSET QUALITY MANAGEMENT

The Bank has a proactive approach towards tackling NPAs and focused recovery efforts, the Bank has been able to contain its Non Performing Assets during Financial Year 2013-14.

The Asset classifications of the Bank are detailed below:

ASSET CLASSIFICATION

(₹ in crore)

	As on 31,3,2014		As on 31,3,2013	
	Amount	%	Amount	%
Standard	2408.71	97.53	2108.78	96.92
Sub-Standard	12.02	0.49	43.42	1.99
Doubtful	31.47	1.27	17.55	0.81
Loss assets	17.61	0.71	05.94	0.27
Gross Advances	2469.99	100	2175.69	100

31.03.2014 को बैंक की सकल गैर निष्पादक आस्तियाँ रु. 61.10 करोड़ रहीं। 31.03.13 को ये रु. 67.26 करोड़ थीं। उन खातों में जो निम्नतर स्तर में फिसल गये हैं वसूली के मजबूती से प्रयास किये जा रहे हैं। आशा है कि सभी बड़े खाते चालू वित्तीय वर्ष में मानक आस्तियों के अन्तर्गत आ जायेंगे। फिर भी बैंक ने समूचे खराब खातों के लिए शत प्रतिशत का प्रावधान किया है और शुद्ध एन पी ए के स्तर को शून्य पर बनाये रखा है।

निवेश परिचालन

विभिन्न प्रतिभूतियों में बैंक के कुल निवेश जो 31.3.2013 को रु. 1035.60 करोड़ थे 31 मार्च, 2014 को रु. 1139.74 करोड़ रहे। कुल निवेश की 36.10 प्रतिशत प्रतिभूतियाँ "बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी" में "बाजार मूल्य पर चिन्हित" हैं तथा शेष 63.90 प्रतिशत प्रतिभूतियाँ "परिपक्वता अवधि तक रखे गए निवेश" श्रेणी में वर्गीकृत हैं।

निवेशों में लेन-देन, प्राप्तियों में सर्वाधिक वृद्धि करने तथा मूल्य ह्रास से संविभाग को सुरक्षित रखने के साथ-साथ पर्याप्त तरलता बनाये रखने के लिए किया गया।

लाभप्रदता

बैंक का सकल लाभ जो 31.03.2013 को रु. 96.81 करोड़ था 31.03.2014 को रु. 96.86 करोड़ रहा। बैंक का शुद्ध लाभ 31.03.2014 को रु. 65.42 करोड़ रहा जबकि 31.03.2013 को यह रु. 51.06 करोड़ था। प्रति शाखा व्यवसाय 31.03.2013 के रु. 55.13 करोड़ के स्तर से बढ़कर 31.03.14 को रु. 61.38 करोड़ रहा। उन 13 शाखाओं में से जो 31.03.2013 को घाटा दे रही थी 8 शाखाएं लाभ अर्जित करने लगी हैं। तथापि 31.03.2014 को हानि देने वाली शाखाओं की संख्या 14 रही जिनमें से 9 शाखाएं चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खोली गईं।

आंतरिक नियन्त्रण व्यवस्था

बैंक का निरीक्षण प्रभाग उचित लागत से बैंक के कार्य कलापों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण को बढ़ाने के कार्य कर रहा है। बेहतर पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए वर्ष के दौरान "जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा" व्यवस्था को युक्तिसंगत रूप से अपनाया गया है। निरीक्षण प्रभाग निदेशक मंडल की अंकेक्षण समिति को भी और अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने में सहयोग देता है। बैंक ने निर्धारित व्यवसाय को समवर्ती लेखा परीक्षा नियंत्रण के अन्तर्गत सम्मिलित करने के सम्बन्ध में भा.रि.बैं. द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया है।

सामाजिक कार्यकलाप

बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और लाभप्रदता पर दबाव के माहौल में भी बैंक सामाजिक बैंकिंग के अन्तर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के प्रति जागरूक रहा है। प्राथमिक क्षेत्र को ऋण का लक्ष्य पूर्ववत् पूरा कर लिया गया। वर्ष के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को रु. 1402.55 करोड़ का ऋण दिया गया जो कुल बैंक ऋण का 56.78 प्रतिशत है, जबकि कृषि ऋण रु. 378.41 करोड़ रहा जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 17.56 प्रतिशत है और इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 18 प्रतिशत के न्यूनतम मानक से कम है।

वर्ष के दौरान हमारे बैंक को आवंटित 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी

Gross NPA of the Bank declined to ₹ 61.10 crore as on 31.3.2014 from ₹ 67.26 crore as on 31.3.2013. Recovery efforts in slipped accounts are being done vigorously and the Bank expects to turn all big ticket accounts to standard asset during the current financial year. However, the Bank made 100% provision to cover entire impaired portfolio and maintained the status of Net NPA at ZERO level.

INVESTMENT OPERATIONS

Total Investments of the Bank in various securities stood at ₹ 1139.74 crore as on 31.3.2014 against ₹ 1035.60 crore on 31.3.2013. Out of total investments, 36.10% securities have been "marked to market" in "available for sale (AFS) category" and rest 63.90% is classified under "Held to maturity (HTM)" category.

The investment transactions were taken with a view to maximize yield, protect portfolio against depreciation and simultaneously ensuring sufficient liquidity.

PROFITABILITY

Gross Profit of the Bank has increased to ₹ 96.86 crore as on 31.3.2014 from ₹ 96.81 crore as on 31.3.2013. Net profit of the Bank stood at ₹ 65.42 crore on 31.3.2014 against ₹ 51.06 crore on 31.3.2013. Business per branch increased to ₹ 61.38 crore as on 31.3.2014 from ₹ 55.13 crore as on 31.3.2013. Out of 13 loss making branches as on 31.03.2013, eight branches turned profitable. However the total number of loss making branches as on 31.03.2014 stood at 14 which included nine branches opened during the current financial year.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Inspection division of the Bank is promoting effective control on the affairs of the Bank at a reasonable cost. The 'Risk Based Internal Audit' system has been suitably adopted during the year to have better supervision and control. Audit committee of the Board is also being assisted by Inspection Department to discharge its obligations more effectively. Bank has complied with the directives of the regulator in respect of coverage of stipulated business under concurrent audit system.

SOCIAL COMMITMENT

The Bank has maintained its focus on meeting commitments under social Banking even in the era of increased competition and stress of profitability. Priority sector lending targets continued to be surpassed. Lending to priority sector stood at ₹1402.55 crore during the year and constituted 56.78% of the total advances, whereas agriculture credit stood at ₹ 378.41 crore constituting 17.56% of Adjusted Net Bank Credit, which is below the minimum norms of 18% laid down by the Reserve Bank of India, for the purpose.

Financial Inclusion Plan has been implemented in all the 11

—11— गांवों में आई.सी.टी. आधारित बिजनेस करैसपोन्डेंट मॉडल (बी.सी.) को ग्रहण करके वित्तीय समावेशन योजना को क्रियान्वित किया गया है। 31.03.2014 को वित्तीय समावेशन सुविधा के अन्तर्गत 1315 बचत बैंक खातों में ओवर ड्राफ्ट सुविधा दी गई जिनकी सकल बकाया राशि ₹.1.74 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बी.सी.—आई.सी.टी. में ₹.48.16 लाख के 1367 ऋण लेन-देन किये गये।

2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 11 गांवों के अतिरिक्त हमारे बैंक को उत्तराखण्ड में ऐसे 384 गांव तथा उत्तर प्रदेश में 27 ऐसे गांव जिनकी आबादी 2000 से कम है, भी एतद्धर्त आवंटित किये गये हैं।

हमारी सेवा प्रदाता कम्पनी में टी.सी.पी.एस.एल. ने उन 215 गांवों में जिनकी आबादी 2000 से कम है बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 39 बी.सी. एजेंट नियुक्त किए हैं। कुल 39 बी.सी. एजेंटों में से 32 एजेंट आज तक कार्यरत हैं।

शाखा जाल एवं शाखा विस्तार कार्यक्रम

बैंक ने वर्ष के दौरान —9— नई शाखाएं खोलीं जिनसे 31.03.2014 को इसकी कुल शाखाओं की संख्या 116 हो गई। बैंक वित्तीय वर्ष 2014-15 में 15 और शाखाएं खोलने का प्रस्ताव रख रहा है।

बैंक की वर्तमान शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	क्षेत्र	शाखाओं की संख्या	
		2014	2013
1	महानगरीय	24	20
2	शहरी	27	24
3	अर्द्धशहरी	38	38
4	ग्रामीण	27	25
	कुल	116	107

वर्तमान में बैंक की शाखाएँ देश के 5 राज्यों में हैं। इनका राज्य वार विवरण नीचे दिया गया है -

शाखाओं की राज्य वार स्थिति

क्र०सं०	क्षेत्र	शाखाओं की संख्या	
		2014	2013
1	दिल्ली	16	14
2	हरियाणा	05	03
3	राजस्थान	02	02
4	उत्तर प्रदेश	28	26
5	उत्तराखण्ड	65	62
	कुल	116	107

villages allotted to our Bank having population above 2000 by adopting ICT based Business Correspondent model. Total number of overdrafts in Savings Bank accounts opened under FI are 1315 as on 31.03.2014 and total outstanding amount is ₹ 1.74 crore. A total number of 1367 credit transactions amounting to ₹ 48.16 lac were carried out in BC-ICT Accounts during the FY 2013-14.

Apart from allocation of 11 villages having population above 2000, our Bank has been allotted 384 villages in Uttarakhand and 27 villages in Uttar Pradesh having population below 2000.

Our vendor company M/s TCPSL has appointed 39 BC agents for providing Banking services in 215 villages having population below 2000. Out of the total 39 BC agents 32 agents have been activated till date.

BRANCH NETWORK & EXPANSION PROGRAMME

The Bank has opened 9 new branches during the year increasing its tally to 116 as on 31.03.2014. The Bank is proposing to open 15 more branches in F.Y. 2014-15.

Area wise classification of existing branches of the Bank is detailed below:

S. No.	Area	No. of Branches	
		2014	2013
1	Metro	24	20
2	Urban	27	24
3	Semi Urban	38	38
4	Rural	27	25
	Total	116	107

The Bank is having its presence in - 5- states of the country. The State wise position of branches is given below:

STATE WISE POSITION OF BRANCHES

S. No.	Area	No. of Branches	
		2014	2013
1	Delhi	16	14
2	Haryana	05	03
3	Rajasthan	02	02
4	Uttar Pradesh	28	26
5	Uttarakhand	65	62
	Total	116	107

मानव संसाधन की स्थिति

बैंक के कुल कर्मचारियों की संवर्ग वार संख्या इस प्रकार रही :-

क्र.सं.	संवर्ग	31.03.2014	31.03.2013
1	कार्यपालक	21	15
2	अधिकारी	341	331
3	लिपिक	290	282
4	अधीनस्थ कर्मचारी	104	114
5	अंशकालिक अधीनस्थ कर्मचारी	87	88
	कुल	843	830

कर्मचारियों की उपरोक्त स्थिति के अतिरिक्त 31-03-2014 को बैंक में 25 प्रबन्धन प्रशिक्षु (मैनेजमेंट ट्रेनीज) थे ।

बैंक में विशेषज्ञ कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कनिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड स्केल-I में पांच मार्केटिंग आफिसर, दो-पर्सनल आफिसर, सात-क्रेडिट आफिसर और मध्य प्रबन्धन ग्रेड स्केल-II में प्रबन्धक (विधि) के रूप में एक अधिकारी और प्रबन्धक (जोखिम प्रबन्धन) के रूप में दो अधिकारियों की नियुक्ति की गई ।

बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 34 क्लर्क कम कैशियर/टाइपिस्ट और 12 प्रबन्धन प्रशिक्षु नियुक्त किये ।

विभिन्न संवर्गों/ग्रेड में अधिकारियों/स्टाफ सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और अधिकारियों और अवार्ड स्टाफ के सदस्यों को पदोन्नति का अवसर देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान-दस-अधीनस्थ कर्मचारियों को लिपिक संवर्ग में पदोन्नत किया गया, चौदह-लिपिक कर्मचारियों को अधिकारी संवर्ग-कनिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड/स्केल-I में, कनिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड/स्केल-I के उन्नीस अधिकारियों को मध्य प्रबन्धन ग्रेड/स्केल-II में, मध्य प्रबन्धन ग्रेड/स्केल-II के दस अधिकारियों को मध्य प्रबन्धन ग्रेड स्केल-III, मध्य प्रबन्धन ग्रेड स्केल-III के सात-अधिकारियों को वरिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड स्केल-IV और वरिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड स्केल-IV के तीन अधिकारियों को वरिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड स्केल-V में पदोन्नत किया गया ।

बैंक ने अपने स्टाफ को प्रशिक्षण तथा विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास जारी रखे ताकि वे चालू बैंकिंग परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों ।

कार्यपालकों और अधिकारियों को निब्सकाम, नोएडा, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे, आई.डी.बी.आर.टी, हैदराबाद, बी.आई.आर.डी., लखनऊ; एन.आई.बी.एम., पुणे और बैंक आफ बड़ौदा प्रशिक्षण केन्द्र, बरेली में प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता के लिये भेजा गया । उन्होंने क्लीन नोट पालिसी और कटे-फटे नोटों के सम्बन्ध में निर्णय लेने पर भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर द्वारा आयोजित वर्कशाप/सेमिनार और गोदामों को प्रमाणित सिद्ध करने पर नाबार्ड द्वारा संचालित वर्कशाप में भी सहभागिता की ।

HUMAN RESOURCE POSITION

The cadre wise strength of Bank staff was as under:

S.No.	Cadre	31.03.2014	31.03.2013
1	Executive	21	15
2	Officers	341	331
3	Clerks	290	282
4	Sub-Ordinate Staff	104	114
5	Part Time Sub- Staff	87	88
	TOTAL	843	830

In addition to the above listed position of the Human Resources in the Bank, there were -25- Management Trainee in the Bank as on 31.03.2014.

To cater to the Bank's Specialist Manpower Requirement -Five- Marketing Officers, -Two- Personnel Officers, -Seven- Credit Officers in JMGS-I and -One- Specialist Officer as Manager (Law) and -Two- as Manager (Risk Management) in MMGS-II were recruited by the Bank.

Further, the Bank has recruited -Thirty Four- Clerk cum Cashier/ Typist and -Twelve- Management Trainees during the Current Financial Year.

In order to cater to the need of officers/ staff members in various cadres/grades and to extend career progression opportunities to the officers and members of Award Staff- Ten- Sub- Staff Members were promoted to Clerical Cadre, -Fourteen- Clerical Staff were promoted to Officers Cadre -JMGS-I, -Nineteen- Officers in JMGS-I were promoted to MMGS- II, -Ten- Officers in MMGS-II were promoted to MMGS-III, -Seven- Officers in MMGS-III were promoted to SMGS-IV and -Three- Officers in SMGS-IV were elevated to SMGS-V during the Current Financial Year.

Bank continued its pursuit of extending training and development facilities to the staff, so as to equip them to meet the challenges in the current banking scenario.

Executives and officers were deputed to and attended training programmes at NIBSCOM, Noida, College of Agriculture Banking, Pune, IDBRT, Hyderabad, BIRD, Lucknow, NIBM, Pune, Bank of Baroda Training Centre, Bareilly. They also participated in specific workshops/seminars arranged by Reserve Bank of India, Kanpur on Clean Note Policy and adjudication of mutilated notes and workshop on accreditation of godowns conducted by NABARD.

उपरोक्त के साथ-साथ हमारे स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र, हल्द्वानी में अधिकारियों और अवार्ड स्टाफ सदस्यों के लिये नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाये गये ।

समीक्षित वर्ष के दौरान 236 स्टाफ सदस्य बैंक द्वारा त्वरित चिन्ता के विषय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों / कार्यशालाओं में सम्मिलित हुए ।

कारपोरेट गवर्नैन्स

बैंक पूर्ववत् कारपोरेट गवर्नैन्स के महत्व से परिचित है । वह न केवल वैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है अपितु अपने सभी हितलाभार्थियों जिसमें उसके अंशधारक, ग्राहक, सरकार और वृहद रूप में जनता सम्मिलित हैं के सर्वोत्तम हितों के लिए सुदृढ़ कारपोरेट गवर्नैन्स नीति का अनुपालन कर रहा है । कारपोरेट गवर्नैन्स पर बैंक का दर्शन सरकार और भा.रि.बैं. को सर्वोच्च स्तर की पारदर्शिता के साथ पूरा, साफ सुथरा एकदम सही और अर्थपूर्ण प्रकटीकरण करने का है जिसके फलस्वरूप बैंक व्यावसायिक नैतिकता का उच्च स्तर बनाये रखने में सक्षम होगा ताकि अंशधारकों के मूल्यांकों को सर्वोच्च स्तर तक बढ़ाया जा सके और उनके हितों की सुरक्षा की जा सके ।

बैंक ने निदेशक मण्डल में सम्मिलित निदेशकों, अपने वरिष्ठ प्रबन्धन जिसमें वे व्यक्ति जो इसके स्थाई प्रबन्धन के सदस्य हैं (वाइस प्रेसिडेंट स्तर के शीर्षस्थ कार्यपालक) और परिचालनकर्ता शीर्ष अधिकारियों के लिए एक आचार संहिता तैयार की है जिसका सख्ती से प्रेक्षण किया जा रहा है।

अच्छे कारपोरेट गवर्नैन्स के भाग के रूप में हर वर्ष वित्तीय वर्ष की शुरुआत पर इसकी स्थिति रिपोर्ट भी समीक्षा के लिए निदेशक मण्डल के सम्मुख रखी जाती है ।

कारपोरेट गवर्नैन्स के अन्तर्गत 'ग्रीन इनिशिएटिव'

'ग्रीन इनिशिएटिव' की शुरुआत कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा कारपोरेट गवर्नैन्स के एक भाग के रूप में की गई थी ताकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा कागज रहित अनुपालन का कार्य किया जा सके । इससे दस्तावेज जल्दी भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं और डाक के आने-जाने में वैधानिक दस्तावेजों के खोने का भय नहीं रहता । इस सम्बन्ध में हमने बैंक के उन अंशधारकों को ई-मेल भेजना शुरु किया है जिन्होंने अपना ई-मेल पता बैंक में अंकित कराया है तथा बैंक की वेबसाइट से उनका सम्बन्ध और उन्हें बैंक के प्रपत्रों जैसे- वार्षिक साधारण सभा का नोटिस, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य के अलावा निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आदि सम्मिलित हैं तक पहुंचने की सुविधा देते हुए स्थापित किया है ताकि बैंक के अंशधारकों के लिए वैधानिक प्रपत्रों तक पहुंचना अधिक सुविधाजनक हो सके ।

निदेशक मंडल

निदेशक मण्डल का गठन: निदेशक मण्डल का गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के सम्बन्धित प्रावधानों, भा.रि.बैं. के निर्देशों और कारपोरेट गवर्नैन्स की अपेक्षाओं के अनुरूप हुआ है । जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में विनिर्दिष्ट है निदेशक मण्डल के सदस्य सम्माननीय,

Besides above, regular training programmes were also carried out at our Staff Training Centre, Haldwani for Officers and members of Award Staff.

During the year under review -236- staff members attended various training programs, seminars/workshops on the subject of immediate concern to the Bank.

*CORPORATE GOVERNANCE

Bank recognizes the importance of corporate governance and has not only been complying with statutory requirements but in its endeavor to serve best to the interest of all its stakeholders including Shareholders, Customers, Government and Public at large and has adhered to robust Corporate Governance practices. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to stick to highest level of transparency, full, fair, accurate and meaningful disclosure to the Government and Regulatory Authorities which in turn enables the Bank to maintain a high level of business ethics to maximize shareholders' value and to protect their interest.

Bank has formulated a Code of Conduct for Directors on the Board and its Senior Management including personnel who are members of its Core Management (Top Executives at the level of Vice President) and functional heads, which is being strictly observed.

As a part of good Corporate Governance a status report is also placed each year at the commencement of Financial Year to the Board for its review.

*GREEN INITIATIVE UNDER CORPORATE GOVERNANCE

"GREEN INITIATIVE" was introduced by The Ministry of Corporate Affairs as a part of Corporate Governance, in order to promote paperless compliances through electronic mode. This is to facilitate early communication of the documents and evade loss of statutory documents in postal transit. In this regard, we have initiated to send e-mail to the shareholders' who have registered their e-mail addresses with the Bank and facilitating them with a link on the Bank's website, providing access to documents of the Bank e.g. Notice of Annual General Meeting, Annual Report of the Bank which, inter alia, includes Directors' Report and Auditors' Report etc in order to make it more convenient to the shareholders of the Bank to access its Statutory documents.

*BOARD OF DIRECTORS

Composition of Board: The Constitution of the Board is in conformity with relevant provisions of Banking Regulation Act, 1949, RBI directives and Corporate Governance requirements. The Board members are persons of repute, skill, experience & knowledge in various sectors such as Banking, finance,

कुशल, अनुभवी एवं विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, वित्त, एकाउन्टेन्सी और अन्य क्षेत्रों का ज्ञान रखते हैं ।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन:

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 292 क के अनुसार बैंक की लेखा परीक्षा समिति (रिपोर्टिंग की दिनांक को) की संरचना निम्नानुसार है:-

1.	श्री नीरज शारदा	अध्यक्ष
2.	श्री वी.के.गुप्ता	सदस्य
3.	श्री एस.जी. राव	सदस्य
4.	श्री मृदुल कुमार अग्रवाल	सदस्य
5.	श्री अतुल कुमार अग्रवाल	सदस्य
	चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर	संयोजक

कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के साथ पढ़ा जाये के अनुसार बैंक के निदेशक मण्डल की विभिन्न अन्य समितियां हैं:- मैनेजमेंट कमेटी आफ बोर्ड, मैनेजमेंट कमेटी आफ बोर्ड (ए.एल.एम. एण्ड रिस्क मैनेजमेंट), नोमिनेशन कमेटी आफ बोर्ड, कस्टमर सर्विस कमेटी आफ बोर्ड, शेयरहोल्डर्स रिड्रेसल कमेटी आफ बोर्ड, आई.टी.स्ट्रेटेजी कमेटी आफ बोर्ड और लार्ज वैल्यू आफ फ्रॉड्स कमेटी आफ बोर्ड ।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान कम्पनी अधिनियम 1956 में दिये गये सम्बन्धित प्रावधानों के अनुरूप निदेशक मण्डल की कुल-6-बैठक हुईं ।

समीक्षित अवधि के दौरान निदेशक मण्डल की संरचना में परिवर्तन हुआ । दिनांक 20-06-2013 को श्री अतुल कुमार अग्रवाल को निदेशक मण्डल में सहयोगित किया गया और डा0 रजनीश कार्की ने निदेशक मण्डल से त्याग पत्र दिया ।

बैंक के निदेशक डा0 रजनीश कार्की, जिनके कार्यकाल में बैंक ने प्रगति की नई ऊँचाईयां हासिल कीं, के प्रति उनके द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में दिये गये बहुमूल्य योगदान एवं सहयोग के लिये कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है तथा इसे रिकार्ड में अंकित करता है ।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 2क(क) और 217(2कक) के अन्तर्गत सूचना -

निदेशकों के उत्तरदायित्व का वक्तव्य -

निदेशक मंडल एतद्वारा यह विवरण देता है कि-

- ◆ बैंक में ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं है जिसके नाम का कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2क) (क) (i), (ii), (iii) के अनुसार प्रकटीकरण अपेक्षित है ।
- ◆ यह व्यक्त किया जाता है कि वार्षिक खातों की तैयारी के लिये लागू मानकों का पालन किया गया है ।

accountancy, law, agriculture & other areas as specified under Banking Regulation Act, 1949.

*COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE OF BOARD:

In terms of section 292A of The Companies Act, 1956, the composition of the Audit committee of the Board [on the date of reporting] is as follows:

1.	Shri Neeraj Sharda	Chairman
2.	Shri. V.K. Gupta	Member
3.	Shri S.G. Rao	Member
4.	Shri Mradul Kumar Agarwal	Member
5.	Shri Atul Kumar Aggarwala	Member
	Chief Operating Officer	Convener

Various other Committees on the Board of the Bank are: Management Committee of Board, Management Committee of Board (ALM & RISK Management), Nomination Committee of Board, Customer Service Committee of Board, Shareholders' Redressal Committee of Board, IT Strategy Committee of Board and Large Value of Frauds Committee of Board in accordance with the relevant provisions of The Companies Act, 1956 read with Banking Regulation Act, 1949 and Reserve Bank of India Guidelines.

During the Financial Year 2013-14, total -6-meetings of the Board of Directors were held in compliance of relevant provisions of Companies Act, 1956.

The composition of Board has changed during the period under report. Shri Atul Kumar Aggarwala was co-opted on the Board as Director on 20.06.2013 and Dr. Rajnish Karki resigned from the Board.

The Board gratefully acknowledges and places on record the valuable contribution and support of Dr. Rajnish Karki as Director of the Bank, under whose stewardship the Bank attained new heights of progress.

*INFORMATION U/S 217 2A (A) & 217 (2AA) OF THE COMPANIES ACT, 1956-

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Board of Directors hereby state that:

- ◆ There is no employee in the Bank, whose name is required to be disclosed, as required by section 217 (2A) (a) (i), (ii), (iii) of The Companies Act, 1956.
- ◆ It is stated that for preparation of annual accounts, the applicable accounting standards have been followed.

- ◆ पुनः, यह व्यक्त किया जाता है कि आपके बैंक ने उन लेखा नीतियों को चुना है तथा उन पर अमल किया है जो हमारे निर्णय और आकलन के अनुसार उचित एवं विवेकसम्मत हैं और वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्य-कलापों तथा उक्त अवधि में बैंक के लाभ की सही एवं वास्तविक स्थिति को दर्शाती हैं ।
- ◆ पुनः, निदेशकों ने खातों के अभिलेखों की देख-रेख के लिए कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है ताकि बैंक की आस्तियां सुरक्षित रहें तथा घोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की पहचान एवं रोकथाम हो सके ।
- ◆ It is further stated that your Bank has chosen such accounting policies and applied them consistently, which in our judgments and estimates are reasonable and prudent and give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the said period.
- ◆ Further, the Directors had taken proper and adequate care for the maintenance of accounts and records in accordance with the provisions of The Companies Act 1956 for safeguarding the assets of the Bank and for prevention and detection of fraud and other irregularities.

पुनः यह व्यक्त किया जाता है कि निदेशकों ने वार्षिक खातों को चालू कारोबार आधार पर तैयार किया है ।

निदेशकों की रिपोर्ट कम्पनी अधिनियम 1956 जिसे भारत सरकार के कम्पनी मामलों के विभाग द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या-08/2014, दिनांक 04-04-2014 के साथ पढ़ा जाये के सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है ।

लाभांश

आपके निदेशक 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 22 प्रतिशत के लाभांश की संस्तुति करते हैं । यदि इसकी अनुमति मिलती है तो वर्ष 2013-14 के लाभांश पर लाभांश कर सहित रु. 17.26 करोड़ व्यय होगा ।

आभार

निदेशक मंडल, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को महत्वपूर्ण दिशानिर्देश एवं सहयोग के लिये धन्यवाद देता है । निदेशक मंडल बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रति भी उसके द्वारा सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर दिये गये बहुमूल्य दिशा निर्देश एवं उचित समय पर सहयोग जिसके बिना वर्तमान परिणाम प्राप्त करना संभव न होता कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है । निदेशक मंडल बैंक के सम्माननीय अंशधारकों, ग्राहकों और अन्य सभी के प्रति उनके सतत संरक्षण के लिए आभार व्यक्त करता है । निदेशक मंडल बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की उसके द्वारा प्रदत्त समर्पित सेवाओं के लिए प्रशंसा करता है ।

निदेशक मंडल भारतीय बैंक संघ के प्रति भी उनको भेजे गए मसलों पर उनके सहयोग एवं दिशा-निर्देश के लिए आभार व्यक्त करता है ।

निदेशक मंडल की ओर से तथा उसके लिए,

ह0/-
 एस. के. गुप्ता
 अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : दिल्ली
 दिनांक : 09/06/2014

It is further stated that Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis.

* The Director' report is prepared as per the relevant provisions of Companies Act, 1956 read with General Circular no. 08/2014 dated 04.04.2014 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India

DIVIDEND

Your Directors recommend dividend of 22 % for the year ended 31st March 2014. Total dividend outgo for the year 2013-14, if approved, would be ₹ 17.26 crore including dividend tax.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors expresses its sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India for the valuable guidance and support. The Board also acknowledges with gratitude and especially thanks Bank of Baroda for their valuable guidance and well-timed support on all vital issues, without which it would not have been feasible for the Bank to achieve present growth. The Board also records its sincere gratitude to the Bank's valuable shareholders, esteemed customers and all other stakeholders for their continued patronage. The Board also expresses its appreciation for every employee of the Bank for their dedicated service.

The Board of Directors place on records the support and guidance received from IBA on the issues referred by the Bank.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
 S. K. GUPTA
 CHAIRMAN & C.E.O

PLACE : Delhi
 DATED : 09/06/2014

बेसल III पिलर 3 प्रकटीकरण (31.03.2014)

Base| III Pillar 3 Disclosures (31.03.2014)

सारणी डीएफ- 1: लागू किये जाने का दायरा

बैंकिंग समूह के प्रधान का नाम, जिस पर यह ढांचा लागू होता है—

दि नैनीताल बैंक लिमिटेड

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क. समेकन हेतु विचार में लिए गए समूह हस्तियों की सूची

ऐसी कोई हस्ती नहीं है जिसे समेकन हेतु विचार में लिया जा सके ।

Name of the entity/ (Country of Incorporation)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
संस्था का नाम / निगमन देश	क्या उस हस्ती को समेकन के लेखांकन दायरे के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है (हां/ नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	क्या उसे हस्ती को समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है (हां/ नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	समेकन के तरीके में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	यदि समेकन के केवल एक ही दायरे में समेकित किया गया हो, तो उसके कारण स्पष्ट करें।
शून्य / Nil						

ख. समेकन के लेखांकन और विनियामक दोनों दायरों के अंतर्गत समेकन हेतु विचार में न लिए गए समूह हस्तियों की सूची ।

ऐसी कोई समूह हस्ती नहीं है जिसे समेकन के लेखांकन और विनियामक दोनों दायरों के अंतर्गत समेकन हेतु लिया गया हो ।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

ग. समेकन हेतु विचार में लिए गए समूह हस्तियों की सूची

ऐसी कोई समूह हस्ती नहीं है जिसे लिया गया हो ।

घ. सभी अनुशंगियों में पूंजी में कमियों की सकल राशि जिसे समेकन के विनियामक दायरे में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात् जिसे घटाया गया है :

बैंक की ऐसी कोई अनुषंगी नहीं है इसलिए किसी अनुषंगी में पूंजी के अभाव का अवसर नहीं है ।

ङ बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हितों की सकल राशियाँ (जैसे वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं :

बैंक बीमा संस्थाओं में कोई रुचि नहीं रखता है ।

च. बैंकिंग समूह के भीतर निधियाँ या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं ।

कोई प्रतिबंध नहीं है ।

TABLE DF- 1: SCOPE OF APPLICATION

Name of the head of the banking group to which the framework applies:

The Nainital Bank Ltd.

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation

There is no such entity which may be considered under accounting scope of consolidation.

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no entities in the group which are considered for consolidation under both accounting and regulatory scope of consolidation.

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

There is no such entity which may be considered for consolidation.

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted

Bank does not have any subsidiary as such there is no scope of capital deficiency in any of subsidiary.

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted

The bank has no interest in insurance entity.

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group

There is no restriction

सारणी डीएफ-2 : पूंजी पर्याप्तता

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने एक संतुलित जोखिम प्रबन्धन संरचना बनाई है जिसमें पूंजी को इष्टतम बनाने और लाभ को सर्वाधिक करने अर्थात् उपलब्ध पूंजी से सर्वाधिक व्यवसाय करने जिससे बदले में सर्वाधिक लाभ या इक्विटी से वापसी होगी पर ध्यान केन्द्रित किया है। बैंक बेसल III की रूपरेखा के अनुसार वैश्विक रूप से स्वीकृत मजबूत जोखिम व्यवस्था जो संसाधनों के कुशल, साम्यपूर्ण और विवेकपूर्ण आवंटन में सक्षम है को बैच मार्क बना रहा है।

पूंजी योजना प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:-

- बैंक की चालू पूंजीगत आवश्यकता
- व्यावसायिक व्यू रचना और जोखिम अभिरुचि के संबंध में लक्षित और पर्याप्त पूंजी

पूंजी की आवश्यकता की निगरानी शीर्षस्थ कार्यपालकों की जोखिम प्रबन्धन समिति करती है। पूंजी की आवश्यकता का अग्रिमों, निवेशों में वृद्धि की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए पूर्वानुमान लगाया जाता है।

बैंक एक्सपोजरों, कारोबारों इत्यादि के मूल्य में हानि के जोखिम को संभालने के लिए पूंजी बनाये रखता है। उसकी सभी जोखिमों के व्यापक मूल्यांकन एवं उसे प्रलेखित करने तथा उसके लिए पूंजी के आवंटन की पुष्टि हेतु एक सुपरिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन नीति (ICAAP) है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अग्रिम जोखिम के लिए मानकीकृत पद्धति, परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक पद्धति तथा सीआरआर की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत आवश्यक पद्धति अपनायी है।

पूंजीगत आवश्यकता आर्थिक परिवेश, नियामक जरूरतें तथा बैंक की गतिविधियों से होने वाले जोखिम से प्रभावित होती है। बैंक की पूंजीगत आयोजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के समय, यहाँ तक कि आर्थिक मंदी के दौर में भी पूंजी की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है। पूंजीगत आयोजन की प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है :

- बैंक की मौजूदा पूंजीगत आवश्यकता।
- कारोबार रणनीति तथा जोखिम प्रवृत्ति के संदर्भ में लक्षित तथा धारणीय पूंजी।
- भविष्य की पूंजीगत आयोजना अगले तीन वर्ष को ध्यान में रखकर की जाती है।

TABLE DF-2: CAPITAL ADEQUACY

(i) Qualitative Disclosures

a. The Bank has put in place a robust Risk Management Architecture with due focus on Capital optimization and on profit maximization, i.e. to do maximum business out of the available capital which in turn maximize profit or return on equity. Bank is benchmarking on globally accepted sound risk management system, conforming to Basel III framework, enabling a more efficient equitable and prudent allocation of resources.

In Capital Planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the Bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.

Capital needs are monitored periodically by the Risk Management Committee comprising Top Executives. Capital requirement is projected annually considering the expected growth in advances, investments.

Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against losses. Bank has a well defined Internal Capital Adequacy Assessment Policy (ICAAP) to comprehensively evaluate and document all risks.

In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is affected by the economic environment, the regulatory requirement and by the risk arising from bank's activities. The purpose of capital planning of the bank is to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at times of economic recession. In capital planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank.
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.
- The future capital planning is done on a three-year outlook.

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

क्र.म. सं.	मद (राशि करोड़ में)	31.3.2014
(ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएं:		
• मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभाग		213.27
• प्रतिभूतिकरण एकसपोजर	
(ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएं		
• मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण		27.17
• व्याज दर जोखिम		12.68
• विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	
• इक्विटी जोखिम		14.49
(घ) परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएं		
• मूल संकेतक दृष्टिकोण		26.33
(ङ) सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात :		
• समेकित समूह के लिए	
• सीईटी 1 अनुपात	
• टियर 1 अनुपात	
• टियर 2 अनुपात	
• सीआरएआर	
• स्टेन्ड लोन सीआरएआर	
• सीईटी 1 अनुपात		14.69%
• टियर 1 अनुपात		14.69%
• टियर 2 अनुपात		0.44%
• सीआरएआर		15.13%

(II) QUANTITATIVE DISCLOSURES

Sl.	Items	Amount (in crores) 31.3.2014
(b) Capital requirements for Credit Risk		
•	Portfolios subject to Standardized Approach	213.27
•	Securitization Exposures
(c) Capital requirements for Market Risk		
•	Standardized Duration Approach	27.17
•	Interest Rate Risk	12.68
•	Foreign Exchange Risk (including Gold)
•	Equity Risk	14.49
(d) Capital requirements for Operational Risk		
•	Basic Indicator Approach	26.33
(e) Common Equity Tier 1, tier 1 and Total Capital ratios:		
•	Group CRAR
•	CET 1 Ratio
•	Tier 1 Ratio
•	Tier 2 Ratio
•	CRAR
•	Stand alone CRAR
•	CET 1 Ratio	14.69%
•	Tier 1 Ratio	14.69%
•	Tier 2 Ratio	0.44%
•	CRAR	15.13%

सारणी डीएफ-3 : ऋण जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बैंक की ऋण आस्तियों को वर्गीकृत करने के लिए बैंक की निम्नलिखित नीति है :-

गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए): गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ -

- मीयादी ऋण के संदर्भ में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए ब्याज तथा/या मूलधन की किश्त, अतिदेय हो जाती है।
- ओवर ड्राफ्ट/नकद उधार (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता अनियमित (आउट ऑफ ऑर्डर) रहा है।
- खरीदे गए तथा बट्टे खाते डाले गए बिलों के संदर्भ में 90 दिनों से अधिक की अवधि से बकाया अतिदेय बिल।

TABLE DF-3: CREDIT RISK

(i) Qualitative Disclosures

a. The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

NON PERFORMING ASSETS (NPA): A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- the account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,

- iv) अल्पावधि फसलों के लिए ऋण के मामले में मूल राशि की किश्त अथवा उस पर बकाया ब्याज दो फसली मौसमों से अतिदेय हो जाता है।
- v) लम्बी अवधि की फसलों के लिए ऋण के मामले में मूल राशि की किश्त अथवा उस पर बकाया ब्याज एक फसली मौसम से अतिदेय हो जाता है।

- the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

किसी भी ओ.डी./सी.सी. खाते को उस स्थिति में "खराब" खाता माना जाता है जब खाते में स्वीकृत सीमा/आहरण सीमा से अधिक राशि निरन्तर रूप से बकाया रहती हो। उन मामलों में, जहाँ मूल परिचालनगत खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा/आहरण सीमा से कम रहता हो लेकिन जहाँ तुलन-पत्र की तारीख को निरन्तर 90 दिनों से कोई जमा न किया गया हो या जमा की गई राशि उसी अवधि में लगाये जा रहे ब्याज की पूर्ति के लिए पर्याप्त न हो ऐसे खाते खराब समझे जाते हैं।

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय किसी भी राशि को उस स्थिति में "अतिदेय" माना जाता है जब इसका बैंक द्वारा निर्धारित देय तारीख को भुगतान नहीं किया जाता है।

An amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

बैंक की गैर निष्पादक आस्तियों को आगे निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

Non Performing Assets of the Bank are further classified in to three categories as under:

अवमानक आस्तियाँ

अवमानक आस्ति से अभिप्राय, ऐसी आस्तियों से है जो 12 महीनों या उससे कम समय से गैर निष्पादक आस्ति रही हो। वसूली संबंधी सभी उपाय-अवमानक आस्तियों से भी सम्बन्धित हैं। यदि सम्पूर्ण अतिदेय नकद वसूली के रूप में प्राप्त हो जाता है तो खाते को तुरन्त ही मानक श्रेणी के अन्तर्गत अपग्रेड किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई खाता तकनीकी कारणों से एनपीए के रूप में वर्गीकृत हो जाता है तो उसे तकनीकी कारणों के संबंध में "क्लीयरेंस" प्राप्त होने पर अपग्रेड किया जायेगा।

SUB STANDARD ASSETS

A sub standard asset would be one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. All the recovery measures are relevant in substandard assets also. If the entire overdues are recovered by way of cash recovery, the account can be upgraded to standard category immediately. Similarly, if an account is classified as NPA due to technical reasons, the account shall be upgraded on clearance of technical reasons.

संदिग्ध आस्तियाँ

किसी भी आस्ति को 12 महीनों तक अवमानक श्रेणी में बने रहने की स्थिति में संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा। ऐसे अवमानक तथा संदिग्ध खाते जो पुनःसारणी बद्ध हो सकते हैं/जिनकी अवधि का पुनर्निर्धारण किया जा सकता हो को अवधि के दौरान खाते के संतोषजनक कार्य निष्पादन को देखते हुए उस तारीख जब ब्याज अथवा मूल राशि का प्रथम भुगतान किया गया हो तथा इनमें से जो भी पहले हो से एक वर्ष की अवधि के पश्चात उक्त मानक श्रेणी में अपग्रेड किया जा सकता है।

DOUBTFUL ASSETS

An asset would be classified as doubtful if it remained in the sub standard category for 12 months. Substandard and Doubtful accounts which are subjected to restructuring/rescheduling, can be upgraded to standard category only after a period of one year after the date when first payment of interest or of principal, whichever is earlier, falls due, subject to satisfactory performance during the period.

हानिकर आस्तियाँ

हानिकर आस्ति से अभिप्राय ऐसी आस्ति से है जहाँ हानि बैंक अथवा आंतरिक अथवा बाह्य लेखा परीक्षकों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण द्वारा पता चली हो। हानि आस्तियों में उपलब्ध प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बकाया शेष/देयों का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है। चूंकि प्रतिभूति बैंकअप उपलब्ध नहीं होता है अतः पुनर्निर्धारण/पुनर्स्थापन यदि यह आवश्यक हो तो इस पर अति सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है।

LOSS ASSETS

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or internal or external auditors or the RBI inspection. In Loss assets, realizable value of security available is not more than 10% of balance outstanding/ dues. Since security back up will not be available, the restructuring/ rehabilitation, if required, is considered with utmost care.

ख-कार्यनीति एवं प्रक्रियाएं

बैंक की, ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूर्ण रूप से परिभाषित ऋण नीति एवं निवेश नीति है जो निम्नानुसार है :

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋणकर्ताओं के विभिन्न प्रकार और उनके ग्रुप और उद्योग के लिए एक्सपोजर सीमाएं।
- ऋण वितरण में उचित व्यवहार संहिता।
- बैंक के विभिन्न स्तर के प्राधिकारियों के लिए ऋण प्रदान करने संबंधी विवेकाधिकार।
- ऋण वितरण के संबंध में प्रक्रियाएं—स्वीकृति पूर्व निरीक्षण, रद्द करना, मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेजीकरण, मानीटरिंग और वसूली।
- मूल्य निर्धारण

बैंक का ऋण जोखिम दर्शन संरचना और प्रणाली निम्नानुसार है:

ऋण जोखिम दर्शन :

- बैंक के ऋणों तथा उनसे प्राप्ति में अधिकाधिक वृद्धि करना ताकि बैंक के संसाधनों की सुरक्षा व कार्पोरेट वृद्धि एवं समृद्धि सुनिश्चित होने के साथ सभी हित धारकों के हित संरक्षित हों एवं शेयर धारकों को आर्थिक लाभ में बढ़ोत्तरी हो।
- बैंक अपने वित्तीय संसाधनों को क्रमिक रूप से सुव्यवस्थित और कारगर बनाये ताकि विभिन्न चैनलों को परस्पर जोड़ा जा सके तथा बैंक के सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।
- अर्थव्यवस्था की विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को योजनाबद्ध ढंग से पूरा करना ताकि संस्थागत वित्त के उपयोग द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।
- उद्यमवार ऋण संस्कृति विकसित करना और परिचालन स्टाफ को सहयोग प्रदान करना।
- विभिन्न ऋण खण्डों को आवश्यकता पर आधारित और समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना।
- ऋण प्रबंधन की दक्षता जैसे स्वीकृतिपूर्व, स्वीकृति उपरांत निगरानी, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्यवाही के उपाय को सुदृढ़ बनाना ताकि बैंक में कारगर ऋण संस्कृति विकसित की जा सके तथा ऋण संविभाग को गुणवत्ता युक्त बनाया जा सके।
- गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन एवं गति के साथ विस्तृत मार्गनिर्देशों की पूर्ण अनुपालना के साथ ऋण प्रस्तावों पर अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यवाही करना।
- विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक/अन्य प्राधिकारियों द्वारा एक्सपोजर मानदंडों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मानदंडों, आय पहचान और आरिस्त वर्गीकरण मार्गनिर्देशों, पूंजीगत पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन पर दिये गये मार्गनिर्देशों आदि की अनुपालना करना।

STRATEGIES AND PROCESSES:

The bank has a well defined Loan Policy & Investment Policy covering the important areas of credit risk management as under:

- Exposure ceilings to different sectors of the economy, different types of borrowers and their group and industry
- Fair Practice Code in dispensation of credit.
- Discretionary Lending Powers for different levels of authority of the bank.
- Processes involved in dispensation of credit – pre sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring, and recovery.
- Fixation of pricing.

THE CREDIT RISK PHILOSOPHY, ARCHITECTURE AND SYSTEMS OF THE BANK ARE AS UNDER:

Credit Risk Philosophy:

- To Optimise the Credit and return envisaged in order that the Economic Value Addition to Shareholders is maximized and the interests of all the Stakeholders are protected alongside ensuring corporate growth and prosperity with safety of bank's resources.
- To regulate and streamline the financial resources of the bank in an orderly manner to enable the various channels to incline and achieve the common goal and objectives of the Bank.
- To comply with the national priorities in the matter of deployment of institutional finance to facilitate achieving planned growth in various productive sectors of the economy.
- To instill a sense of credit culture enterprise-wide and to assist the operating staff.
- To provide need-based and timely availability of credit to various borrower segments.
- To strengthen the credit management skills namely pre-sanction, post-sanction monitoring, supervision and follow-up measures so as to promote a healthy credit culture and maintain quality credit portfolio in the bank.
- To deal with credit proposals more effectively with quality assessment, speed and in full compliance with extant guidelines.
- To comply with various regulatory requirements, more particularly on Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Authorities.

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन की संरचना और प्रणालियाँ :

- बैंक में जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों की देखरेख तथा समन्वय कार्यों के लिए बोर्ड द्वारा निदेशकों की एक उपसमिति का गठन किया गया है।
- ऋण नीतियों सहित विभिन्न ऋण जोखिम नीतियों को तैयार करने और उन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्यों की नियमित देख-रेख करने के लिए ऋणनीति समिति का गठन किया गया है।
- ऋण प्रस्तावों के मानकों, वित्तीय प्रसंविदाओं, रेटिंग मानकों तथा बेंचमार्क के संबंध में मानक नीतियाँ तैयार करना।
- ऋण विभाग निर्धारित सीमाओं के भीतर पहचान, माप, देखरेख तथा ऋण जोखिम नियंत्रण संबंधी कार्य देखता है।
- बोर्ड/नियामकों आदि द्वारा तैयार किये गये जोखिम पैरामीटर्स तथा विवेकपूर्ण सीमाओं को लागू करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना।
- जोखिम मूल्यांकन प्रणालियों को तैयार करना, एम आई एस को विकसित करना और ऋण संविभाग की गुणवत्ता की देख-रेख, समस्याओं की पहचान, कमियों में सुधार करना।
- तैयार किए गए नियमों और दिशा निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालना के लिए ऋण वितरण प्रणाली में सुधार लाना।

जोखिम रिपोर्टिंग और/अथवा आंकलन पद्धति का क्षेत्र व प्रकृति

बैंक ऋण एक्सपोजर के लिए संतुलित ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली शुरू करने जा रहा है। ऋण जोखिमों को कम करने के प्रभावी उपायों में किसी भी आस्ति विशेष में जोखिम की संभावनाओं का पता लगाना, स्वस्थ आस्ति गुणवत्ता को बनाये रखना तथा इसके साथ ही बैंक की समग्र कार्यनीति और ऋणनीति के अनुरूप अपेक्षित जोखिम रेटिंग पैरामीटर्स को पूरा करने के लिए आस्तियों की कीमत लगाने में लचीलापन रखना शामिल है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण
(ख) कुल सकल जोखिम एक्सपोजर

विवरण	राशि करोड़ में 31.03.2014
निधि आधारित एक्सपोजर	2469.99
निधितर आधारित एक्सपोजर	101.71
कुल सकल ऋण एक्सपोजर	2571.70

(ग) एक्सपोजरों का भौगोलिक वितरण

एक्सपोजर	राशि (करोड़ में)	
	निधि आधारित एक्सपोजर	निधितर आधारित एक्सपोजर
घरेलू परिचालन	2469.99	101.71
ओवरसीज परिचालन	---	--
कुल	2469.99	101.71

ARCHITECTURE AND SYSTEMS OF THE BANK:

- A Sub-Committee of Directors has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.
- Credit Policy Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Risk Management function on a regular basis.
- Formulating of policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- Credit Department deal with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.,
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, and monitoring quality of loan portfolio, identification of problems, correction of deficiencies.
- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

THE SCOPE AND NATURE OF RISK REPORTING AND/OR MEASUREMENT SYSTEM:

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain a healthy asset quality and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the bank's overall strategy and credit policy.

(II) QUANTITATIVE DISCLOSURES
(B) TOTAL GROSS CREDIT RISK EXPOSURE

Particulars	Amount (in Crores) 31.03.2014
Fund Based Exposures	2469.99
Non-fund Based Exposures	101.71
Total Gross Credit Exposures	2571.70

(C) GEOGRAPHIC DISTRIBUTION OF EXPOSURES:

Exposures	Amount (in Crores)	
	Fund Based Exposures	Non-fund Based Exposures
Domestic operations	2469.99	101.71
Overseas operations	--	--
Total	2469.99	101.71

घ) एक्सपोजरों का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरण :

(d) Industry Type Distribution of Exposures

(राशि करोड़ में) / (₹ in Crores)			
	निधि आधारित Fund based	गैर निधि आस्तियाँ Non Fund Based	कुल Total
(i) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर / Total gross credit risk exposures	2469.99	101.71	2571.70
(ii) जाखिम का भौगोलिक वितरण / Geographic distribution of exposures			
• ओवरसीज / Overseas	—	—	—
• घरेलू / Domestic	2469.99	101.71	2571.70
(iii) घरेलू जोखिमों का उद्योग के रूप में वितरण Industry type distribution of domestic exposures			
उद्योग / Industry			
कोयला / Coal	—	—	—
खनन / Mining	4.66	—	4.66
लोहा एवं इस्पात / Iron & Steel	21.35	—	21.35
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद / Other Metals & Metal Product	6.51	—	6.51
सभी इंजीनियरिंग / All Engineering	46.36	10.24	56.60
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स / of Which: Electronics	2.89	—	2.89
इलेक्ट्रीसिटी / Electricity (Gen. & Trans.)	0.01	—	0.01
सूती टेक्सटाइल्स / Cotton Textiles	0.53	—	0.53
जूट टेक्सटाइल्स / Jute Textiles	0.05	—	0.05
अन्य टेक्सटाइल्स / Others Textiles	10.29	—	10.29
चीनी / Sugar	—	—	—
चाय / Tea	—	—	—
फूड प्रोसेसिंग / Food Processing	34.65	0.45	35.10
खाने का तेल (वनस्पति सहित) / Vegetable Oils (Incl. vanaspati)	0.49	—	0.49
तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद / Tobacco & Tobacco Products	0.06	—	0.06
कागज एवं कागज उत्पाद / Paper & Paper Products	16.72	—	16.72
रबर एवं रबर उत्पाद / Rubber & Rubber Products	1.87	—	1.87
केमिकल, डाई, पेंट्स एवं फर / Chemicals, Dyes, Paints & Phar	10.07	—	10.07
इसमें से / OF WHICH :			
फर्टिलाइजर्स / Fertilizers	0.48	—	0.48
पेट्रो केमिकल्स / Petro-chemicals	1.59	—	1.59
दवाईयाँ एवं फार्मास्यूटिकल्स / Drugs & Pharmaceuticals	0.64	—	0.64
सीमेंट / Cement	1.56	—	1.56
चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद / Leather & Leather Products	1.38	—	1.38
रत्न एवं आभूषण / Gems & Jewellery	—	—	—
निर्माण / Construction	0.19	—	0.19
पेट्रोलियम / Petroleum	—	—	—
ट्रक सहित ऑटोमोबाइल / Automobiles Including Trucks	4.90	—	4.90
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर / Computer Software	—	—	—
आधारभूत सुविधाएं / Infrastructure	0.73	—	0.73
इनमें से / OF WHICH :			
पावर / Power	—	—	—
संचार / Telecommunication	—	—	—
सड़क / Roads	—	—	—
बंदरगाह / Ports	—	—	—
अन्य आधारभूत सुविधाएं / Other Infrastructure	0.73	—	0.73
गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ / NBFCs	—	—	—
ट्रेडिंग / Trading	301.45	—	301.45
अन्य उद्योग / Other Industries	275.61	4.59	280.20
जिसमें से : पेय पदार्थ / Of Which: Beverages	—	—	—
लकड़ी / Wood	2.05	—	2.05
कांच / Glass	2.60	—	2.60
प्लास्टिक / Plastic	7.87	—	7.87
कुल / Total	758.29	15.28	773.57

उद्योगों को उस ऋण एक्सपोजर जहाँ बकाया एक्सपोजर बैंक के समग्रता सकल ऋण एक्सपोजर के 5 प्रतिशत के अधिक है का विवरण निम्नानुसार है:-

Credit Exposure of industries where outstanding exposure is more than 5% of the Total Gross Credit Exposure of the Bank is as follows:

SI No क्र.सं.	Industry उद्योग	Total Exposure(in Crores) कुल एक्सपोजर (रुपए करोड में)	% of Total Gross Credit Exposure कुल ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत
	NIL/शून्य		

ड) परिसम्पत्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विश्लेषण/e) Residual maturity breakdown of assets :

(राशि करोड़ में)/(₹ in Crore)

समयावधि Time Bucket	अग्रिम Advances	निवेश Investment	कुल अस्तियाँ Total Assets	प्रतिशत %age
1 दिन/1 day	21.37	83.16	206.83	3.88
2-7 दिन/2 - 7 days	76.74	0.00	212.80	3.99
8-14 दिन/8 -14 days	93.64	0.00	110.83	2.08
15-28 दिन/15- 28 days	221.89	34.61	207.58	3.89
29 दिन -3 महीने/29days - 3months	183.30	251.78	682.97	12.81
>3 महीने -6 महीने/>3months-6months	57.83	0.00	420.28	7.88
>6 महीने 1 वर्ष/>6months-1yr	103.27	25.83	894.52	16.78
>1 वर्ष - 3 वर्ष/>1yr-3yrs	1300.97	165.80	1449.28	27.18
>3 वर्ष - 5 वर्ष/>3yrs-5yrs	175.35	85.02	330.61	6.20
>5 वर्ष/>5yrs	235.63	497.26	816.50	15.31
कुल/TOTAL	2469.99	1143.46	5332.20	100

छ) अनर्जक परिसम्पत्तियों की राशि (सकल)/(f) Amount of Non Performing Assets (Gross)

क्रमांक Sr. No.	आस्ति श्रेणी Asset Category	(राशि करोड़ में) (₹ in Crore)
(a)	एनपीए (सकल)/NPAs (Gross):	
	अवमानक / Substandard	12.01
	संदिग्ध 1 / Doubtful 1	19.87
	संदिग्ध 2 / Doubtful 2	9.03
	संदिग्ध 3 / Doubtful 3	2.58
	हानिकर / Loss	17.61
(b)	शुद्ध एनपीए / Net NPAs	0.00
	कुल / Total	0.00
(c)	एनपीए अनुपात / NPA Ratios	
	सकल अग्रिमों में सकल एनपीए / Gross NPAs to gross advances (%)	2.47
	निवल अग्रिम में निवल एनपीए / Net NPAs to net advances (%)	0.00
(d)	एनपीए (सकल) में उतार-चढ़ाव / Movement of NPA(Gross)	
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	67.26
	वृद्धि / Additions	13.50
	कमी / Reductions	19.66
	अन्तिम शेष / Closing balance	61.10
(e)	एनपीए के लिए प्रावधान का उतार-चढ़ाव / Movement of provisions for NPAs	
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	67.27
	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान / Provisions made during the period	0.00
	बट्टे खाते / Write offs	0.20
	अतिरिक्त प्रावधानों को निकाल देना / Write back of excess provisions	0.00
	अन्तिम शेष / Closing balance	67.07

(f)	गैर निष्पादक निवेश की राशि / Amount of Non Performing Investments	
(g)	गैर निष्पादक निवेश के लिए किये गये प्रावधान की राशि Amount of provisions held for Non-Performing Investments	0.00
(h)	निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का उतार-चढ़ाव / Movement of provisions for depreciation on investments	
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	2.00
	अवधि के दौरान किया गया प्रावधान / Provisions made during the period	1.76
	बट्टे खाते / Write-off	0.04
	अतिरिक्त प्रावधानों को निकाल देना / Write back of excess provisions	-
	अन्तिम शेष / Closing balance	3.72

सारणी डीएफ-4 : ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

(क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए:

बैंक ने निम्नलिखित ऋण पात्रता एजेन्सियों को ऋण पात्रता निर्धारण और मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पूंजी प्रभाग की गणना के लिए और जोखिम भार निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित ऋण पात्रता निर्धारण समितियों को स्वीकार किया है—

घरेलू ऋण पात्रता निर्धारण समितियाँ—

- क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (CARE)
- क्रिसिल लिमिटेड
- इसरा लिमिटेड
- इण्डिया रेटिंग (पूर्व में फिच इण्डिया)
- ब्रिक वर्क

एक्सपोजरों के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया गया: उपरोक्त सभी एजेन्सियों को सभी प्रकार के एक्सपोजर के पात्रता निर्धारण के लिए स्वीकार किया है ।

सार्वजनिक निर्गम पात्रता निर्धारणों को बैंकिंग बही में तुलनीय परिसंपत्तियों पर अंतरित करने हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया का वर्णन:

- बैंक उन आस्तियों जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष तक है लघु अवधि की पात्रता निर्धारण तथा उन आस्तियों के लिए जिनकी परिपक्वता 1 वर्ष के बाद है दीर्घ अवधि की ऋण पात्रता निर्धारण भा.रि.बैं. द्वारा अनुमोदित बाह्य ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सियों की रेटिंग को स्वीकार करता है ।
- बैंक ने एक ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सी की एक एक्सपोजर के लिए ऋण पात्रता निर्धारण और दूसरी ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सी की दूसरे एक्सपोजर उसी काउन्टर पार्टी के दूसरे एक्सपोजर को तब तक स्वीकार नहीं किया है जब तक कि दिए गए एक्सपोजर के लिए एक ऋण पात्रता निर्धारण न उपलब्ध हो ।
- रु.10 करोड़ से अधिक की राशि बाह्य दर निर्धारण के अधीन है ।

Table Df-4: Credit Risk Disclosures for portfolios subject to Standardised Approach

(i) Qualitative Disclosures

(a) For portfolios under the Standardised Approach:

The Bank has recognized following credit rating agencies for the purpose of rating of an exposure & assigning risk weights for computation of capital charge under standardized approach.

Domestic credit rating agencies:

- Credit Analysis & Research Limited (CARE),
- CRISIL Limited,
- ICRA Limited,
- India Ratings (Formerly FITCH India)
- Brickwork

Types of exposure for which each agency is used:

All the above agencies are recognized for rating all types of exposures.

A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:

- Bank has used short term ratings for assets with maturity up to one year and long term ratings for assets maturing after one year as accorded by the approved external credit rating agencies.
- Bank has not used one rating of a CRA (Credit Rating Agency) for one exposure and another CRA's rating for another exposure on the same counterparty unless only one rating is available for given exposure.
- Amount above ₹ 10 Crores are subject to external rating.

- बैंक ने अनुमोदित ऋण पात्रता निर्धारण एजेन्सियों से केवल मांगी गई निर्धारित दर को स्वीकार किया है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(ख) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम कम करने के बाद एक्सपोजर की राशियों के लिए, निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम समूहों में बैंक की बकाया (पात्रता निर्धारण किए तथा पात्रता निर्धारण न किए) राशि तथा वे जिनकी कटौती की गयी है :

एक्सपोजर की राशि जिसमें गैर निधि आधारित भी सम्मिलित है मानकीकृत दृष्टिकोण (दर निर्धारित या बिना दर निर्धारित) के अधीन जोखिम न्यूनीकरण के बाद तीन बड़े जोखिम समूहों में निम्नानुसार है :

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.स.	जोखिम भार की श्रेणी	निधि आधारित 31.03.2014	निधितर आधारित 31.03.2014
1	100 प्रतिशत जोखिम भार के कम	3932.15	---
2	100 प्रतिशत जोखिम भार	851.53	71.63
3	100 प्रतिशत जोर भार से अधिक	182.74	---
4	कुल सीआरएम कटौती	163.30	33.82
5	कुल एक्सपोजर	4803.11	37.81

सारणी डीएफ-5 : ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक की निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित संपार्श्विक नीति है जिसमें प्रक्रिया, उद्देश्य, संपार्श्विक के स्वीकृत प्रकारों और रुपरेखा जिनमें प्रभावपूर्ण संपार्श्विक प्रबंधन के लिए उचित प्रबंधन सूचना व्यवस्था सम्मिलित है निहित है । संपार्श्विक और गारन्टियों को उचित तरीके से लिया गया और निम्नलिखित के लिए नियोजित किया गया है:-

- अपेक्षित नकदी प्रवाह की अपर्याप्तता होने अथवा न होने के कारण/ऋण सुविधा में उधारकर्ता की चूक होने पर पुनर्भुगतान के गौण स्रोत को उपलब्ध कराके जोखिम को कम करना;
- चूक होने पर पुनर्भुगतान के स्रोत पर नियन्त्रण प्राप्त करना;
- उधारकर्ता की भुगतान क्षमता के क्षरण पर पहले ही चेतावनी देना;
- जोखिम भारित आस्तियों को समक्ष रखना ओर बचे हुए जोखिमों में पर्याप्त रूप से कमी लाना ।

बैंक अपने एक्सपोजरों में ऋण जोखिमों को कम करने के लिये अनेक तकनीकों का उपयोग कर रहा है । बैंक की संपार्श्विक प्रबंधन प्रक्रिया और बैंक का व्यवहार समूचे कार्यकलापों जिनमें संपार्श्विक मूल्यों की सुरक्षा और

- Bank has used only solicited rating from the recognized CRAs.

(II) QUANTITATIVE DISCLOSURES

(b) Amount of the Bank's Exposures- Gross Advances (Rated & Unrated) in Major Risk Buckets -under Standardized Approach, after factoring Risk Mitigants (i.e. Collaterals):

The amount of exposure including non-fund based after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Category of Risk Weight	Fund Based 31.03.2014	Non-Fund Based 31.03.2014
1	Below 100 % risk weight	3932.15	---
2	100 % risk weight	851.53	71.63
3	More than 100 % risk weight	182.74	---
4	Total CRM Deducted	163.30	33.82
5	Total Exposure	4803.11	37.81

Table Df-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

(I) QUALITATIVE DISCLOSURES

Policies and processes for collateral valuation and management : The Bank is having a Board approved collateral management policy which lays down the process, objectives, accepted types of collaterals and the framework including suitable management information system for effective collateral management ,The Collaterals and guarantees properly taken and managed that would serve to:

- mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow or not;
- gain control on the source of repayment in the event of default;
- provide early warning of a borrower's deteriorating repayment ability; and
- Optimize risk weighted assets and to address Residual Risks adequately.

Bank uses a number of techniques to mitigate the credit risks to which it is exposed. Collateral Management process and practices of the Bank cover the entire activities comprising

संरक्षण, संपार्श्वकों और गारंटियों की वैधता और मूल्यांकन/आवधिक निरीक्षण सम्मिलित है को आवेष्टित करती है ।

मूल्यांकन: बैंक द्वारा दिये गये ऋणों की सुरक्षा के लिये प्राप्त की गई आस्तियाँ बैंक के पैनाल में रखे गये वैल्यूअर्स द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधीन हैं । खातों की मोद्रिक सीमाएं, उधारकर्ता की आस्तियों का वर्गीकरण जो मूल्यांकन के आधीन है, मूल्यांकन की आवधिकता बैंक की नीति दिशा निर्देश (पालिसी गाइडलाइन्स) में दिये गये हैं ।

बैंक द्वारा ली गई संपार्श्वक के मुख्य प्रकारों का वर्णन:

1. स्टॉक, चल मशीनरी इत्यादि जैसी चल आस्तियाँ ।
2. भूमि, भवन, प्लांट तथा मशीनरी जैसी अचल आस्तियाँ ।
3. बैंक की स्वाधिकृत जमा राशियाँ ।
4. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, सरकार व भा.रि.बै. द्वारा जारी बाण्ड, एलआईसी पॉलिसियाँ इत्यादि ।
5. गैर निधि आधारित सुविधाओं के पेटे नकदी मार्जिन ।
6. स्वर्ण आभूषण ।
7. अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर ।

बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में बैंक ने सुस्पष्ट नीति तैयार की है । बैंक ने ऊपर क्रम संख्या 3 से 6 पर उल्लिखित प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम कमी कारक के रूप में लिया है ।

गारंटीकर्ता काउंटर पार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी विश्वसनीयता:

बैंक के ऋण जोखिम के विरुद्ध गारंटियों के प्रमुख प्रकार निम्नानुसार है :

- वैयक्तिक (व्यक्तिगत गारंटिया)
- कार्पोरेट्स
- केन्द्रीय सरकार
- राज्य सरकार
- सीजीएफटीएसआई

सीआरएम संपार्श्वक प्रतिभूति प्रमुखतः बैंक की स्वयं की जमा राशियों, सरकारी प्रतिभूतियाँ और एलआईसी पॉलिसियाँ के पेटे ऋणों में उपलब्ध हैं ।

सीआरएम प्रतिभूतियाँ, गैर निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटियों और ऋण-पत्रों में भी ली जाती हैं ।

नई पूंजी की पर्याप्तता की रूपरेखा (बेसल II मानक) के अन्तर्गत पूंजी की आवश्यकता कम करने के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए ऋण जोखिम कम करने वाले उपाय:

बैंक ने नई पूंजी की पर्याप्तता की रूपरेखा (बेसल II मानक) के अन्तर्गत पूंजी की आवश्यकता कम करने के लिए नकदी, बैंक की निजी जमा राशि, स्वर्ण और सोने के जेवर को स्वीकार किया ।

security and protection of collateral value, validity of collaterals and guarantees, and valuation /periodical inspection.

Valuation: Assets obtained to secure the loans granted by the Bank are subjected to valuation by valuers empanelled by the Bank. Monetary limits of the accounts, asset classification of the borrower, which is to be subjected to valuation, periodicity of valuation, are prescribed in the Banks' policy guidelines. Bank reviews the guidelines on valuation periodically.

Description of the main types of collateral taken by the Bank:

The collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of

1. Moveable assets like stocks, moveable machinery etc.
2. Immoveable assets like land, building, plant & machinery.
3. Bank's own deposits
4. NSCs, IVPs, KVPs, Govt. Bonds, RBI Bonds, LIC policies, etc.
5. Cash Margin against Non-fund based facilities
6. Gold Jewellery
7. Shares as per approved list

The bank has well-laid out policy on valuation of securities charged to the bank. The Bank has applied securities mentioned at sr.no.3 to 6 above as Credit Risk Mitigants.

Main types of Guarantor counterparty and their credit-worthiness:

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are :

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporate
- Central Government
- State Government
- CGFTSI

CRM collaterals are mostly available in Loans Against Bank's Own Deposit and Loans against Government Securities, LIC Policies/ Shares.

CRM securities are also taken in non fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.

Credit Risk Mitigation recognized by the Bank for the purpose of reducing capital requirement under New Capital Adequacy Framework (Basel II Norms)

The Bank has recognized Cash, Bank's own Deposits, Gold & Gold Jewellery as Credit Risk Mitigations for the purpose of reducing capital requirement under the New Capital Adequacy Framework (Basel II Norms).

(II) मात्रात्मक प्रकटीकरण / QUANTITATIVE DISCLOSURES

क्र.स. SL NO	विवरण PARTICULARS	राशि/करोड़ रुपए में AMOUNT (in Crores) 31.03.2014
(ख) (b)	अलग से प्रकट किये गए प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू हो वहां तुलन पत्र या तुलन पत्रेतर नेटिंग के बाद) जिसे हेयरकट लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपाधिक द्वारा किया गया हो । The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio.	197.12
(ग) (c)	अलग से प्रकट किये गये प्रत्येक पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू हो वहां तुलन पत्र या तुलन पत्रेतर नेटिंग के बाद) जो गारंटी/ऋण डेरिवेटिव (जहां भारतीय रिजर्व बैंक की विनिर्दिष्ट अनुमति हो) द्वारा कवर हो । The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI) for each separately disclosed portfolio	---

सारणी डीएफ-6 : प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत विधि के लिए प्रकटीकरण
गुणात्मक प्रकटीकरण:

नीति संबंधी दिशा-निर्देश किसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर को ग्रहण नहीं करती ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :
बैंकिंग बही

क्र.स.	विवरण	31.03.2014
	शून्य	

ट्रेडिंग बही

क्र.स.	विवरण	31.03.2014
	शून्य	

बैंक के पास 31-03-2014 को प्रतिभूतिकृत आस्ति का कोई मामला नहीं है ।

सारणी डीएफ-7 : ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम:
(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक, बाजार जोखिम को ऐसी संभाव्य हानि में वर्गीकृत करता है जो बाजार मूल्यों में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हो सकती है ।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवसाय संविभाग पर बाजार जोखिम से संबंधित पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण नामक एक समुचित पद्धति बनाई है । इस प्रकार आंकलित पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में रूपांतरित किया गया है । ऋण जोखिम के लिए सकल जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम को सीआरएआर का निर्धारण करने के लिए हिसाब में लिया जाता है ।

TABLE DF-6: SECURITIZATION EXPOSURES: DISCLOSURES FOR STANDARDIZED APPROACH
(I) QUALITATIVE DISCLOSURES

The policy guidelines do not undertake any securitization exposures.

(II) QUANTITATIVE DISCLOSURES
BANKING BOOK

SI No	Particulars	31.03.2014
	NIL	

TRADING BOOK

SI No	Particulars	31.03.2014
	NIL	

The bank does not have any case of its assets securitised as on 31.03.2014.

TABLE DF-7: MARKET RISK IN TRADING BOOK
(I) QUALITATIVE DISCLOSURES

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices.

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregated Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken in to consideration for arriving at the CRAR.

सम्बन्धित जोखिम प्रबन्धन के कार्य की संरचना और संगठन: बैंक की बाजार जोखिम प्रबन्धन संरचना निम्नानुसार है—

- निदेशक मण्डल
- निदेशक मण्डल की प्रबन्धन समिति
- एएलएम कमेटी
- जोखिम प्रबन्धन समिति

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

विवरण	पूँजी की आवश्यकता की राशि (करोड़ रुपए में) 31.03.2014
ब्याज दर जोखिम	12.68
इक्विटी स्थिति पर जोखिम	14.49
विदेशी मुद्रा जोखिम	—

सारणी डीएफ-8 : परिचालन जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

कार्य योजनाएं एवं प्रक्रियाएं:

बैंक की परिचालन जोखिम प्रबन्धन प्रक्रिया एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृति और मजबूत परिचालन प्रक्रिया, जिसमें कारपोरेट मूल्य, रवेया, सक्षमता, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और अनिश्चित योजना सम्मिलित हैं द्वारा संचालित है। बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबन्धन के लिए नीतियां बनाई गई हैं।

सम्बन्धित जोखिम प्रबन्धन कार्यों की संरचना और संगठन:

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबन्धन संरचना निम्नानुसार है—

- निदेशक मण्डल
- निदेशक मण्डल की प्रबन्धन समिति
- आस्ति प्रबन्धन देयता समिति
- जोखिम प्रबन्धन समिति

जोखिम रिपोर्टिंग और/या मापने की व्यवस्था का क्षेत्र और स्वभाव:

जोखिम रिपोर्टिंग में शाखा/कार्यालय में लोगों, प्रक्रिया, तकनीकी और बाह्य घटनाओं से सम्बन्धित परिचालन जोखिम घाटे की घटनाएं सम्मिलित हैं।

जोखिम को कम करने और/या भांति करने की नीति तथा कम करने/शांत करने वालों की सतत् प्रभावशीलता की निगरानी के लिए प्रक्रियाएं:

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबन्धन के लिए नीतियां बनाई हैं। नीति की रूप रेखा में परिचालन जोखिम प्रबन्धन जैसे— चिन्हीकरण, प्रबन्धन, परिचालन जोखिम क्षेत्रों की निगरानी और अल्पीकरण के विभिन्न पहलु निहित हैं।

The structure and organization of the relevant risk management function: The Market Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Management Committee of the Board (MCB)
- ALM Committee
- Risk Management Committee

(II) QUANTITATIVE DISCLOSURES

Particulars	Amount of Capital requirement (in Crores) 31.03.2014
Interest Rate Risk	12.68
Equity Position Risk	14.49
Foreign Exchange Risk	—

Table DF-8: Operational Risk

(i) Qualitative Disclosures

Strategies and processes

The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The structure and organization of the relevant risk management function

The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Management Committee of the Board (MCB)
- Asset Management Liability Committee
- Risk Management Committee

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems

The Risk reporting consists of operational risk loss incidents/events occurred in branches/offices relating to people, process, technology and external events.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants

Bank has put in place policies for management of Operational Risk management. The policy framework contains various aspects of Operational risk management such as identification, management, monitoring & mitigation of Operational risk areas.

कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग में निहित जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबन्धन के लिए नीतियां बनाई हैं।

परिचालनगत जोखिम पूंजी का आकलन:

बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिये आधारमूल सूचक पध्दति अपनायी है।

(ii) गुणात्मक प्रकटीकरण:

31.03.2014 को परिचालन जोखिम के लिये रु. 26.33 करोड़ का पूंजी प्रभार रहा और 31.03.2014 को परिचालन जोखिम के लिये रु.292.55 करोड़ की जोखिम भारित आस्तियां रहीं।

सारणी डीएफ-9 : बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी):

ब्याज दर जोखिम व जोखिम है जहां बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है। चूंकि बैंक का तुलन पत्र विभिन्न परिपक्वता/पुनः कीमत, करेन्सी, बाजार एवं बैंचमार्क दरों के प्रति संवेदनशील होता है और इन मानकों में कोई विपरीत घट-बढ़ बैंक को ब्याज दर जोखिम में डाल देती है। बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिम बैंक की आय पर (लघु अवधि का प्रभाव) और शुद्ध सम्पत्ति (दीर्घ अवधि प्रभाव) को दर्शाता है। ब्याज दर में विपरीत उतार-चढ़ाव के कारण इसका मापन मासिक आधार पर किया जाता है।

संगठनात्मक रूपरेखा:

बैंक की आस्ति देयता प्रबन्धन समिति(एल्को), निदेशक मण्डल/ जोखिम प्रबन्धन समिति द्वारा स्थापित जोखिम सहनशीलता के अनुसार विकास, आय दर प्रबन्धन कार्ययोजना के कार्यान्वयन और प्रबन्धन के प्रति उत्तदायी है।

कार्ययोजना और प्रक्रियाएं:

बैंक उचित परिपक्वता मिलान के साथ अपनी उन आस्तियों और देयताओं की कीमतों के मिलान के लिये प्रयास करता है जो अलग-अलग समय में परिपक्व हो रही हैं या जिनकी पुनः कीमत लगायी जा रही है के लिये प्रयास करता है ताकि उनकी समय श्रेणी के अन्तर को कम किया जा सके। आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्र के मर्दों जो दरों के प्रति संवेदनशील है की घरेलू स्थिति के ब्याज दर जोखिम को मापने और उसके प्रबन्धन के लिए बैंक पारंपरिक अन्तर (अल्पावधि) विश्लेषण और ड्यूरेशन गैप विश्लेषण दोनों को ग्रहण कर रहा है।

ब्याज दर जोखिम पुनः कीमत लगाने, प्राप्ति रेखा में परिवर्तन और आधार जोखिम के कारण उत्पन्न होता है। बैंक का लक्ष्य इन जोखिमों जो परिपक्वता और पुनः कीमत लगाने के गलत मिलान की वजह से उत्पन्न होते हैं को आय और आर्थिक मूल्य के परिपेक्ष में निम्नलिखित तरकीबों का प्रयोग करते हुए रोकना है।

1. अंतर विश्लेषण: ब्याज दर जोखिम को मापने का मूलभूत हथियार ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी को दरों के प्रति संवेदनशील आस्तियों और दरों

In order to address risks involved in Outsourcing of activities, bank has put in place policies for management of Outsourcing Risk.

Operational Risk capital assessment

The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk.

(II) QUANTITATIVE DISCLOSURES

Capital charge for operational Risk as on 31.03.2014 was ₹ 26.33 Cr. And Risk Weighted Assets for Operational Risk as on 31.03.2014 was ₹ 292.55 Cr.

TABLE DF-9: INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

(I) QUALITATIVE DISCLOSURES

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Interest rate risk is the risk where changes in market interest rates affect a bank's financial position. As the bank holds rate sensitive on and off balance-sheets items of different maturity/ repricing, currencies, markets and benchmark rates, and any adverse movement in these parameters exposes bank to interest rate risk. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) reveals the impact on bank's earnings (short-term impact) and net worth (long-term impact) due to adverse movement of interest rates and is measured on a monthly basis.

Organizational Framework

Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank is responsible for developing, implementing and managing interest rate risk management strategy as per the risk tolerance established by the Board of Directors/Risk Management Committee.

Strategies and Processes

The Bank strives to match the price of its assets and liabilities coupled with proper maturity matching in-order to reduce the gap in different time buckets which are maturing or getting repriced. For measurement and management of interest rate risk, Bank adopts both the Traditional Gap Analysis (TGA) and the Duration Gap Analysis (DGA) to its domestic position of assets, liabilities and off-balance sheet items, which are rate sensitive.

The interest rate risk arises on account of re-pricing, yield curve change, basis risk. The Bank aims at capturing these risks arising from the maturity and re-pricing mismatches both from earnings perspective and economic value perspective using techniques viz.,

1. Gap Analysis: The basic tool for measuring interest rate risk is preparation of Interest Rate Sensitivity Statement (IRS) by

के प्रति संवेदनशील दायित्वों और तुलनपत्र के अलग-अलग समय श्रेणी के विभिन्न मर्दों को समूहीकृत करके बची हुई परिपक्वता के अनुसार या अगली पुनः कीमत लगाने जो पहले हो विवरणी बनाना और शुद्ध अन्तर पर पहुंचना है ।

एक सकारात्मक या आसित संवेदनशील अंतर का मतलब है बाजार में ब्याज दर में वृद्धि जिसके परिणाम स्वरूप शुद्ध ब्याज आय में वृद्धि । एक नकारात्मक या देयता के प्रति संवेदनशील अंतर यह सूचित करता है कि बाजार ब्याज दरों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप बैंक की शुद्ध ब्याज आय में कमी आ रही है ।

2. जोखिम से आय: जोखिम से आय सूचित करती है कि क्या बैंक इस स्थिति में है कि वह सकारात्मक अंतर होने के कारण ब्याज दर में वृद्धि से लाभ कमा सके या नकारात्मक अंतर होने के कारण ब्याज दर में कमी से लाभ कमा सके । ब्याज दर में समानान्तर शिफ्ट के कारण आय पर पुनःकीमत लगाने के जोखिम का प्रभाव का विभिन्न दर समूहों पर आकलन किया जाता है ।

3. इक्विटी का बाजार मूल्य: बदलती हुई ब्याज दर का दीर्घ अवधि प्रभाव बैंक की इक्विटी के बाजार मूल्य या शुद्ध सम्पत्ति (नेट वर्थ) पर होता है क्योंकि बैंक की आस्तियों का आर्थिक मूल्य, देयताएं और तुलन पत्र की स्थिति बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण प्रभावित होते हैं । समूचे बैंक में संवेदनशील परिस्थितियों में ब्याज दर में परिवर्तन से निर्धारित रेट-शाक के परिणाम स्वरूप इक्विटी के बाजार मूल्य में आकलित कमी अवधि अन्तर विश्लेषण (डी.जी.ए.) द्वारा अनुमानित है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

आय जोखिम (परम्परागत अन्तर विश्लेषण)(लघु अवधि):

बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दर में परिवर्तन के त्वरित प्रभाव का विश्लेषण इसके द्वारा किया जाता है । घरेलू परिचालन के लिये जोखिम से आय का विश्लेषण विभिन्न परिदृश्यों के अन्तर्गत निम्नानुसार किया जाता है ।

- प्राप्ति रेखा(कर्व) जोखिम: आसित और देयताओं के लिये 1 प्रतिशत का समानान्तर परिवर्तन (शिफ्ट) मान लिया गया है ।
- आस्तियों के लिये समूहवार विभिन्न प्राप्ति परिवर्तनों को मान लिया गया है और यही बात देयताओं के लिये भी लागू होती है ।

	(करोड़ में)	
आय पर जोखिम	-100 बीपीएस	100 बीपीएस
	-7.98	7.98

इक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अन्तर विश्लेषण) (दीर्घ अवधि)

- इक्विटी का आर्थिक मूल्य आस्तियों और देयताओं की संशोधित अवधि की गणना करके किया गया है ताकि इक्विटी की संशोधित अवधि तक पहुंचा जा सके । घरेलू परिचालन के लिये इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव की समीक्षा 200 बीपीएस रेट शॉक के लिये अवधि अन्तर विश्लेषण विधि के माध्यम से मासिक आधार पर की जाती है ।

इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन	-200 बीपीएस	200 बीपीएस
	1.95%	-1.95%

grouping various items of Rate Sensitive Assets (RSA) and Rate Sensitive Liabilities (RSL) and off balance-sheet items into different time buckets according to the residual maturity or next re-pricing, whichever is earlier and arriving at the net gap (i.e., RSA - RSL).

A positive or asset sensitive Gap means that an increase in market interest rates result in an increase in NII. Conversely, a negative or liability sensitive Gap implies that the Bank's NII could decline as a result of increase in market interest rates.

2. Earnings at Risk (EaR): Earnings at Risk (EaR) indicates whether the bank is in a position to benefit by the rise in interest rate by having positive gap or benefits by fall in interest rate by having a negative gap. The impact of repricing risk on the earnings due to the parallel shift in interest rate is assessed for different rate shocks. Impact on the earnings is also estimated for yield curve change and basis risk.

3. Market Value of Equity (MVE): A long-term impact of changing interest rates is on bank's Market Value of Equity (MVE) or Net-worth as the economic value of bank's assets, liabilities and off balance sheet positions get affected due to variation in market interest rates. The estimated drop in the Market Value of Equity (MVE) as a result of prescribed rate shock is estimated by the Duration Gap Analysis (DGA) arising from changes in the value of interest rate sensitive positions across the whole Bank.

(II) QUANTITATIVE DISCLOSURES

Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) (Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach. The Earning at Risk is analyzed under different scenarios for domestic operations as under:

- Yield curve risk: A parallel shift of 1% is assumed for assets as well as liabilities.
- Bucket wise different yield changes are assumed for the assets and the same are applied to the liabilities as well.

	(in Crores)	
Earning at Risk	-100 bps	100 bps
	-7.98	7.98

Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term)

- Economic Value of Equity is done by calculating modified duration of assets and the liabilities to arrive at the modified duration of equity. Impact on the Economic Value of Equity is analyzed for a 200 bps rate shock at monthly intervals for domestic operations through Duration Gap Method.

Change in Economic Value of Equity	-200 bps	200 bps
	1.95%	-1.95%

सारणी डीएफ-10 : प्रतिपक्षीकरण ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

प्रतिपक्षीकरण ऋण जोखिम उसे कहा जाता है जिसमें प्रतिपक्षी नकदी प्रवाह के फाइनल निपटान से पहले अपना संव्यवहार पूरा कर लेता है | यह डेरीवेटिव तथा प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार के लिए जोखिम का प्रमुख स्रोत है | इसी प्रकार लोन के माध्यम से ऋण जोखिम के संबंध में बैंक का एक्सपोजर के समान ही जहां ऋण जोखिम संबंधी एक्सपोजर एक पक्षीय है और इसमें उधार देने वाला बैंक हानि-जोखिम का सामना करता है | प्रतिपक्षीकरण ऋण जोखिम द्विपक्षीय है अर्थात् संव्यवहार का बाजार मूल्य प्रतिपक्षी संव्यवहार से इतर पाजीटिव या निगेटिव हो सकता है और बाजार घटकों के संचलन के साथ ही भिन्न हो सकता है |

चूक के समय यदि संव्यवहार या प्रतिपक्षी के साथ संव्यवहार पोर्टफोलियो में सकारात्मक आर्थिक मूल्य परिलक्षित होते हैं तो आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है |

बैंक किसी पार्टी को डेरीवेटिव उत्पाद देने से पहले सुनिश्चित करता है कि सभी गुणवत्ताओं-अर्थात् केवाईसी मानदंडों, संतुष्टिपूर्ण व्यवहारों, पार्टी की ऋण पात्रता का पालन किया जाए |

मात्रात्मक प्रकटीकरण

राशि करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	कल्पित राशि 31.03.2014	वर्तमान एक्सपोजर 31.03.2014
1	विदेशी मुद्रा संविदाएं	—	—
2	पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर की अदला-बदली	—	—
3	एकल मुद्रा ब्याज दर की अदला-बदली	—	—
4	जोड़	—	—

TABLE DF-10: GENERAL DISCLOSURES FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

(I) QUALITATIVE DISCLOSURES

Counterparty Credit Risk is defined as the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows and is the primary source of risk for derivatives and securities financing transactions. Unlike a Bank's exposure to credit risk through a loan, where the exposure to credit risk is unilateral and only the lending bank faces the risk of loss, the counterparty credit risk is bilateral in nature i.e. the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction and varying over time with the movement of underlying market factors.

An economic loss would occur if the transactions or portfolio of transactions with the counterparty has a positive economic value at the time of default.

Banks ensures all the due diligence are to be adhered to viz. KYC norms, satisfactory dealing, credit worthiness of the party before extending any derivative products to the party.

(ii) Quantitative Disclosures

Amount (in Crores)

Sl No	Particulars	Notional Amount 31.03.2014	Current Exposure 31.03.2014
1	Foreign Exchange Contracts	---	---
2	Cross Currency Interest rate Swaps	---	---
3	Single Currency Interest Rate Swaps	---	---
4	Total	---	---

सारणी डीएफ-11 : पूंजी की संरचना
भाग II: केवल 31 मार्च 2017 से पहले प्रयोग में किया जाने वाला टेम्प्लेट
(अर्थात् बासल III विनियामक समायोजन के परिवर्तनकाल के दौरान)

TABLE DF-11: COMPOSITION OF CAPITAL
PART II: TEMPLATE TO BE USED BEFORE MARCH 31, 2017 (I.E, DURING THE TRANSITION
PERIOD OF BASEL III REGULATORY ADJUSTMENTS)

(₹ मिलियन में / in Million)

विनियामक समायोजन के परिवर्तनकाल के दौरान प्रयोग किया जाने वाला बासल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2017 तक)		पात्रता राशि	बासल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि	संदर्भ सं.
Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Eligible Amount	Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियां / Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves				
1	सीधे जारी की गयी अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टाक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) / Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	1310.00	---	a= a1+a2
2	प्रतिधारित आय / Retained earnings	---	---	
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियां) / Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	3043.69	---	
4	सीईटी 1 से धीरे-धीरे समाप्त होने के अधीन सीधे जारी की गयी पूंजी (केवल गैर संयुक्त स्टाक कम्पनियों के लिए लागू) / Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	---	---	
सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पूंजी डालने को 1 जनवरी 2018 तक पुराने नियम के अनुसार मान्य करना (ग्रांडफादर्ड) Public sector capital injections grandfathered until January 1, 2018				
5	सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गयी और तीसरे पक्ष (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी / Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	---	---	
6	विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी / Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	4353.69	---	
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन / Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments				
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन / Prudential valuation adjustments	---	---	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल) / Goodwill (net of related tax liability)	---	---	
9	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार के अलावा अमूर्त आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल) / Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	---	---	
10	आस्थगित कर संपत्ति / Deferred tax assets	---	---	
11	नकदी-प्रवाह बचाव रिजर्व / Cash-flow hedge reserve	---	---	
12	अपेक्षित हानि हेतु प्रावधानों की कमी / Shortfall of provisions to expected losses	---	---	
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ / Securitisation gain on sale	---	---	
14	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि / Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	---	---	

15	परिभाषित—लाभ पेंशन कोष निवल संपत्ति / Defined-benefit pension fund net assets	---	---	
16	निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो) / Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	---	---	
17	सामान्य इक्विटी में परस्पर कास—होल्लिंग / Reciprocal cross-holdings in common equity	---	---	
18	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	---	---	
19	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्टपोजिशन (10: की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) निवल / Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	---	---	
20	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) / Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	---	---	
21	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि, संबंधित कर देयता का निवल) / Deferred tax assets arising from temporary difference (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	---	---	
22	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि / Amount exceeding the 15% threshold	---	---	
23	जिनमें से: वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश / of which: significant investments in the common stock of financial entities	---	---	
24	जिनमें से: मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार / of which: mortgage servicing rights	---	---	
25	जिनमें से: अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियां / of which: deferred tax assets arising from temporary differences	---	---	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ) / National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	---	---	
26a	जिसमें से: असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के इक्विटी पूंजी में निवेश / of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	---	---	
26b	जिसमें से: असमेकित गैर—वित्तीय सहायक कंपनियों के इक्विटी पूंजी में निवेश / of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	---	---	
26c	जिसमें से: बैंक के साथ गैर—समेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं के इक्विटी पूंजी में कमी / of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	---	---	
26d	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय / of which: Unamortised pension funds expenditures	---	---	
	बासेल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के संबंध में सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन / Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Base III Treatment	---	---	
	जिसमें से : (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें) / of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]			

	उदाहरण के लि: एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अवसूल हानियों को बाहर निकाल देना (भारतीय संदर्भ में अप्रासंगिक)/ For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)	---	---	
	जिसमें से: (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें)/ of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	----	----	
	जिसमें से: (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें) / of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	----	----	
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन/Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	---	---	
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन/Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	----	----	
29	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1) / Common Equity Tier 1 capital (CET1)	4353.69	---	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: लिखत/Additional Tier 1 capital: instruments				
30	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित अधिशेष (शेयर प्रीमियम)(31+32)/Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	----	----	
31	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (सतत गैर-संचयी अधिमानी शेयर)/of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	----	----	
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत ऋण लिखत)/of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	----	----	
33	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत/Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	----	----	
34	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी1 लिखत)/ Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	----	----	
35	जिसमें से: चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत/of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	----	----	
36	विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1/Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	---	---	
अतिरिक्त टियर पूंजी 1: विनियामक समायोजन/Additional Tier 1 capital : before regulatory adjustments				
37	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश/ Investments in own Additional Tier 1 instruments	----	----	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक कास-होल्डिंग्स/ Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	----	----	
39	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्टपोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10 प्रतिशत की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि) के 10 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व नहीं है।/			

	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	---	---	
40	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्टपोजिशन निवल Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	---	---	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन(41 क +41 ख)/ National specific regulatory adjustments (41a+41b)	---	---	
41a	जिनमें से: गैर-समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश/ Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	---	---	
41b	बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।/Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	---	---	
	बासेल III पूर्व पद्धति के टैटमेंट के अधीनराशियों के संबंध में अतिरिक्त टियर 1 को लागू किए गए विनियामक समायोजन/Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	---	---	
	जिसमें से (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें, जैसे डीटीए)/ of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]	---	---	
	जिसमें से (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें, जैसे विद्यमान समायोजन, जिनकी टियर 1 में से 50 प्रतिशत पर कटौती की गई है)/ of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]	---	---	
	जिसमें से (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें)/ of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	---	---	
42	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन/Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	---	---	
43	अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन/ Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	---	---	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी/Additional Tier 1 capital (AT1)	---	---	
44a	पूंजी पर्याप्तता की गणना में प्रयुक्त अतिरिक्त टियर 1 पूंजी/ Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy	---	---	
45	टियर 1 पूंजी (टी1=सीईटी1+स्वीकार्य एटी1)(29+44क)/ Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)	4353.69	---	
टियर 2 पूंजी: लिखत एवं प्रावधान/Tier 2 capital: instruments and provisions				
46	सीधे जारी किए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष/ Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	---	---	
47	टियर 2 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत/Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	---	---	
48	सहायक कंपनियों द्वारा जारी किये गये एवं तृतीय पक्षों द्वारा धारित (राशि समूह टियर 2 में अनुमत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 और 34 में शामिल नहीं किये गये सीईटी1 और एटी1 लिखत)/			

	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	---	---	
49	जिनमें से: चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत / of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	----	----	
50	प्रावधान / Provisions	130.87	----	
51	विनियामक समायोजनों से पहले टियर 2 पूंजी / Tier 2 capital before regulatory adjustments	130.87	----	
टियर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन / Tier 2 capital: regulatory adjustments				
52	निजी टियर 2 लिखत में निवेश / Investments in own Tier 2 instruments	---	---	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रास-होल्डिंग्स / Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	---	---	
54	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्टपोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व नहीं है। / Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	---	---	
55	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्ट-पोजिशन निवल Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	----	----	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क+56 ख) / National specific regulatory adjustments (56a+56b)	---	---	
56a	जिसमें से: गैर-समेकित बीमा सहायक कंपनियों के टियर 2 पूंजी में निवेश of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	---	----	
56b	जिसमें से: बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है। / of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	----	----	
	बासेल III पूर्व पद्धति के टीटमेंट के अधीन राशियों के संबंध में सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन / Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	---	---	
	जिनमें से (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें, जैसे विद्यमान समायोजन, जिनकी टियर 2 में से 50 प्रतिशत पर कटौती की गई है) / of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]	---	---	
	जिनमें से (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें) / of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	----	----	
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन / Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	130.87	----	
58	टियर 2 पूंजी (टी 2) / Tier 2 capital (T2)	130.87	----	
58a	पूंजी पर्याप्तता की गणना में प्रयुक्त टियर 2 पूंजी / Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	130.87	----	

58b	टियर 2 पूंजी के रूप में मान्य एक्सेस अतिरिक्त टियर 1 पूंजी / Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	---	---	
58c	पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58क+58ख) Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)	130.87	---	
59	कुल पूंजी (टीसी =टी1+टी2) (45+58ग) / Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)	4484.56	---	
	बासेल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के संबंध में जोखिम भारित आस्तियां Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	---	---	
	जिसमें से: (समायोजन का प्रकार प्रविष्ट करें)/ of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	---	---	
	जिसमें से...../of which	---	---	
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60 क+60ख+60ग)/ Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	29640.46	---	
60a	जिसमें से: कुल क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियां/ of which: total credit risk weighted assets	23696.46	---	
60b	जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां/ of which: total market risk weighted assets	3018.51	---	
60c	जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां/ of which: total operational risk weighted assets	2925.49	---	
पूंजी अनुपात / Capital ratios				
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)/ Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	14.69%	---	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) / Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	14.69%	---	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)/ Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	15.13%	---	
64	संस्था विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी1 अपेक्षा और पूंजी संरक्षण और प्रतिक्रिय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त) Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	---	---	
65	जिसमें से: पूंजी संरक्षण बफर अपेक्षाएं/ of which: capital conservation buffer requirement	---	---	
66	जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिक्रिय बफर अपेक्षाएं/ of which: bank specific countercyclical buffer requirement	---	---	
67	जिसमें से: जी-एसआईबी बफर अपेक्षाएं / of which: G-SIB buffer requirement	---	---	
68	बफर की अपेक्षा पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	---	---	
राष्ट्रीय न्यूनतम (बासेल III से भिन्न हो तो) / National minima (if different from Basel III)				
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो तो) National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	---	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो तो) National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7%	---	

71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो तो) National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9%	----	
कटौती के लिए अधिकतम सीमा के नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले) Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)				
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश/ Non-significant investments in the capital of other financial entities	---	----	
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश/ Significant investments in the common stock of financial entities	---	----	
74	मार्टगेज सर्विसिंग राइट्स (संबंधित कर देयता का निवल)/ Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	----	----	
75	अस्थायी भिन्नताओं से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल) Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	---	----	
टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने पर लागू सीमाएं (कैप्स) / Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2				
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एकसपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व) / Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	----	----	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा (पर कैप) / Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	----	----	
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एकसपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व) / Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	----	----	
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा / Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	---	----	

सारणी डीएफ-12: पूंजी की संरचना- मिलान संबंधी अपेक्षाएं
TABLE DF-12: COMPOSITION OF CAPITAL-RECONCILIATION REQUIREMENTS

चरण 1 / Step 1

(₹ मिलियन में / in Million)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	रामेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
क / A	पूंजी तथा देयताएं / Capital & Liabilities		
प / I	प्रदत्ता पूंजी / Paid-up Capital	675.00	675.00
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष / Reserves & Surplus	3777.84	3777.84
	अल्प शेयर धारियों को ब्याज / Minority Interest	---	---
	कुल पूंजी / Total Capital	4452.84	4452.84
ii	जमा राशियां / Deposits	46495.81	46495.81
	जिनमें से: बैंकों की जमा राशियां / of which: Deposits from banks	5193.39	5193.39
	जिनमें से: ग्राहकों की जमा राशियां / of which: Customer Deposits	41302.42	41302.42
	जिनमें से: अन्य जमा राशियां (कृपया स्पष्ट करें) / of which: Other deposits (pl. specify)	---	---
iii	उधार / Borrowings	1.80	1.80
	जिनमें से: भारतीय रिजर्व बैंक से / of which: From RBI	---	---
	जिनमें से: बैंकों से / of which: From banks	---	---
	जिनमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से / of which: From other institutions & agencies	1.80	1.80
	जिनमें से: अन्य (कृपया स्पष्ट करें) / of which: Others (pl. specify)	---	---
	जिनमें से: पूंजी लिखत / of which: Capital instruments	---	---
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities & provisions	2475.45	2475.45
	कुल / Total	53425.90	53425.90
ख / B	आस्तियां / Assets		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पारा नकद एवं शेष / Cash and balances with Reserve Bank of India	2191.80	2191.80
	बैंकों के पारा शेष और गांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Balance with banks and money at call and short notice	14570.34	14570.34
ii	निवेश / Investments:	11397.40	11397.40
	जिनमें से: सरकारी प्रतिभूतियां / of which: Government securities	9277.76	9277.76
	जिनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / of which: Other approved securities	---	---
	जिनमें से: शेयर / of which: Shares	1314.62	1314.62
	जिनमें से: डिबेंचर तथा बाण्ड / of which: Debentures & Bonds	---	---
	जिनमें से: अनुषंगी कंपनियां / संयुक्त उद्योग / सहयोगी संस्थाएं / of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	---	---
	जिनमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि) / of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	805.02	805.02
iii	ऋण तथा अग्रिम / Loans and advances	24370.43	24370.43
	जिनमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम / of which: Loans and advances to banks	72.90	72.90
	जिनमें से: ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम / of which: Loans and advances to customers	24297.53	24297.53
iv	अचल आस्तियां / Fixed assets	189.12	189.12
v	अन्य आस्तियां / Other assets	706.81	706.81
	जिनमें से: साख (गुडविल) तथा अमूर्त आस्तियां / of which: Goodwill and intangible assets	---	---
	जिनमें से: आस्थगित कर आस्तियां / of which: Deferred tax assets	---	---
Vi	समेकन पर गुडविल / Goodwill on consolidation	---	---
Vii	लाभ तथा हानि खाते में नागे शेष / Debit balance in Profit & Loss account	---	---
	कुल आस्तियां / Total Assets	53425.90	53425.90

चरण 2 / Step 2

(₹ मिलियन में / in Million)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र	संदर्भ संख्या
		रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार	रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार	
		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Ref. No.
		As on reporting date	As on reporting date	
क/A	पूंजी तथा देयताएं / Capital & Liabilities			
प/I	प्रदत्त पूंजी / Paid-up Capital	675.00	675.00	
	जिसमें से: सीईटी 1 के लिए पात्र राशि / of which: Amount eligible for CET1	675.00	675.00	a1
	जिसमें से: एटी 1 के लिए पात्र राशि / of which: Amount eligible for AT1	---	----	
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष / Reserves & Surplus	3777.84	3777.84	
	जिसमें से / of which:			
	—सांविधिक आरक्षितियां / -Statutory Reserve	1072.76	1072.76	
	—शेयर प्रीमियम / -Share Premium	635.00	635.00	a2
	—केपिटल रिजर्व / -Capital Reserve	49.65	49.65	
	—स्थाई आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन / -Revaluation of Fixed Assets	49.10	49.10	
	—अन्य आरक्षितियां / -Other Reserve	0.55	0.55	
	—रेवेन्यू और अन्य आरक्षितियां / -Revenue and Other Reserve	2020.43	2020.43	
	—निवेश आरक्षिति खाता / -Investment Reserve Account	---	----	
	—आरक्षिति या खराब और संदिग्ध ऋण / -Reserve or Bad and Doubtful Debts	31.25	31.25	
	—अन्य आरक्षिति—आस्थगित कर / -Other reserve-deferred tax	0.68	0.68	
	—अन्य आरक्षिति / -Other Reserve	1831.02	1831.02	
	—निवेश आरक्षिति खाता / - Investment Reserve A/c	18.12	18.12	
	—विशेष आरक्षिति धारा 36 के अन्तर्गत / -Special reserve u/s36	139.36	139.36	
	—वर्तमान समय का लाभ जो खाते में नहीं लिया गया / -Current period profit not recognized	---	----	
	कुल पूंजी / Total Capital	4452.84	4452.84	
ii	जमा राशियां / Deposits	46495.81	46495.81	
	जिनमें से: बैंकों की जमा राशियां / of which: Deposits from banks	5193.39	5193.39	
	जिनमें से: ग्राहक जमा राशियां / of which: Customer deposits	41302.42	41302.42	
	जिनमें से: अन्य जमा राशियां (कृपया स्पष्ट करें) / of which: Other deposits (pl. specify)	---	----	
iii	उधार / Borrowings	1.80	1.80	
	जिनमें से: भारतीय रिजर्व बैंक से / of which: From RBI	---	----	
	जिनमें से: बैंकों से / of which: From banks	---	----	

	जिनमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से of which: From other institutions & agencies	1.80	1.80	
	जिनमें से :अन्य (कृपया स्पष्ट करें)/of which: Others (pl. specify)	---	---	
	जिनमें से: पूंजी लिखत/ of which: Capital instruments	---	---	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान/Other liabilities & provisions	2475.45	2475.45	
	जिनमें से:गुडविल से संबंधित डीटीएल/ Of which: DTLs related to goodwill	---	---	
	जिनमें से: अमूर्त आस्तियों से संबंधित मांग तथा मीयादी देयताएं/ Of which: DTLs related to intangible assets	---	---	
	कुल / Total	53425.90	53425.90	
ख / B	आस्तियां / Assets			
I	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं शेष /Cash and balances with Reserve Bank of India	2191.80	2191.80	
	बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Balance with banks and money at call and short notice	14570.34	14570.34	
ii	निवेश: / Investments:	11397.40	11397.40	
	जिनमें से: सरकारी प्रतिभूतियां / of which: Government securities	9277.76	9277.76	
	जिनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / of which: Other approved securities	---	---	
	जिनमें से: शेयर / of which: Shares	---	---	
	जिनमें से: डिबेंचर तथा बाण्ड / of which: Debentures & Bonds	1314.62	1314.62	
	जिनमें से: अनुषंगी कंपनियां/संयुक्त उदयम/सहयोगी संस्थाएं/ of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	---	---	
	जिनमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूच्युअल फंड आदि)/ of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	805.02	805.02	
iii	ऋण तथा अग्रिम /Loans and advances	24370.43	24370.43	
	जिनमें से:बैंकों को ऋण तथा अग्रिम /of which: Loans and advances to banks	72.90	72.90	
	जिनमें से:ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम / of which: Loans and advances to customers	24297.53	24297.53	
iv	अचल आस्तियां /Fixed assets	189.12	189.12	
	जिनमें से: गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां / Of which: Goodwill and intangible assets	---	---	
V	अन्य आस्तियां /Other assets	706.81	706.81	
	जिनमें से: गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां / Of which: Goodwill and intangible assets	---	---	
	जिनमें से: आस्थगित कर आस्तियां / of which: Deferred tax assets	---	---	
Vi	समेकन पर गुडविल /Goodwill on consolidation	---	---	
Vii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष / Debit balance in Profit & Loss account	---	---	
	कुल आस्तियां /Total Assets	53425.90	53425.90	

चरण 3 / Step 3

(₹ मिलियन में / in Million)

बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (जोड़े गए स्तंभ सहित) का उद्धरण –सारणी डीएफ-11 (भाग I/II, जो भी लागू हो) Extract of Basel III common disclosure template (with added column) - Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)			
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत तथा आरक्षित निधियाँ Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
	Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers / letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2	
	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक	चरण 2 से समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के संदर्भ संख्या/पत्रों पर आधारित स्रोत	
1	सीधे निर्गमित की गई अर्हक सामान्य शेयर (तथा संयुक्त-गैर-स्टाक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा संबंधित स्टॉक अधिशेष का जोड़ Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	1310.00	a1
2	प्रतिधारित आय / Retained earnings	---	---
3	संचयित अन्य व्यापक आय आरक्षित (तथा अन्य निधियाँ) / Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	3043.69	---
4	सीईटी1 से हटाए जाने के अधीन सीधे निर्गमित पूंजी (केवल असंयुक्त नान स्टॉक कंपनियों पर लागू) / Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	---	---
5	अनुषंगी संस्थाओं द्वारा निर्गमित तथा थर्ड पार्टी द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि) Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	---	---
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	4353.69	---
7	विवेकपूर्ण मूल्यन समायोजन / Prudential valuation adjustments	---	---
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)/ Goodwill (net of related tax liability)	---	---

सारणी डीएफ-13- विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ

बैंक ने किसी प्रकार की लिखत जैसे आई.पी.डी.आई., अपर टियर II बांड, लोअर II बांड आदि जारी नहीं किए हैं ।

TABLE DF-13: MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Bank has not issued any kind of regulatory instruments such as Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI), Upper Tier II Bonds, Lower II Bonds etc.

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014

(रु० हजारों में)
(₹ In thousands)

		अनुसूची SCHEDULE	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2013
पूँजी और दायित्व		CAPITAL AND LIABILITIES		
पूँजी	Capital	1	675000	675000
आरक्षितियाँ और अधिशेष	Reserves & Surplus	2	3777843	3331536
जमा राशियाँ	Deposits	3	46495804	37236291
उधार	Borrowings	4	1802	74077
अन्य दायित्व और उपबंध	Other Liabilities & Provisions	5	2475452	1863975
जोड़	Total		53425901	43180879
आस्तियाँ		ASSETS		
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष	Cash & Balances with Reserve Bank of India	6	2191796	1844269
बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	Balances with Banks & Money at call and Short Notice	7	14570344	8890703
निवेश	Investments	8	11397400	10356022
अग्रिम	Advances	9	24370425	21551916
स्थिर आस्तियाँ	Fixed Assets	10	189125	132253
अन्य आस्तियाँ	Other Assets	11	706811	405716
जोड़	Total		53425901	43180879
समाप्ति दायित्व	Contingent Liabilities	12	683816	565561
संग्रह के लिए बिल	Bills for collection		20954	24076
प्रमुख लेखा नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17		
खारों पर टिप्पणी	Notes on Accounts	18		

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।
Schedules referred above form an integral part of Balance Sheet

एस.के.गुप्ता
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

वी.के. गुप्ता
निदेशक

एल.एम.अस्थाना
निदेशक

आर.के.मलिक
निदेशक

एस.जी.राव
निदेशक

डा० वी.पी.एस.अरोरा
निदेशक

सी.ए. नीरज शारदा
निदेशक

सी.ए. मृदुल कुमार अग्रवाल
निदेशक

अतुल कुमार अग्रवाल
निदेशक

नरेश भारद्वाज
चीफ आउटरींगिंग ऑफिसर

हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार
कृते विजय मुकेश एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 014554 एन

आर.के. गुप्ता
एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट

सी.ए.मुकेश जैन
साझेदार
एमएन 094199

स्थान— नई दिल्ली
दिनांक 28 अप्रैल, 2014



31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ और हानि खाता
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

(रु० हजारों में)
(₹ In thousands)

		अनुसूची SCHEDULE	31-03-2014 के अनुसार As on 31.03.2014	31-03-2013 के अनुसार As on 31.03.2013
I. आय	I. INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	4325831	3927123
अन्य आय	Other Income	14	259453	302618
जोड़	Total		4585284	4229741
II. व्यय	II. EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज	Interest Expended	15	2687234	2461043
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	929496	800621
उपबन्ध और आकस्मिक व्यय	Provisions & Contingencies		314320	457467
जोड़	Total		3931050	3719131
III. लाभ	III. PROFIT			
वर्ष का शुद्ध लाभ	Net profit for the year		654234	510610
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ	Profit available for appropriation		654234	510610
IV. विनियोजन	IV. APPROPRIATIONS			
अंतरण	Transfer To :			
(i) सांविधिक आरक्षितियाँ	(i) Statutory Reserve		163558	127653
(ii) राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ	(ii) Revenue & Other Reserves:			
क) निवेश आरक्षित खाता	a) Investment Reserve Account		0	0
ख) सामान्य आरक्षितियाँ	b) General Reserve		286766	185485
ग) विशेष आरक्षितियाँ	c) Special Reserve		31320	24882
प्रस्तावित लामांश	Proposed Dividend		148500	148500
लामांश कर (सरचार्ज और शिक्षा प्रतिकर सहित)	Dividend Tax (including surcharge and edu.Cess)		24090	24090
आरक्षित पूंजी	Capital Reserve			
जोड़	Total		654234	510610
प्रति शेयर आय (रु०)	Earnings per Share (₹)			
मूल	Basic		9.69	7.56
तनु	Diluted		9.69	7.56

एस.के.गुप्ता
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एस.जी.राव
निदेशक
अतुल कुमार अग्रवाल
निदेशक

वी.के. गुप्ता
निदेशक
डा० वी.पी.एस.अरोरा
निदेशक
नरेश भारद्वाज
चीफ आपरेटिंग ऑफिसर

एल.एम.अस्थाना
निदेशक
सी.ए. नीरज शारदा
निदेशक

आर.के.मलिक
निदेशक
सी.ए. मृदुल कुमार अग्रवाल
निदेशक
हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार
कृते विजय मुकेश एण्ड कम्पनी
रानदी लेखाकार
एफआरएन 014554 एन

आर.के. गुप्ता
एगोसिएट वाइस प्रेसिडेंट

सी.ए.मुकेश जैन
राशेदार
एमएन 094199

स्थान— नई दिल्ली
दिनांक 28 अप्रैल, 2014

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ Schedules to Balance Sheet

 (रु० हजारों में)
 (₹ In thousands)

		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2013
अनुसूची - 1 पूंजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL		
प्राधिकृत पूंजी (10 रुपये प्रति शेयर वाले 15,00,00,000 शेयर) (विगत वर्ष 10/- रुपये प्रति शेयर मूल्य वाले 15,00,00,000 शेयर) जारी, अभिदत्त, मांगी गई और चुकता पूंजी (10 रु० प्रति शेयर वाले 6,75,00,000 शेयर)	Authorised Capital (15,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each) Previous Year (15,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each) Issued,Subscribed,Called up and Paid up capital 675,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each	1500000 675000	1500000 675000
जोड़	Total	675000	675000
अनुसूची - 2 आरक्षितियाँ और अधिशेष	SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS		
I सांविधिक आरक्षितियाँ	L Statutory Reserve :		
अधिशेष	Opening Balance	909199	781547
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Addition during the year	163558	127652
अंतिम शेष	Closing Balance	1072757	909199
II पूंजीगत आरक्षितियाँ	II. Capital Reserve :	49654	49938
क) पुनर्मूल्यन आरक्षितियाँ	a) Revaluation Reserve		
अधिशेष	Opening Balance	49390	49689
वर्ष के दौरान वृद्धि -	addition during the year -		
परिसर के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुआ मूल्यहास जो लाभ और हानि खाते को अंतरित किया गया	Depreciation on account of revaluation of premises transferred to Profit & Loss Account	-284	-299
अंतिम शेष	Closing Balance	49106	49390
ख) अन्य	b) Others	548	548
वर्ष के दौरान परिवर्धन	addition during the year -	0	0
अंतिम शेष	Closing Balance	548	548
III शेयर प्रीमियम	III. Share Premium :		
अधिशेष	Opening Balance	635000	635000
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Addition During the Year		
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Deduction during the year	0	0
अंतिम शेष	Closing Balance	635000	635000
IV. राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ	IV. Revenue & Other Reserves		
क) निवेश विचलन आरक्षितियाँ	(a) Investment Fluctuation Reserve :		
अधिशेष	Opening Balance	0	0
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Addition during the year	0	0
घटाएँ : सामान्य प्रावधान को अंतरण	Less : Transferred to General Provision	0	0
अन्तिम शेष	Closing Balance	0	0
ख) अन्य आरक्षितियाँ	(b) Other Reserve :		
अधिशेष	Opening Balance	1611246	1425760
जोड़ :-	Addition :		
लाभ-हानि खाते से अन्तरित की गई राशि	Transferred from Profit & Loss Account	286765	185486
कटौती	Deduction:	35052	0
अन्तिम शेष	Closing Balance	1862959	1611246
निवेश आरक्षिति खाता	Investment Reserve A/C	18117	18117
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Addition during the year	0	0
अंतिम शेष	Closing Balance	18117	18117
विशेष आरक्षिति खंड 36(I)(VIII) के अन्तर्गत	Special reserve u/s 36 (I) (VIII)	108036	83154
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Addition During the year	31320	24882
अंतिम शेष	Closing Balance	139356	108036
जोड़ (IV)	Total (IV)	2020432	1737399
V. लाभ और हानि खाते का अधिशेष	V. Balance in Profit & Loss Account	0	0
जोड़ (I एवं V)	Total (I to V)	3777843	3331536



		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2013
अनुसूची - 3 निक्षेप	SCHEDULE -3 DEPOSITS		
क. I) गॉग निक्षेप	A. I) Demand Deposits		
i) बैंकों से	i) From Banks	31667	24446
ii) अन्य से	ii) From Others	2610492	2094257
जोड़	Total	2642159	2118703
II) बचत बैंक निक्षेप	II) Savings Bank Deposits	14250893	12552814
III) सावधि निक्षेप	III) Term Deposits		
i) बैंकों से	i) From Banks	5161719	3484559
ii) अन्य से	ii) From Others	24441033	19080215
जोड़	Total	29602752	22564774
जोड़ (I, II एवं III)	Total (I, II & III)	46495804	37236291
ख. I) भारत में शाखाओं के निक्षेप	B. I) Deposits of Branches in India	46495804	37236291
II) भारत के बाहर शाखाओं के निक्षेप	II) Deposits of Branches outside India	0	0
जोड़ (I एवं II)	Total (I & II)	46495804	37236291
अनुसूची - 4 उधार	SCHEDULE -4 BORROWINGS		
I) भारत में उधार	I) Borrowings in India		
i) भारतीय रिजर्व बैंक	i) Reserve Bank Of India	0	0
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	0	0
iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण	iii) Other Institutions and Agencies	1802	74077
II) भारत के बाहर से उधार	II) Borrowings outside India	0	0
जोड़ (I एवं II)	Total (I & II)	1802	74077
III) जमानती उधार राशियाँ जो उपरोक्त I में शामिल हैं	III) Secured Borrowings Included in I above	1802	74077
अनुसूची - 5 अन्य दायित्व और उपबंध	SCHEDULE -5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I) संदेय बिल	I) Bills Payable	1429970	186283
II) अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	II) Inter Office Adjustments(Net)	0	559724
III) प्रोद्भूत ब्याज	III) Interest Accrued	27009	28948
iv) अग्रिम दिया गया कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान को छोड़कर)	iv) Tax Paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	0	0
v) अन्य (इसमें उपबंध शामिल हैं)	v) Others(Including Provisions)	1018473	1089020
जोड़ (I, II, III, IV एवं V)	Total (I, II, III, IV & V)	2475452	1863975
नोट : टियर III पूंजी में लिए गए गौण ऋण	NOTE: Subordinated Debts raised in Tier III Capital	Nil	Nil
अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष	SCHEDULE 6- CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I) नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)	I) Cash in hand (Including foreign currency notes)	238234	282966
II) भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष	II) Balances with Reserve Bank of India	1953562	1561303
i) चालू खाते में	i) In Current Accounts	1953562	1561303
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	0	0
जोड़ (I एवं II)	Total (I & II)	2191796	1844269

(रु० हजारों में)
 (₹ In thousands)

		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2013
अनुसूची - 7 बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I भारत में	I In India		
i) बैंकों में अतिशेष	i) Balances with Banks		
क) चालू खाते में	a) In Current Accounts	1016265	597513
ख) अन्य जमा खाते में	b) In Other Deposit Accounts	13454079	8293190
जोड़	Total	14470344	8890703
ii) माँग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	ii) Money at call and short notice		
क) बैंकों में	a) With Banks	0	0
ख) अन्य संस्थाएँ में	b) With other institutions	100000	0
जोड़	Total	100000	0
जोड़ (I एवं II)	Total (I & II)	14570344	8890703
II भारत के बाहर	II Outside India	NIL	NIL
जोड़ (I एवं II)	Total (I & II)	14570344	8890703
अनुसूची - 8 निवेश	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS		
I भारत में निवेश (सकल)	I Investments in India (Gross)	11434637	10376032
घटाएँ :- मूल्यहास के लिए प्रावधान	Less : Provision for Depreciation	37237	20010
भारत में शुद्ध निवेश	Net Investments in India	11397400	10356022
अलग-अलग विवरण	Break up		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	i) Government Securities	9277760	7258535
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	ii) Other Approved Securities	0	0
iii) शेयर	iii) Shares	0	0
iv) डिबेंचर और बंध पत्र	iv) Debentures and Bonds	1314617	1346051
v) रामनुषंगी और/या रांयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries and/or Joint Ventures	0	0
vi) अन्य (यूटीआई की यूनिट्स और अन्य म्यूचुअल फंड्स, वाणिज्यिक पत्र आदि)	vi) Others (units of UTI and other mutual funds, comm. papers)	805023	1751436
जोड़	Total	11397400	10356022
II भारत के बाहर निवेश	II Investments outside India	NIL	NIL
जोड़ (I एवं II)	Total (I & II)	11397400	10356022
अनुसूची - 9 अग्रिम	SCHEDULE - 9 ADVANCES		
क. i) क्रय किये गये और मितीकाटे पर मुगतान किये गये विनिमय पत्र	A. i) Bills Purchased and Discounted	73101	21160
ii) कैश क्रेडिट, ओवर ड्राफ्ट और माँग पर प्रति-संदेय उधार	ii) Cash Credit, Overdrafts and Loans repayable on demand	14497010	11956914
iii) सावधि उधार	iii) Term Loans	9800314	9573842
जोड़	Total	24370425	21551916
ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	B. i) Secured by Tangible Assets	23040859	20390724
ii) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	ii) Covered by Bank/Govt. Guarantees	1625	10005
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	1327941	1151187
जोड़	Total	24370425	21551916
ग. I. भारत में अग्रिम	C. I. Advances in India		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	13840391	10800359
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	9199	4185
iii) बैंक	iii) Banks	72948	310688
iv) अन्य	iv) Others	10447887	10436684
II. भारत के बाहर अग्रिम	II. Advances outside India	0	0
जोड़ (I एवं II)	Total (I & II)	24370425	21551916


 (रु० हजारों में)
 (₹ In thousands)

	31,03,2014 की स्थिति के अनुसार As on 31,03,2014	31,03,2013 की स्थिति के अनुसार As on 31,03,2013
अनुसूची – 10 स्थिर आस्तियां	SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS	
I परिसर	I Premises	
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर/पुनर्मूल्यांकित राशि	At cost/revalued amount as on 31st March of the preceding year	71268
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Addition during the year	49660
अद्यतन अवक्षयण—पुनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धिशील मूल्यहास सहित	Depreciation to date (including incremental depreciation due to revaluation)	12661
ब्लॉक I का शेष	Closing Block I	108267
II अन्य स्थिर आस्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित)	II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)	
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding year	291306
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Addition during the year	32538
वर्ष के दौरान कटौतियां	Deductions during the year	179
अद्यतन अवक्षयण	Depreciation to date	242807
ब्लॉक II का शेष	Closing Block II	80858
जोड़ (I एवं II)	Total (I & II)	189125
अनुसूची – 11 अन्य आस्तियां	SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS	
I अन्तर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	I Inter Office Adjustment (Net)	84024
II प्रोद्भूत ब्याज	II Interest Accrued	546501
III अग्रिम रूप से संदत्त/स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध प्रावधान को छोड़कर)	III Tax Paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	32031
IV लेखन सामग्री और स्टाम्प	IV Stationery & Stamps	66
V अन्य	V Others	44189
जोड़ (I, II, III, IV एवं V)	Total (I, II, III, IV & V)	706811
अनुसूची – 12 समाश्रित दायित्व	SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES	
I बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	I Claims against the Bank not acknowledged as Debts	4903
II धोखाधड़ी के विरुद्ध देनदारी	II Liability against Frauds	0
III रांघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियां	III Guarantees given on behalf of constituents	589967
IV स्वीकृतियां, बेचान और अन्य दायित्व	IV Acceptances, Endorsements and Other Obligations	88946
जोड़ (I, II, III एवं IV)	Total (I, II, III & IV)	683816
अनुसूची – 13 अर्जित ब्याज	SCHEDULE - 13 INTEREST EARNED	
I अग्रिमों/विनिमय पत्रों पर ब्याज/मितीकाटा	I Interest/Discount on Advances/Bills	2680319
II निवेशों से आय	II Income on Investments	806694
घटाएं— वर्ष के दौरान परिशोधित राशि	Less : amount amortised during the year	-12832
III भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेषों और अन्य अन्तर-बैंक निवेशों पर ब्याज	III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank Placements	838423
iv अन्य	iv Others	13227
जोड़ (I, II, III, IV एवं V)	Total (I, II, III, IV & V)	4325831

(रु० हजारों में)
 (₹ In thousands)

		31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2013
अनुसूची - 14 अन्य आय	SCHEDULE - 14 OTHER INCOME		
I कमीशन, विनिमय और दलाली	I Commission, Exchange & Brokerage	33880	33787
II निवेशों के विक्रय पर (शुद्ध) लाभ/हानि घटाएं - वर्ष के दौरान परिशोधित राशि	II Profit/loss on sale of investments Less : amount amortised during the year	76979	177985 -12210
iii आयकर वापसी पर ब्याज	iii Interest on Income Tax Refund	3970	0
iv प्रकीर्ण आय	iv Miscellaneous Income	135779	94283
v तृतीय पार्टी की कमीशन	v Third party commission	8845	8773
जोड़ (I, II, III, IV एवं V)	Total (I, II, III, IV & V)	259453	302618
अनुसूची - 15 व्यय किया गया ब्याज	SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED		
I निक्षेपों पर ब्याज	I Interest on Deposits	2686255	2454883
II भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	II Interest on RBI / Inter Bank Borrowings	828	120
III अन्य	III Others	151	6040
जोड़ (I, II, एवं III)	Total (I, II & III)	2687234	2461043
अनुसूची - 16 परिचालन व्यय	SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES		
i कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	i) Payments to and Provisions for Employees	633152	537854
ii किराया, कर और रोशनी	ii) Rent, Taxes and Lighting	74137	64362
iii मुद्रण और लेखन-रामग्री	iii) Printing and Stationery	7218	8342
iv विज्ञापन और प्रचार	iv) Advertisement and Publicity	1247	1647
v बैंक की सम्पत्ति पर अवक्षयण घटाइये - परिसर के पुनर्मूल्यांकन के कारण प्रारक्षित पूंजी से समायोजित मूल्यह्रास	v) Depreciation on Bank's Property Less : Depreciation adjusted from Capital reserve on account of revaluation of premises	25146 284	23637 299
vi निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	vi. Directors' Fees, Allowances and Expenses	829	610
vii लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सम्मिलित है)	vii. Auditors' Fees & Expenses (including Branch Auditors' fee & expenses)	2975	2201
viii विधि प्रभार	viii. Law Charges	6146	4459
ix डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि	ix. Postage, Telegrams, Telephones etc	7174	6834
x मरम्मत और अनुरक्षण	x. Repairs and Maintenance	9324	8371
xi बीमा	xi. Insurance	33852	31037
xii अन्य व्यय	xii. Other Expenditure	128580	111565
जोड़ (I से XII)	Total (I TO XII)	929496	800621

अनुसूची 17— प्रमुख लेखा नीतियाँ 2013-14

SCHEDULE 17— SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 2013-14

1. लेखा अभिधारणाएँ

ये वित्तीय विवरण जब तक कि अन्यथा न बताया जाये अवधिगत लागत आधार पर तैयार किए गए हैं और देश के बैंककारी क्षेत्र में विद्यमान सांविधिक प्रावधानों और प्रथाओं के अनुरूप हैं।

2. निवेश

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक के निवेश संविभाग को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक श्रेणी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन मानदण्डों का अनुपालन किया गया है :

- 2.1.1 परिपक्वता अवधि तक रखे जाने वाले निवेश
- 2.1.2 बिक्री के लिए उपलब्ध निवेश
- 2.1.3 खरीद-बिक्री हेतु रखे गए निवेश (वर्तमान में शून्य)
- 2.2 "परिपक्वता अवधि तक रखे जाने वाले" शीर्ष के तहत आने वाले निवेशों का मूल्यांकन अभिग्रहण लागत जब तक यह अंकित मूल्य जिसमें प्रीमियम लागत को प्रतिभूतियों की शेष परिपक्वता अवधि में परिशोधित किया गया है, से अधिक नहीं है पर किया गया है।
- 2.3 "बिक्री हेतु उपलब्ध" श्रेणी के निवेश बाजार मूल्य पर विहित हैं। उनका मूल्यांकन लागत अथवा बाजार मूल्य, जो भी कम है, पर किया गया है। प्रत्येक स्क्रिप का मूल्यांकन किया गया है तथा मूल्यह्रास/अधिमूल्यन तुलनपत्र की श्रेणियों के अनुसार श्रेणीवार जोड़ा गया है। शुद्ध मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है किंतु यदि यह मूल्य वृद्धि है तो इसको नजरअंदाज कर दिया गया है।
- 2.4 "बिक्री हेतु उपलब्ध" श्रेणी के निवेश में मूल्यह्रास के कारण किये गये शुद्ध प्रावधानों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है तथा इतनी ही राशि अथवा "निवेश आरक्षित खाते" में उपलब्ध शेष राशि में से जो भी कम हो को "निवेश आरक्षित खाते" से "लाभ-हानि विनियोजन खाते" को अंतरित किया गया है।
- "बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी" में अतिरिक्त शुद्ध प्रावधान होने पर उसे लाभ-हानि खाते में जमा किया गया है और उतनी ही राशि का (शुद्ध कर यदि कोई हो एवं ऐसे अतिरिक्त प्रावधान में प्रयोज्य सांविधिक प्रारक्षितियों को अन्तरण को छोड़कर) निवेश आरक्षित खाते में विनियोजन किया गया है।
- 2.5 निवेशों की बिक्री से लाभ/हानि को जो सम्बन्धित निवेशों की भारित औसत लागत/उनके बही मूल्य पर आधारित है को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है।

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements have been prepared on the historical cost basis unless otherwise stated and conform to the statutory provisions and practices prevailing in the Banking Sector of the country.

2. INVESTMENTS

2.1 In accordance with Reserve Bank of India guidelines, Investments portfolio of the bank is classified into the under mentioned categories and the valuation norms, as prescribed by RBI have been applied to each category:

- 2.1.1 Held to Maturity
- 2.1.2 Available for Sale, and
- 2.1.3 Held for Trading (being Nil)
- 2.2 Investment under "Held to Maturity" are valued at cost of acquisition unless it is more than the face value in which case premium is amortized over the remaining maturity period of the security.
- 2.3 Investment held under "Available for Sale" category are marked to market and valued at cost or market value whichever is lower. Individual scrips are valued and depreciation / appreciation is aggregated category wise as per the classification in Balance Sheet. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.
- 2.4 The net provisions arising on account of depreciation in "Available for Sale" category is charged to Profit & Loss Account and an equivalent amount or the balance available in the "Investment Reserve Account", whichever is less, is transferred from the "Investment Reserve Account" to the "Profit & Loss Appropriation Account".
- In case of excess net provision in "Available for Sale category", the same is credited to Profit & Loss Account and an equivalent amount (net of taxes, if any, and net of transfer to Statutory Reserve as applicable to such excess provisions) is appropriated to the Investment Reserve Account.
- 2.5 Profit/ Loss on sale of investments are recognized in the Profit and Loss Account based on the weighted average cost of the related investments/ book value thereof.

<p>2.6 अनर्जक प्रतिभूतियों (जहाँ ब्याज/मूल बकाया है) के सम्बन्ध में आय का अभिज्ञान नहीं किया गया है और प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास के लिए उचित प्रावधान किया गया है।</p>	<p>2.6 In respect of non-performing securities (where interest / principal is in arrear) income is not recognized, and appropriate provision is made for depreciation in value of securities.</p>
<p>2.7 निवेशों के अभिग्रहण की लागत में कमीशन, दलाली, स्टाम्प शुल्क, प्रोत्साहन राशि आदि को सम्मिलित नहीं किया गया है।</p>	<p>2.7 Cost of acquisition of investments excludes commission, brokerage, stamp duty, incentive etc.</p>
<p>2.8 "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिए प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (पीडीडीआई) / फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (फिमडा) और स्टॉक एक्सचेंज द्वारा घोषित दरों को आधार बनाया गया है।</p> <p>उन निवेशों, जिनके लिए ऐसी दरें/दाम उपलब्ध नहीं है, का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए मानकों जो नीचे दिए गए हैं के अनुसार किया गया है :</p>	<p>2.8 For the purpose of valuation of Investments in 'Available for Sale' category, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) and quotes of Stock Exchange has been considered.</p> <p>Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under:</p>
<p>2.8.1 इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन कम्पनी के नवीनतम तुलनपत्र (जो 12 माह से अधिक पुराना न हो) यदि उपलब्ध हो, के अनुसार अन्यथा एक रुपया प्रति कम्पनी के आधार पर किया गया है।</p>	<p>2.8.1 Equity Shares are valued as per latest Balance Sheet of the company (not more than 12 months), if available, otherwise are valued at ₹ 1/- per company.</p>
<p>2.8.2 म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन स्टॉक एक्सचेंज की मूल्य सूची के अनुसार हुआ है। गैर सूचीबद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों का मूल्यांकन योजना विशेष के सन्दर्भ में म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद कीमत के आधार पर हुआ है। उन फंडों के मामले में जो लॉक इन अवधि में हैं तथा जहाँ पुनर्खरीद कीमत/बाजार दाम उपलब्ध नहीं है यूनिटों का मूल्यांकन शुद्ध आस्ति मूल्य (एन.ए.वी.) पर हुआ है। यदि शुद्ध आस्ति मूल्य उपलब्ध नहीं है तो इनका मूल्यांकन लॉक इन अवधि की समाप्ति तक लागत पर किया गया है। जब कहीं पुनर्खरीद कीमत उपलब्ध नहीं है तो यूनिटों का मूल्यांकन सम्बन्धित योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य पर हुआ है।</p>	<p>2.8.2 Investments in Mutual Funds Units are valued as per Stock Exchange quotation, Investment in non-quoted Mutual Fund Units are valued on the basis of the latest repurchase price declared by the Mutual Fund in respect of each particular Scheme. In case of funds with a lock-in period, where repurchase price/ market quote is not available, Units are valued at NAV. If NAV is not available, then the same are valued at cost, till the end of the lock-in period. Whenever the re-purchase price is not available, the Units are valued at the NAV of the respective scheme.</p>
<p>2.8.3 शून्य कूपन बाण्डों का मूल्यांकन रखाव लागत अर्थात् अभिग्रहण लागत तथा उस पर अभिग्रहण के समय विद्यमान दर से प्रोद्भूत रियायत पर किया गया है। बाजार मूल्य के सन्दर्भ में इन बाण्डों को बाजार मूल्य पर बही खाते में अंकित किया गया है।</p>	<p>2.8.3 Zero coupon bonds are valued at carrying cost ie. acquisition cost plus discount accrued at the rate prevailing at the time of acquisition. These bonds are marked to market with reference to market value.</p>
<p>3. अग्रिम और उन पर प्रावधान</p>	<p>3. ADVANCES AND PROVISIONS THEREON</p>
<p>3.1 अग्रिमों को, उर्चत ब्याज, मुकदमा दायर किये गये खातों से प्राप्त विविध जमा खाते में रखी राशि, सावधि जमा रसीद के रूप में रखी मार्जिन राशि (संदिग्ध/हानिकर खातों के मामले में), गैर निष्पादक आस्तियों के लिए समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानकों के अनुरूप किये गये प्रावधानों और अनुदान आरक्षित निधि (गैर निष्पादक अग्रिमों पर) घटाकर दिखाया गया है।</p>	<p>3.1 Advances are shown net of Interest Suspense, amount received and held in Suit filed Sundry Deposits, Margin held in form of FDR (in case of doubtful/loss accounts), Provisions made for Non Performing Advances in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India from time to time and Subsidy Reserve Fund (on Non-performing advances).</p>
<p>3.2 भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानिकर आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है और उन के लिए भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है।</p>	<p>3.2 Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets as per prudential norms of the Reserve Bank of India and Provision is made as per guidelines issued by RBI.</p>

4. अचल आस्तियाँ

अचल आस्तियों को उनकी अवधिगत लागत आधार पर लेखे में लिया गया है सिवाय कुछ परिसरों के, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया था और जिनका पुनर्मूल्यांकित मूल्य दर्शाया गया है। पुनर्मूल्यांकन के कारण आई अतिरिक्त राशि को "पूँजीगत आरक्षित निधि" शीर्ष के अन्तर्गत "पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि" में जमा किया गया है।

5. स्टाफ हित लाभ

मान्यता प्राप्त ग्रेच्युटी कोष, पेंशन निधि और संचित उपार्जित छुट्टियों के नकदीकरण के लिए प्रावधान की गणना एक्चूरियल आधार पर की गई है।

6. आय अभिज्ञान

- 6.1 आय की पहचान प्रोद्भवन आधार पर की गई है। गैर निष्पादक अग्रिमों और निवेशों के मामले में वसूली की अनिश्चितता को देखते हुए ऐसी आय को वसूली होने पर ही आय में लिया गया है।
- 6.2 कमीशन से आय (बैंक गारन्टी सहित), विनिमय और दलाली, शुल्क, लॉकर के किराये और अतिदेय बिलों पर ब्याज को प्राप्ति आधार पर ही आय के रूप में लिया गया है।

7. मूल्यहास

- 7.1 अचल आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान, सिवाय कम्प्यूटरों के, कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों के अनुसार किया गया है।
- 7.2 खरीद वर्ष में पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया और बिक्री/निस्तारण/समाप्ति के वर्ष में कोई मूल्यहास नहीं लगाया/प्रभारित किया गया है।
- 7.3 कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयरों पर मूल्यहास का प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 33.33 प्रतिशत की दर से सरल रेखा पद्धति पर किया गया है।

8. आय पर कर

आयकर के लिए लेखाकरण इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी एकाउन्टिंग मानक-22 के अनुरूप आस्थगित कर आस्ति/देयता के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है। आस्थगित कर आस्ति/देयता की संगणना तुलन पत्र की दिनांक तक प्रचलित कर की दरों और नियमों के अनुसार की गई है।

4. FIXED ASSETS

Fixed Assets are stated at their historical cost except certain Premises, which were revalued and are stated at revalued amounts. The surplus on account of revaluation stands credited to Revaluation Reserve under the head "Capital Reserve".

5. STAFF BENEFITS

Contribution to recognized Gratuity Fund, Pension Fund and Provision for encashment of accumulated earned leaves are accounted for on actuarial basis.

6. REVENUE RECOGNITION

- 6.1 Income is recognized on accrual basis. In view of uncertainty of realization in case of Non-Performing Advances and Investments, such income is accounted for only on realization.
- 6.2 Income from Commission (including bank guarantee), Exchange & Brokerage, Fees, Locker Rent and Interest on Overdue Bills is taken on receipt basis.

7. DEPRECIATION

- 7.1 Depreciation on fixed assets other than on computer is provided on Written down Value at the rate prescribed in Schedule XIV of the Companies Act, 1956.
- 7.2 Depreciation is charged, for full year in the year of purchase and no depreciation is provided/ charged in the year of sale/disposal/deletion.
- 7.3 Depreciation on Computers and Computer Software's are provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% in line with guidelines of Reserve Bank of India.

8. TAXES ON INCOME

In compliance with Accounting Standard-22 on Accounting for Taxes on Income issued by The Institute of Chartered Accountants of India, accounting for Income tax is made after considering the effect of Deferred Tax assets/ liabilities. While calculating the deferred tax assets/ liabilities, tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of Balance Sheet date are applied.

अनुसूची 18 : खातों पर टिप्पणियाँ

1. ये खाते बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 के साथ पढ़ा जाए, के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।
2. सहभागिता के आधार पर दिए गए कुल रु. शून्य अग्रिमों (विगत वर्ष रु. 50.65 लाख) जिनके प्रपत्र एवं प्रतिभूतियाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के पास हैं, को बैंक से उनके खातों के व्यवहार तथा बैंक आफ बड़ौदा द्वारा सूचित आस्तियों के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रामाणिक माना गया है।
- 2.1 तुलनापत्र में सभी आंकड़े भारतीय हजार रुपये में दर्शाये गये हैं सिवाय प्रति शेयर आय के जिसे रुपये में दर्शाया गया है।

3. बही संतुलन और समाधान

- 3.1 कुछ शाखाओं में सहायक बही/तुलन बही में शेष मिलान या महाबही में तदनु रूप नियंत्रक खातों से उनके समाधान का कार्य प्रगति पर है।
- 3.2 खातों के विभिन्न शीर्षों जिनमें अंतर शाखा समायोजन/समाशोधन समायोजन आदि सम्मिलित है में बकाया कुछ नामे/जमा प्रविष्टियों में समाधान का कार्य प्रगति पर है।
- 3.3 उपरोक्त बही संतुलन/समाधान/मिलान का कार्य जो अभी पूरा नहीं हुआ है के परिणामस्वरूप होने वाले समायोजन का खातों पर प्रभाव सुनिश्चित किये जाने योग्य नहीं है।

4. अग्रिम

- 4.1 मानक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधान तथा प्रावधान की उस राशि में से जो भा0रि0बै0 के विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार अपेक्षित राशि से अधिक है हानिकर आस्तियों की बट्टे खाते डाली जाने वाली राशि को कम करके "अन्य दायित्व और उपबन्ध" शीर्ष के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है सिवाय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (vii क) के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 की समाप्ति तक की रु0 312.54 लाख की संचित राशि के, जिसे निरन्तर "आरक्षितियाँ और अधिशेष" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जा रहा है।
- 4.2 भा0रि0बै0 के दिशा-निर्देशों के अनुसार वही ऋण के विरुद्ध किए गए अग्रिमों को "मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत" शीर्ष के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है जो इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया द्वारा दिए गए मार्गदर्शन नोट के अनुरूप नहीं है।

SCHEDULE 18 : NOTES ON ACCOUNTS

1. The accounts have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of Banking Regulation Act, 1949 read with the provisions of Section 211 of the Companies Act, 1956.
2. Advance aggregating to Rs. NIL (Previous year Rs. 50.65 lac) allowed on participation basis, where documents and securities are held by Bank of Baroda have been considered as Standard on the basis of conduct of account with Bank as well as the assets classification advised by Bank of Baroda.
- 2.1 All figures in Balance Sheet are provided in Indian Rupees in terms of thousands except EPS, which is shown in Rupees.

3. BALANCING OF BOOKS AND RECONCILIATION

- 3.1 At some branches, balancing of subsidiary ledgers / balance books or reconciliation thereof with the corresponding control accounts in General Ledger are in progress.
- 3.2 Reconciliation of some debit / credit entries outstanding in various heads of accounts included in Inter Branch Adjustments/ Clearing adjustments etc are in progress.
- 3.3 Pending completion of aforesaid balancing / reconciliation/matching, the impact of consequential adjustments on the accounts is not ascertainable.

4. ADVANCES

- 4.1 Provision made for Standard Advances and Provision made in excess of RBI prudential norms after meeting the write off of loss assets are included under the head "Other Liabilities and Provisions" except the accumulated balance of ₹ 312.54 Lac up to the close of the year 1997-98 created under Section 36(1) (vii a) of the Income Tax Act, 1961, which is continued to be shown under the head "Reserve & Surplus".
- 4.2 In accordance with guidelines issued by Reserve Bank of India, advances against book debts have been included under the head "Secured by Tangible Assets" which is not in line with guidance note issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

5. करों के लिए प्रावधान

एसैसमेंट/आयकर अधिनियम की अपील के विचाराधीन मामलों के सम्बन्ध में न्यायिक उद्घोषणा और/या न्यायिक सलाहकार की राय के अनुसार पहले से ही किए प्रावधानों को समुचित माना गया है।

5. PROVISION FOR TAXATION

In respect of pending cases of assessment/ appeal under The Income Tax Act, the provisions already made are, in view of judicial pronouncement and/ or counsel's opinion, considered to be adequate.

6. शून्य**6. NIL**

भा0रि0बैं0 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं :

7. In terms of guidelines issued by the RBI the following disclosures are furnished:

7.1 पूंजी**7.1 Capital**

मद	Items	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
(i) जोखिम भारत परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (प्रतिशत)	(i) CRAR (%)	15.02%	14.34%
(ii) जोखिम भारत परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात – टियर I पूंजी (प्रतिशत)	(ii) CRAR - Tier I Capital (%)	14.58%	13.90%
(iii) जोखिम भारत परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात – टियर II पूंजी (प्रतिशत)	(iii) CRAR - Tier II Capital (%)	0.44%	0.44%
(iv) राष्ट्रीयकृत बैंकों में भारत सरकार की शेयर धारिता का प्रतिशत	(iv) Percentage of the shareholding of the Government of India in nationalized banks	NA	NA
(v) बैंक ऑफ बड़ौदा की शेयर धारिता का प्रतिशत	(v) Percentage of Share holding of Bank of Baroda	98.57%	98.57%
(vi) टियर II पूंजी के रूप में दिए गए गौण ऋण की राशि	(vi) Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital	NIL	NIL
बेसल II	BASEL II		
(i) जोखिम भारत परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात प्रतिशत	(i) CRAR (%)	15.13%	14.43%
(ii) जोखिम भारत परिसम्पत्ति की तुलना में टियर-I पूंजी प्रतिशत	(ii) CRAR - Tier I Capital (%)	14.69%	13.99%
(iii) जोखिम भारत परिसम्पत्ति की तुलना में टियर-II पूंजी प्रतिशत	(iii) CRAR - Tier II Capital (%)	0.44%	0.44%

7.2 निवेश
7.2 Investments

रूपये करोड़ में (₹ in crore)

मद	Items	वाल् वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
(I) निवेशों का मूल्य	(I) Value of Investments		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	(i) Gross Value of Investments		
(क) भारत में	(a) In India	1143.46	1037.60
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India	0.00	0.00
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(ii) Provisions for Depreciation		
(क) भारत में	(a) In India	3.72	2.00
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India	0.00	0.00
(iii) निवेशों का शुद्ध मूल्य	(iii) Net Value of Investments		
(क) भारत में	(a) In India	1139.74	1035.60
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India	0.00	0.00
(II) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव	(II) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i) अथशेष	(i) Opening balance	2.00	6.88
(ii) जोड़े : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	(ii) Add: Provisions made during the year	1.72	0.00
(iii) घटाइये : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान की बढते खाते में डाली गई/पुरांकित राशि	(iii) Less : Write-off/write-back of excess provisions during the year	0.00	4.88
(iv) इति शेष	(iv) Closing Balance	3.72	2.00

7.2.1 रिपो (पुनः खरीद) लेन-देन/Repo Transactions : शून्य/NIL
7.2.2 गैर एस.एल.आर. निवेश संविभाग/Non-SLR Investment Portfolio :
(i) गैर एस.एल.आर. निवेशों के निर्गमकर्ताओं का संघटन/ Issuer composition of Non SLR investments

रूपये करोड़ में (₹ in crore)

क्र.सं. जारीकर्ता S.No. Issuer	राशि Amount	प्राइवेट स्थापन Private Placement	इन्वेस्टमेंट ग्रेड से नीचे की प्रतिभूतियाँ 'Below investment Grade' securities	वे प्रतिभूतियाँ जिनकी दर निर्धारित नहीं है 'Unrated' securities	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ 'Unlisted' securities
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम Public Sector Undertakings	17.55 (14.69)	11.34 (12.46)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.50 (1.00)
(ii) वित्तीय संस्थान Financial Institutions	83.25 (86.25)	56.99 (61.99)	0.00 (0.00)	0.14 (0.14)	3.26 (3.26)
(iii) बैंक/Banks	15.15 (18.16)	10.13 (13.13)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (3.00)
(iv) निजी कम्पनी/Private Corporate	15.51 (15.50)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(v) सहायक/संयुक्त उद्यम Subsidiaries/Joint Ventures	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vi) अन्य/Others	83.16 (176.19)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provisions held for depreciation	0.00 (0.04)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.04)	0.00 (0.04)
जोड़ / Total	214.62 (310.83)	78.45 (87.58)	0.00 (0.00)	0.14 (0.18)	3.76 (7.30)

नोट — कोष्ठक में दी गई संख्याएँ विगत वर्ष की संख्याओं को दर्शाती हैं / Note: Figures in bracket indicates previous year's figures.

(ii) अनर्जक हो गये गैर एस.एल.आर. निवेश

विवरण	(रु० करोड़ में)	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष
अथ शेष	0.04	0.04
वर्ष के दौरान वृद्धि (1 अप्रैल से 31 मार्च तक)	0.00	0.00
उपरोक्त अवधि के दौरान कमी	0.04	0.00
इति शेष	0.00	0.04
सकल प्रावधान	0.00	0.04

(ii) Non performing Non-SLR investments

Particulars	(₹ in crore)	
	Current Year	Previous Year
Opening balance	0.04	0.04
Additions during the year (since 1st April to 31st March)	0.00	0.00
Reductions during the above period	0.04	0.00
Closing balance	0.00	0.04
Total provisions held	0.00	0.04

7.3 व्युत्पन्न / Derivatives

शून्य / NIL

7.4 आस्तियों की गुणवत्ता / Asset Quality

7.4.1 सकल अनर्जक आस्तियां / Non-Performing Asset

रुपये करोड़ में (₹ in crore)

मद	Item	रुपये करोड़ में (₹ in crore)	
		चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
(i) शुद्ध अग्रिम में शुद्ध गै.नि.आ. का प्रतिशत	(i) Net NPAs to Net Advances (%)	0	0
(ii) गै.नि.आ. (सकल) में उतार-चढ़ाव	(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(क) अथशेष*	(a) Opening balance*	67.26*	30.99
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	(b) Additions during the year	13.50	57.44
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(c) Reductions during the year	19.66	21.17
(घ) इति शेष*	(d) Closing balance*	61.10	67.26*
(iii) शुद्ध गै.नि.आ. में उतार-चढ़ाव	(iii) Movement of Net NPAs		
(क) अथ शेष	(a) Opening balance	0	0
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	(b) Additions during the year	0	0
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(c) Reductions during the year	0	0
(घ) इति शेष	(d) Closing balance	0	0
(iv) गै.नि.आ. के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)	(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(क) अथशेष**	(a) Opening balance**	67.27	42.58
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(b) Provisions made during the year	00.00	24.72
(ग) अतिरिक्त प्रावधान की बट्टे खाते में डाली गयी/प्रतिलेखित की गई राशि	(c) Write-off / write-back of excess provisions	00.20	00.03
(घ) इतिशेष**	(d) Closing balance**	67.07	67.27

* उच्च ब्याज की राशि को घटाकर आई राशि / * Amount is net of interest suspense

**इस राशि में अस्थायी प्रावधान सम्मिलित है / ** Amount includes floating provision

7.4.2 पुनर्गठन के आधीन ऋण आस्तियों का विवरण/ Details of Loan Assets subjected to Restructuring
पुनर्गठित खातों का विवरण/Particulars of Accounts Restructured

विवरण Details	पुनर्गठन का प्रकार Types of Restructure	कम्पनी ऋण पुनर्गठन तंत्र के अन्तर्गत Under CDR Mechanism					लघु, सूक्ष्म उद्योग ऋण पुनर्गठन तंत्र के अन्तर्गत / Under SME Debt Rest. Mech					अन्य / Others					योग / Total				
		मा. St	अवमा. Ss	र. D	हानि Loss	योग Total	मा. St	अवमा. Ss	र. D	हानि Loss	योग Total	मा. St	अवमा. Ss	र. D	हानि Loss	योग Total	मा. St	अवमा. Ss	र. D	हानि Loss	योग Total
1.	01-04-2013 को पुनर्गठित खातों Rest. a/c as on 1.04.2013	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borr.									33		4		37	33		4		37	
	प्रत्येक खाते Amt./St										33.10		4.43		37.53	33.10		4.43		37.53	
	प्रारम्भिक Prov.										0.09		1.10		1.19	0.09		1.10		1.19	
2-	वर्ष के दौरान नये पुनर्गठित खातों Fresh. Rest. During The Year							1		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
								11.92		11.92								11.92		11.92	
3.	उत्थान Upgradation	शून्य / NIL																			
4.	पुनर्गठित आस्तियों के लिए बड़े प्रारम्भिक की और / या वि. व. की समाप्ति पर जोखिम भारजोड़ने की आवश्यकता नहीं है अतः उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष की शुरुआत पर पुनर्गठन के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। Rest. St. Adv. which cease to attract higher prov. and or add. Risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as rest. St. adv. at the beg. Of next FY	शून्य / NIL																			
5.	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का स्तर निम्नतर होना Downgrading of rest. a/cs during the FY	शून्य / NIL																			
6.	वर्ष के दौरान बन्दे खातों वाले गये पुनर्गठित खातों Write off rest. a/cs during the year	शून्य / NIL																			
7.	31.03.2014 को पुनर्गठित खातों Rest. a/cs as on 31.03.2014	उधारकर्ताओं की संख्या No. of Borr.	-	-	-	-	-	-	1	1	28		3		31	28		4		32	
	प्रत्येक खाते Amt./St								11.92	11.92	31.29		3.55		34.84	31.29		15.47		46.76	
	प्रारम्भिक Prov.							2.48		2.48	0.06		1.42		1.48	0.06		3.90		3.96	

7.4.3 आस्तियों की पुनर्संरचना के लिए सिक्यूरिटाइजेशन/पुनर्निर्माण कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण : शून्य

7.4.3(क) खरीदी/बेची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण : शून्य

7.4.4 मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

(₹० करोड़ में)

मद	चालू वर्ष	विगत वर्ष
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (“टीजर रेट” के अन्तर्गत आर्बिट्ररि ट्रूण सहित)	8.55	7.88

7.4.5 वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अस्थाई प्रावधान

(₹० करोड़ में)

मद	चालू वर्ष	विगत वर्ष
क) अस्थाई प्रावधान खाते में अथशेष	48.12	32.42
ख) लेखा वर्ष में किये गये अस्थाई प्रावधान की मात्रा	0.00	15.70
ग) लेखा वर्ष में किये गये आहरण की राशि	11.10	0.00
घ) अस्थाई प्रावधान खाते में इति शेष	37.02	48.12

नोट – भा.रि.बैं. के परिपत्र संख्या—बैंपवि.सं.बीपी.बीसी.95/21.04.048/2013-14, दिनांक 7 फरवरी, 2014 के अनुदेश जिसे निदेशक मण्डल ने अनुमोदित किया है के अनुसार ₹.11.10 करोड़ की राशि अस्थाई प्रावधानों में से अपेक्षित विशिष्ट प्रावधान करने के लिए ली गई है जो 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार रखे गये काउंटर सायक्लिकल प्रोविजनिंग बफर/अस्थाई प्रावधानों के 33 प्रतिशत की अनुमत सीमा के अन्तर्गत है ।

7.4.6 प्रारक्षित निधि से किया गया आहरण

भा.रि.बैं. के परिपत्र संख्या—बैंपवि.सं.बीपी.बीसी.77/21.04.018/2013-14, दिनांक 20.12.2013 के अनुदेशों के अनुसार बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 के खण्ड 36(1)अपपद्ध के अन्तर्गत रखी गई विशिष्ट आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता सृजित की है और ₹.3.51 करोड़ की राशि को सामान्य आरक्षित खाते से आस्थगित कर देयता को अंतरित किया गया है।

7.4.7 प्रावधान सुरक्षा अनुपात

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
सकल प्रावधान/सकल एन.पी.ए.	(67.07/61.10)	(67.27/67.26)
	110%	100.00%

बैंक ने 31 मार्च, 2014 को सकल एन.पी.ए. के लिए 110 प्रतिशत प्रावधान सुरक्षा अनुपात रखा जबकि भा.रि.बैं. ने इसके लिए 70 प्रतिशत का मानक निर्धारित किया है । इसलिए शुद्ध एन.पी.ए. शून्य है । सकल प्रावधान में ₹.37.02 करोड़ का अस्थाई प्रावधान सम्मिलित है ।

7.4.3 Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction : NIL

7.4.3(a) Details of non performance financial assets purchased/sold. : Nil

7.4.4 Provisions on Standard Asset

(₹ in crore)

Item	Current Year	Previous Year
Provisions towards Standard Assets (including loans disbursed under "Teaser rates")	8.55	7.88

7.4.5 Floating Provisions for Financial year 2013-14

(₹ in crore)

Item	Current Year	Previous Year
(a) Opening balance in the floating provisions account	48.12	32.42
(b) The quantum of floating provision made in the accounting year	0.00	15.70
(c) Amount of draw down made during the accounting year	11.10	0.00
(d) Closing balance in the floating provision account	37.02	48.12

Note : *In terms of R.B.I circular no, DBOD, No, BP, 95/21, 04, 048/2013-14 dated February 7, 2014 and approved by the Board of Directors a sum of ₹ 11.10 crore has been drawn from floating provision to make required specific provision which is within permissible limit upto 33% of counter-cyclical provisioning buffer /floating provision held by the Bank as on 31st March, 2013

7.4.6 Drawn Down from Reserves

In terms of R.B.I circular no. DBOD No. B.P.BC.77/21.04.018/2013-14 dated 20.12.2013, the Bank has created DTL on Special Reserve created vide section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 and transferred ₹ 3.51 crore from General Reserve account to deferred tax liability

7.4.7 Provisioning Coverage Ratio

	Current Year	Last Year
Total Provision/Total NPA	(67.07/61.10)	(67.27/67.26)
	110%	100.00%

The bank has achieved Provisioning Coverage Ratio of 110% as against the stipulated RBI provision coverage ratio norm of 70% with reference to the gross NPAs as at 31st March, 2014. Hence the net NPAs stands at " NIL ". Total provision includes floating provision amounting to ₹ 37.02 crore

7.5 व्यावसायिक अनुपात / Business Ratio

मद	Item	वालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
i) कार्यकारी निधियों में ब्याज से आय का प्रतिशत	i) Interest Income as a percentage to Working Funds	9.79%	9.99%
ii) कार्यकारी निधियों में गैर ब्याज से आय का प्रतिशत	ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.59%	0.77%
iii) कार्यकारी निधियों में परिचालन लाभ का प्रतिशत	iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.19%	2.46%
iv) आस्तियों से प्राप्ति	iv) Return on Assets	1.48%	1.30%
v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम, बैंक जमा को छोड़कर) (रु० करोड़ में)	v) Business (Deposits plus advances excluding bank deposits) per employee (₹ in crore)	8.73	7.48
vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोड़ में)	vi) Profit per employee (₹ in crore)	0.09	0.07

7.6 आस्ति देयता प्रबन्धन (ए.एल.एम.) / Asset Liability Management (ALM)

आस्तियों और देयताओं के कुछ मदों की परिपक्वता पद्धति के आंकड़े नीचे दिये गये हैं (ये आंकड़े प्रबन्धन द्वारा संकलित किए गए हैं तथा उन पर लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है) / Maturity pattern of certain items of assets and liabilities (as compiled by the management and relied upon by the Auditors) are as under :

रूपये करोड़ में (₹ in crore)

देयताएं	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह तक	3 माह से अधिक और 6 माह तक	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
Liabilities	1 day	2-7 days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 months	Over 3 months & up to 6 months	Over 6 months & up to 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years	Total
जमा / Deposits	17.53 (12.91)	174.59 (128.90)	111.59 (117.40)	68.79 (96.81)	291.33 (283.87)	681.92 (476.70)	1419.82 (924.27)	1195.57 (1061.41)	676.42 (609.00)	12.02 (12.36)	4649.58 (3723.63)
अग्रिम / Advances	21.37 (17.62)	76.74 (62.26)	93.64 (76.38)	221.89 (147.76)	183.30 (153.08)	57.83 (41.59)	103.27 (90.14)	1300.97 (1160.76)	175.35 (184.89)	235.63 (241.24)	2469.99 (2175.72)
निवेश / Investments	83.16 (176.19)	0 (0.00)	0 (9.92)	34.61 (19.67)	251.78 (288.80)	0 (0.00)	25.83 (0.00)	165.80 (102.39)	85.02 (91.70)	497.26 (348.93)	1143.46 (1037.60)
उधार Borrowings	0 (0.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.03 (0.04)	0.04 (0.05)	0.10 (1.58)	0.00 (2.88)	0.01 (2.86)	0.18 (7.41)
विदेशी मुद्रा आस्तिया Foreign Currency assets	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष के आंकड़ों को दर्शाते हैं / Note: Figures in bracket indicate previous year figures.

7.7 संवेदनशील क्षेत्र को उधार/Lending to Sensitive Sector

7.7.1 भूमि भवन क्षेत्र को ऋण/Exposure to Real Estate Sector

रुपये करोड़ में (₹ in crore)

श्रेणी / Category	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
(क) प्रत्यक्ष ऋण / Direct exposure		
i) आवासीय बंधक / Residential Mortgages – आवासीय सम्पत्ति जो उधारकर्ता के कब्जे में है या होगी या उसके द्वारा किराये पर दी गई है को बंधक बनाकर पूरी तरह सुरक्षित उधार (₹. 20 लाख तक के व्यक्तिगत आवास ऋण को अलग से दिखाया जा सकता है) Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans up to ₹ 20 lakh may be shown separately)	353.04* 210.70	293.16* 202.91
ii) व्यापारिक भूमि भवन / Commercial Real Estate – व्यापारिक भूमि भवन (कार्यालय भवन, खुदरा जगह, बहु उद्देशीय व्यापारिक परिसर, अनेक परिवारों के आवासीय भवन, अनेक व्यक्तियों को किराये पर दिये गये व्यावसायिक भवन, उद्योग या गोदाम के लिए जगह, होटल, भूमि पर कब्जा, विकास और संरचना आदि) को बंधक बनाकर पूरी तरह सुरक्षित ऋण। ऋण में गैर निधि आधारित सीमाएं भी सम्मिलित होंगी। Lendings secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	117.45**	116.87**
iii) बंधक से समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत ऋण – Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures - (अ) आवासीय / Residential (आ) व्यापारिक भूमि भवन / Commercial Real Estate	-- --	-- --
(ख) अप्रत्यक्ष ऋण / Indirect Exposure राष्ट्रीय आवासा बैंक और आवासा वित्तीयन कम्पनियों को निधि आधारित और गैर निधि आधारित ऋण। Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs). भूमि भवन क्षेत्र को कुल ऋण Total Exposure to Real Estate Sector	0.00 477.46	0.00 410.03

*इसमें स्टाफ को दिए गए ₹. 13.51 करोड़ के आवास ऋण की राशि सम्मिलित है। / *Staff Housing Loans for ₹ 13.51 Crores included.

**इसमें वाणिज्यिक भूमि भवन क्षेत्र को ऋण सम्मिलित है। / **Exposure to Commercial Real Estate Includes-

-इसमें ₹. 106.68 करोड़ के निधि आधारित ऋण सम्मिलित हैं। / -Funded Exposure ₹ 106.68 crores

-गैर निधि आधारित ऋण की ₹. 10.77 करोड़ की राशि सम्मिलित हैं। / -Non Funded Exposure ₹ 10.77 crores

7.7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर (ऋण) / Exposure to Capital Market

रुपये करोड़ में (₹ in crore)

भद Items	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
i) इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों, की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी संपूर्ण राशि केवल कंपनी ऋण में निवेशित नहीं है direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	14.50	14.50
ii) शेयरों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी. सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, तथा इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा बेजमानती आधार पर अग्रिम advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;		
iii) किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक जमानत के रूप में लिया जाता है। advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;		

iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजनो शेरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों समर्थक जमानत द्वारा रक्षित हिस्से की सीमा तक अर्थात् जहाँ शेरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों से अन्य प्राथमिक जमानत अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती, किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;		
v)	स्टॉक दलालों को जमानती तथा बेजमानती अग्रिम तथा स्टॉक दलालों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियाँ secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;		
vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा बिना जमानत के कंपनियों को मंजूर किए गए ऋण loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;		
vii)	अपेक्षित ईक्विटी प्रवाहों/निर्गमों की जमानत पर कंपनियों को दिए गए तात्कालिक (ब्रिज) ऋण bridge loans to companies against expected equity flows/issues;		
viii)	शेरों/परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों की हामीदारी प्रतिबद्धताएं underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;		
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक दलालों को वित्तपोषण financing to stockbrokers for margin trading;		
x)	जोखिम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा पंजीकृत न किए गए दोनों) में सभी एक्सपोजर all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)		
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर (ऋण) / Total Exposure to Capital Market		14.50	14.50

- 7.7.3** जोखिम की श्रेणीवार किसी देश को ऋण : शून्य
- 7.7.4** ऋण जहाँ बैंक ने व्यक्तिगत/समूह उधारकर्ता के लिये यथोचित उधार सीमा का उल्लंघन किया :
बैंक ने किसी व्यक्तिगत, समूह खाते के लिये विवेक सम्मत ऋण सीमा का उल्लंघन नहीं किया।
- 7.7.5** गैर जमानती अग्रिम
अनुसूची 9 में दर्शाये गये गैर जमानती अग्रिमों की राशि निश्चित करने के लिए बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (संरचनात्मक परियोजना सहित) में अधिकार, लाइसेंस, अधिकरण आदि जो बैंक में समर्थक जमानत के रूप में हैं को गोचर प्रतिभूति के रूप में नहीं गिना गया है। इसलिए ऐसे अग्रिमों को असुरक्षित माना गया है। ऐसे कोई अग्रिम नहीं हैं जिसके लिए अग्रोवर प्रतिभूति जैसे – अधिकारों पर प्रभार, लाइसेंस, अधिकार आदि को सिक्योरिटी के रूप में रखा गया हो।

7.8 विविध

7.8.1 वर्ष के दौरान आय कर के लिए किये गये प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
आयकर के लिए प्रावधान	29.00	23.75

7.7.3 Risk Category wise Country Exposure : NIL

7.7.4 Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank.

The Bank has not exceeded the prudential limits in respect of any individual, group account

7.7.5 Unsecured Advances

For determining the amount of unsecured advances reflected in Schedule 9, the rights, licenses, authorizations, etc., charged to the bank as collateral in respect of projects (including infrastructure projects) financed by bank, have not been reckoned as tangible security. Hence such advances have been reckoned as unsecured. Moreover, there is no amount of advance for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc has been considered.

7.8 Miscellaneous

7.8.1 Amount of Provisions made for Income-tax during the year;

	(₹ in crore)	
	Current Year	Previous year
Provision for Income Tax	29.00	23.75

7.8.2 भा0रि0बै0 द्वारा लगाये गये अर्थदण्ड का प्रकटीकरण :

वर्ष के दौरान बैंक ने दिनांक 18-11-2013 को नकद निधि अनुपात (सी.आर.आर) बनाये रखने में चूक के कारण एक दिन के लिए रु0 4035 (चार हजार पैंतिस केवल) के अर्थदण्ड का भुगतान किया ।

8. शून्य

9. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (जहाँ भा.रि.बै. ने दिशा निर्देश जारी किये हैं।)

9.1 कर्मचारियों को हितलाम ले.मा.-15 (संशोधित) ले.मा.-15 (सं.) को अंगीकार करना :

बैंक ने 1 अप्रैल, 2007 से आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 15 (सं) - कर्मचारी हितलाम को अंगीकार किया है।

1. पेंशन

भारतीय जीवन बीमा निगम, बजाज एलाएन्स, लाइफ इन्श्योरेंस कं. लि., आई.सी.आई.सी.आई. प्रूडैन्शियल लाइफ इन्श्योरेंस क.लि., इण्डिया फर्स्ट लाइफ इन्श्योरेंस क.लि., एस.बी.आई. लाइफ इन्श्योरेंस क.लि., एच.डी.एफ.सी. स्टेन्डर्ड लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लि., और रिलायन्स लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लि. इस निधि के प्रबन्धन का कार्य करते हैं। बैंक पेंशन फंड को वार्षिक योगदान लाभ और हानि खाते से देता है। बैंक अपनी बही में आस्ति और देयता का अभिज्ञान नहीं करता है। निधि का प्रबन्धन एक अलग मान्यता प्राप्त न्यास द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2010-11के दौरान बैंक ने उन कर्मचारियों जिन्होंने पहले पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना था के लिए पेंशन लेने का विकल्प पुनः खोला, परिणाम स्वरूप नये विकल्पधारियों की संख्या में 300 लोगों की वृद्धि हुई जिससे बैंक के ऊपर रु. 25.81 करोड़ की अतिरिक्त देयता आई है।

लेखा नीतियां (ले.नी) 15 कर्मचारियों का हित लाभ की शर्तों के अनुसार कुल रु. 25.81 करोड़ की राशि लाभ और हानि खाते से ली जानी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के कर्मचारियों के लिए पेंशन का विकल्प पुनः खोलने तथा उप दान (ग्रेच्युटी) सीमाओं में वृद्धि - विवेकपूर्ण विनियामक व्यवहार पर एक पत्र संख्या डी.बी.ओ.डी. सं. बी.पी. बी.सी., 15896/21.04.018/2010-11, दिनांक अप्रैल 8, 2011 जारी किया है। इस पत्र में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बैंक पांच वर्ष की अवधि में रु. 25.81 करोड़ की राशि परिशोधित कर रहा है। तदनुसार इस वित्तीय वर्ष में रु. 5.16 करोड़ को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है। वर्ष के अंत में रु. 5.16 करोड़ की राशि परिशोधन के लिए शेष बचती है। (विगत वर्ष यह रु. 10.33 करोड़ थी)।

2. छुट्टी नकदीकरण

इस निधि का प्रबन्धन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। इसके लिए बैंक अपना योगदान लाभ और हानि खाते से देता है। आस्ति और देयता का हिसाब ज्ञापन बही में रखा गया है।

3. ग्रेच्युटी

एस.बी.आई. लाइफ इन्श्योरेंस कं.लि., बजाज एलाएन्स, लाइफ इन्श्योरेंस कं.लि., आई.सी.आई.सी.आई. प्रूडैन्शियल लाइफ इन्श्योरेंस कं.लि. और इण्डिया फर्स्ट लाइफ इन्श्योरेंस कं.लि., एच.डी.एफ.सी. स्टेन्डर्ड लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड और रिलायन्स लाइफ इन्श्योरेंस क.लि. द्वारा ग्रेच्युटी निधि के

7.8.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI

During the year, the Bank has paid ₹ 4035/- (₹ Four Thousand thirty five only) as penal interest on account of default in maintenance of CRR for one day i.e. on 18.11.2013.

8. NIL

9. Disclosure as per Accounting Standards (where RBI has issued guidelines)

9.1 Employees Benefits AS-15 (Revised)

Adoption of AS-15(R):

The Bank has adopted Accounting Standard 15 (R) - Employees Benefits, issued by ICAI w.e.f. 1st April, 2007.

1. Pension

The fund is managed by Life Insurance Corporation of India, Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd., ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., India First Life Insurance Co. Ltd and SBI Life Insurance Co. Ltd, HDFC Standard life insurance company limited and Reliance Life Insurance company limited. The Bank charges the annual contribution towards pension fund to its Profit & Loss Account. The Bank does not recognize the asset and liability in its books. The fund is managed by a separate recognized Trust.

During the year 2010-11, the Bank reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of which the number of new optees increased by 300 due to which, the bank had incurred an additional liability of ₹ 25.81 crore.

In terms of the requirements of the Accounting Standard (AS) 15- Employee Benefits, the entire amount of Rs.25.81 crore was required to be charged to the Profit and Loss Account. However, Reserve Bank of India has issued a circular no. DBOD. No. BP.BC.15896/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of the Bank and Enhancement in Gratuity Limit- Prudential regulatory Treatment dated April 8, 2011. In accordance with the provisions of the said circular, the Bank is amortizing the amount of ₹ 25.81 crore over a period of five years. Accordingly, ₹ 5.16 crore has been charged to the Profit and Loss Account in this FY. The balance amount pending to be amortized at the year end is ₹ 5.16 crore (Previous year amount: ₹ 10.33 crore).

2. Leave encashment

The fund is managed by LIC of India. The Bank charges the annual contribution towards the fund to its Profit & Loss account. The asset and liability are maintained in Memorandum Books.

3. Gratuity

The fund is managed by SBI Life Insurance Co. Ltd., Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd., ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., India First Life Insurance Co. Ltd, HDFC Standard Life Insurance Company Ltd and

प्रबन्धन का कार्य किया जाता है। बैंक ग्रेच्युटी निधि को दिए जाने वाले अपने वार्षिक योगदान को लाभ और हानि खाते से अदा करता है। बैंक आरिस्त और देयता को अपनी बहियों में चिन्हित नहीं करता है। निधि के प्रबन्धन का कार्य एक अलग मान्यता प्राप्त न्यास द्वारा किया जाता है।

ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन के अनुसार 24.05.2010 से बैंकों में देय ग्रेच्युटी की सीमा रु. 3.50 लाख से बढ़कर रु. 10.00 लाख हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप बैंक की ग्रेच्युटी देयता में रु. 10.09 करोड़ की वृद्धि हुई है।

लेखा मानक (ले.मा.) 15—कर्मचारियों के हित लाभ की अपेक्षाओं के अनुसार रु. 10.09 करोड़ की समस्त राशि को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाना है। किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन का विकल्प पुनः खोलने तथा उपदान (ग्रेच्युटी) सीमाओं में वृद्धि—विवेकपूर्ण विनियामक व्यवहार पर एक पत्र संख्या डी.बी.ओ.डी. सं. बी.पी. बी.सी. 15896/21.04.018/2010—11, दिनांक अप्रैल 8, 2011 जारी किया है। उक्त पत्र के प्रावधानों के अनुसार बैंक रु. 10.09 करोड़ की राशि को पांच वर्ष की अवधि के दौरान परिशोधित कर रहा है। तदनुसार इस वित्तीय वर्ष में रु. 2.02 करोड़ को लाभ और हानि में प्रभारित किया गया है। वर्ष के अंत में रु. 2.01 करोड़ की राशि परिशोधन के लिए शेष बचती है (विगत वर्ष यह रु. 4.03 करोड़ थी)।

4. कर्मचारियों को अन्य हित लाभ

कर्मचारियों को दिए जाने वाले अन्य हित लाभ के सम्बन्ध में बैंक ने अवकाश के दौरान यात्रा के किरायों में रियायत (एल. एफ.सी.) के लिए रु.1.47 करोड़ और 31-03-2014 तक अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए रु.1.98 करोड़ का प्रावधान किया है। यह प्रावधान एकवृत्ती द्वारा किये गये आकलन के आधार पर किया गया है।

Reliance life insurance company limited. The Bank charges the annual contribution towards Gratuity fund to its Profit & Loss Account. The Bank does not recognize the asset and liability in its books. The fund is managed by a separate recognized Trust.

As per amendment in the Payment of Gratuity Act, 1972 w.e.f. 24.05.2010, the limit of gratuity payable has been enhanced in the banks from ₹ 3.50 Lac to ₹ 10.00 Lac. As a result, the gratuity liability of the bank has increased by ₹10.09 crore.

In terms of the requirements of the Accounting Standard (AS) 15- Employee Benefits, the entire amount of ₹10.09 crore is required to be charged to the Profit and Loss Account. However, Reserve Bank of India has issued a circular no. DBOD. No. BP.BC.15896/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of the Bank and Enhancement in Gratuity Limit- Prudential regulatory Treatment dated April 8, 2011. In accordance with the provisions of the said circular, the Bank is amortizing the amount of ₹ 10.09 crore over a period of five years. Accordingly, ₹ 2.02 crore has been charged to the Profit and Loss Account in this FY. **The balance amount pending to be amortized at the year end is ₹ 2.01 crore (Previous year amount: ₹ 4.03crore).**

4. Other Employees Benefits

In respect of other employees benefit, the Bank has made a provision of ₹ 1.47 crore on account of LFC & ₹ 1.98 crore on account of Ex-gratia payment upto 31.03.2014. These provision have been made on the basis of valuation of obligation carried out by actuarial .

5(क) देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन / Changes in the present value of the obligation

रुपये करोड़ में (₹ in crore)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिगत) Pension (Funded)	ग्रेच्युटी (निधिगत) Gratuity (Funded)	छुट्टी नकदीकरण (निधिगत) Leave Encashment (Funded)
1 अप्रैल, 2013 को निर्धारित हित लाभ के दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of defined benefit obligation as at 1st April, 2013	113.47	30.16	13.35
ब्याज लागत / Interest Cost	9.65	2.57	1.14
वालू सेवा लागत / Current service cost	3.27	1.32	0.69
पूर्व सेवा लागत / Past service cost	-	-	-
घटाएँ / Less :	-	-	-
अदा किए गए हित लाभ / Benefits Paid	-6.16	-1.07	-0.46
एक्ट्यूरियल हानि / (लाभ) Actuarial loss / (gain)	8.44	1.15	0.94
31 मार्च, 2014 को निर्धारित हितलाभ देयता का वर्तमान मूल्य Present value of defined benefits obligations as at 31st March, 2014	128.67	34.13	15.66

5 (ख) योजना बद्ध आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन / Changes in the fair value of Plan Assets

रुपये करोड़ में (₹ in crore)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)	ग्रेच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)	छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)
1 अप्रैल, 2013 को योजनाबद्ध आस्तियों का उचित मूल्य – Fair value of Plan Assets as at 1st April, 2013.	79.58	26.13	13.35
योजनाबद्ध आस्तियों से अपेक्षित प्राप्ति, जैसा कि एकचूरी की रिपोर्ट में दिया गया है। Expected Return of Plan Assets as in the actuarial report	6.76	2.57	1.26
नियोक्ता का योगदान 2013-14 Employer's Contribution 2013-14	13.36	4.80	1.57
रोवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए खरीदी गई एन्यूटीज Annuities Purchased for retirees	29.83	-	-
घटाएँ / Less :			
प्रदत्त लाभ / Benefits Paid	-6.16	-1.24	-0.46
एकचूरियल हानि / (लाभ) / Actuarial loss/(gain)	0.27	-0.06	0.02
31 मार्च, 2014 को योजनाबद्ध आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of Plan Assets as at 31st March, 2014	123.64	32.20	15.74

5 (ग) शुद्ध एकचूरियल घाटा / (लाभ) / Net Actuarial Loss/(Gain)

रुपये करोड़ में (₹ in crore)

विवरण / Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)	ग्रेच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)	छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)
दायित्वां पर एकचूरियल हानि / (लाभ) (क) Actuarial Loss/(gain) on obligation (A)	8.43	1.15	0.94
योजनाबद्ध आस्तियों पर एकचूरियल घाटा / (लाभ) (ख) Actuarial Loss/(gain) on Plan Assets (B)	-0.27	0.05	-0.02
शुद्ध एकचूरियल हानि / (लाभ) Net Actuarial loss/(gain)	8.16	1.20	0.92
इस अवधि में चिन्हित एकचूरियल हानि / (लाभ) Actuarial Loss/(gain) recognized in the period	8.16	1.20	0.92
वर्ष के अंत में निश्चित न की गई एकचूरियल हानि / (लाभ) Unrecognised Actuarial loss/ (gain) at the end of the year.	0	0	0

5 (घ) लाभ और हानि खाते में दिये गये व्यय /Expenses Recognised in Profit & Loss Account रुपये करोड़ में (₹ in crore)

विवरण/Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)	ग्रेच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)	छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)
चालू सेवा लागत / Current Service Cost	3.27	1.32	0.69
ब्याज लागत / Interest Cost	9.65	2.56	1.14
योजनाबद्ध आस्तियों से अपेक्षित प्राप्ति / Expected Return on Plan Assets	-6.77	-2.56	-1.26
पूर्व सेवा लागत – निहित हितलाभ / Past Service Cost - Vested Benefits	0	0	0
पूर्व सेवा लागत—गैर—निहित हितलाभ/Past Service Cost - Non-Vested Benefits	0	0	0
वर्ष के दौरान निश्चित की गई संक्रमण कालीन देयता Transitional liability recognized during the year.	0	0	0
घटाएं/ Less :			
एक्च्यूरियल घाटा/(लाभ) Net Actuarial Loss/(gain)	8.17	1.20	0.92
वास्तव में निश्चित किया गया शुद्ध हितलाभ व्यय/Net benefits expenses actually recognised	14.32	2.52	1.49

5 (ङ.) तुलन पत्र में दी गई राशि / Amount recognized in the Balance Sheet

रुपये करोड़ में (₹ in crore)

विवरण/Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)	ग्रेच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)	छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)
देयता का वर्तमान मूल्य / Present value of Obligation	128.67	34.13	15.66
योजनाबद्ध आस्तियों का उचित मूल्य / Fair Value of Plan Assets	-123.64	-32.20	-15.74
निधिक स्थिति Funded Status	5.03	1.93	-0.08

5(घ) तुलन पत्र की दिनांक को मुख्य एक्च्यूरियल पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में प्रदर्शित)
Principal Actuarial Assumptions at the Balance Sheet date (expressed as weighted average)

विवरण/Particulars	पेंशन (निधिक) Pension (Funded)	ग्रेच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)	छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (Funded)
रियायत दर Discount rate	8.50%	8.50%	8.50%
योजनाबद्ध आस्तियों पर प्राप्ति की अपेक्षित दर Expected rate of return on Plan Assets	9.40%	8.50%	9.40%
वेतन में वृद्धि की दर Rate of escalation in salary	5.50%	5.50%	5.50%
क्षरण दर Attrition rate	-	-	-
अपनाई गई विधि Method Used	PUC	PUC	PUC

9.2 खण्डवार सूचना (लेखा मानक 17) / Segment Reporting (Accounting Standard 17)
भाग (क) : व्यावसायिक खण्ड (रु० करोड़ में) / Part A: Business segments (Rs. in crore)

व्यावसायिक खण्ड Business Segments	ट्रेजरी Treasury	कम्पनी/थोक बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking	खुदरा बैंकिंग Retail Banking	अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operation	कुल योग Total
विवरण Particulars	2013-14	2013-14	2013-14	2013-14	2013-14
राजस्व/ Revenue	170.93	73.06	213.26	1.28	458.53
	(152.90)	(68.45)	(200.74)	(0.88)	(422.97)
परिणाम/ Result	45.43	19.69	57.66	1.28	124.06
	(49.37)	(11.43)	(39.40)	(0.88)	(101.08)
आवंटित न किए गए खर्च Unallocated expenses					29.64 (26.27)
कुल लाभ आयकर से पहले / Total Profit Before Tax					94.42 (74.81)
आयकर/ Income tax					29.00 (23.75)
असामान्य लाभ/ हानि Extraordinary profit/ loss					0 (0)
शुद्ध लाभ/ Net profit					65.42 (51.06)
अन्य सूचना / Other Information					
खण्ड आस्तियाँ/ Segment assets	2489.37	912.79	1921.52	0	5323.68
	(1877.67)	(710.00)	(1717.19)	(0)	(4304.86)
आवंटित न की गई आस्तियाँ Unallocated assets					18.91 (13.23)
कुल आस्तियाँ/ Total assets					5342.59 (4318.09)
खण्ड देयताएँ/ Segment liabilities	2191.73	872.42	1836.35	0	4900.50
	(1668.08)	(658.93)	(1593.62)	(0)	(3920.63)
आवंटित न की गई देयताएँ Unallocated liabilities					442.09 (397.46)
कुल देयताएँ/ Total liabilities					5342.59 (4318.09)

भाग ख : भौगोलिक खण्ड / Part B : Geographic segments : शून्य/ NIL

9.3. रागबन्धित पक्षों का प्रकटीकरण (लेखा मानक 18) / Related Party disclosures (Accounting Standard 18) :

रुपये करोड़ में (₹ in crore)						
मद/रागबन्धित पक्ष Items/Related Party	मूल कम्पनी (स्वानिव या नियंत्रण के अनुरार Parent (as per ownership or control)	मूल कम्पनी की अनुपंगिया Parent's Subsidiaries	राहयोगी रांरथा / रायुक्त उद्यग Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबन्धक कार्गिक Key Management Personnel	प्रमुख प्रबन्धक कर्गारियाँ के रागबन्धी Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
वर्ष की रागारिा पर उधार/ Borrowings at the year end	0 (0.00)	--	--	--	--	0 (0.00)
सर्वाधिक राशि / Maximum O/S	40.00 (20.00)	--	--	--	--	40.00 (20.00)
जगा / Deposit	--	--	--	--	--	--
जगाओं का विवरण / Placement of deposits	--	--	--	--	--	--
चालू खाता** वर्ष के अंत में Current A/c at the year end**	77.85 (41.52)	--	--	--	--	77.85 (41.52)
सावधि जगा राशि वर्ष के अंत में/ Fixed Deposit at the year end	78.00 (72.02)	--	--	--	--	78.00 (72.02)
सर्वाधिक राशि / Maximum O/S	78.00 (72.02)	--	--	--	--	78.00 (72.02)
वर्ष के अंत में चालू खाते में प्राप्त जगा राशि Deposit received Current a/c at the year	0.00 (0.00)	--	--	--	--	0.00 (0.00)
वर्ष के अंत में सावधि खाते में प्राप्त जगा राशि Fixed Deposit at the year end	--	--	--	--	--	--
सर्वाधिक राशि / Maximum O/S	--	--	--	--	--	--
अग्रिम / Advance	--	--	--	--	--	--
विशेष वर्ष के अंत में/ Investments at year end	--	--	14.50 (19.50)	--	--	14.50 (19.50)
सर्वाधिक राशि / Maximum O/S	--	--	19.50 (19.50)	--	--	19.50 (19.50)
वर्ष के अंत में गैर निधिक प्रतिबद्धता / Non-funded Commitments at the year end	17.16 (11.21)	--	--	--	--	17.16 (11.21)
सर्वाधिक राशि / Maximum O/S	20.47 (11.30)	--	--	--	--	20.47 (11.30)
वर्ष के अंत में जारी गैर निधिक प्रतिबद्धता/ Non-funded Commitments issued at the year end	23.02 (20.03)	--	--	--	--	23.02 (20.03)
सर्वाधिक राशि / Maximum O/S	23.02 (20.03)	--	--	--	--	23.02 (20.03)
उपयोग की गई पट्टादायी/किराया खरीद व्यवस्था Leasing/HP arrangements availed	--	--	--	--	--	--
उपलब्ध कराई गई पट्टादायी/किराया व्यवस्था Leasing/HP arrangements provided	--	--	--	--	--	--
अचल सम्पत्तियों की खरीद/म्यु. फण्ड के यूनिटों की खरीद Purchase of fixed assets /mutual fund units	--	--	15.00 (5.00)	--	--	15.00 (5.00)
अचल सम्पत्तियों की विक्री/म्यु.फण्ड के यूनिटों की विक्री Sale of Fixed assets /mutual fund units	--	--	20.00 (1.00)	--	--	20.00 (1.00)
प्रदत्त व्याज / Interest paid	0.08 (0.01)	--	--	--	--	0.08 (0.01)
प्रदत्त कमीशन / Commission paid	0.39 (0.20)	--	--	--	--	0.39 (0.20)
प्राप्त कमीशन / Commission received	0.05 (0.18)	--	0.05 (0.02)	--	--	0.10 (0.20)
डिविडेन्ड आय / Dividend income	--	--	0.10 (0.005)	--	--	0.10 (0.005)
यूनिटों की विक्री से लाभ / Profit on sale of Units	--	--	Nil (0.03)	--	--	Nil (0.03)
प्राप्त व्याज / Interest received	2.41 (0.49)	--	--	--	--	2.41 (0.49)
प्रदत्त सेवाएँ / Rendering of Services	--	--	--	--	--	--
प्राप्त सेवाएँ / Receiving of services	--	--	--	--	--	--
प्रबन्धन / Management	--	--	--	0.22 (0.22*)	--	0.22 (0.22)

*मु.का.अ. और सी.ओ.ओ.को प्रबन्धकीय पारिश्रमिक / *Managerial Remuneration to CEO & COO.

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष के आंकड़े हैं। शेष राशियाँ पुष्टिकरण के अधीन हैं। / Figures in brackets indicate previous year figures, Balances are subject to confirmation.

सम्बन्धित पक्षों के नाम व उनका बैंक से सम्बन्ध / Names of the related parties and their relationship with the Bank

- (i) मूल कम्पनी / Parent : बैंक आफ बड़ौदा (प्रमुख अंश धारक) / Bank of Baroda (Major Shareholder)
- (ii) प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक / Key Management Personnel : श्री ए.स.के. गुप्ता (अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी) 14.01.2013 से
 Shri S. K. Gupta (Chairman & CEO) w.e.f. 14.01.2013
 श्री ए.के. मिश्रा (चीफ ऑपरेटिंग आफीसर) 30.07.2013 तक
 Shri A.K.Mishra (Chief Operating Officer) till 30.07.2013
 : श्री नरेश भारद्वाज (चीफ ऑपरेटिंग आफीसर) 31.07.2013 से
 Shri Naresh Bhardwaj (Chief Operating Officer) w.e.f. 31.07.2013
- (iii) मूल कम्पनी का अनुषंगी / Parent's Subsidiary : बॉब कैपिटल मार्केट्स लि. / BOB Capital Markets Ltd.
 : बॉब कार्ड्स लिमिटेड / BOB Cards Limited

9.4 आय पर करों के लिए लेखाकरण (लेखा मानक 22) / Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard 22)

वर्ष के अंत में आस्थगित कर आस्ति / देयता का विश्लेषित विवरण निम्नानुसार है / The break up of deferred tax asset / liability at the year end is as under:

रूपये करोड़ में (₹ in crore)

मद / Item	31.03.2014	
	सकल आस्थगित कर आस्ति Total Deferred Tax Asset	सकल आस्थगित कर देयता Total Deferred Tax Liability
बही मूल्यहास (बिना पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति के) और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यहास में अंतर Difference between WDV as per book (Without Revaluation Reserve) and depreciation under Income Tax Act	0.60	शून्य / NIL
कर्मचारी हित लाभ के लिए प्रावधान / Provision For Employee Benefits	2.80	शून्य / NIL
खण्ड 36(i) (viii) के अंतर्गत सृजित आरक्षित निधि / Reserve created u/s 36(i)(viii)	—	4.52
कुल / Total	3.40	4.52
31.03.2014 को सकल आस्थगित कर आस्ति / देयता Total Deferred Tax Assets/Liability as on 31.03.2014	-	1.12

31.03.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹ 13.43 लाख की आस्थगित कर आस्तियां (विगत वर्ष ₹ 2.26 करोड़ की आस्थगित कर आस्तियां) को लाभ और हानि खाते में सम्मिलित किया गया। प्रबन्धन की राय में अनर्जाक आस्ति के लिए प्रावधान के सम्बन्ध में किसी प्रकार का समायान्तर नहीं है इसलिए उसके लिए कोई आस्थगित कर आस्ति नहीं रखी गई है।

भारि.बैं. के परिपत्र संख्या—बैंपवि.सं.बीपी.बीसी.77 / 21.04.018 / 2013—14, दिनांक 20.12.2013 के अनुदेशों के अनुसार बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 के खण्ड 36 (1)(viii) के अन्तर्गत रखी गई विशिष्ट आरक्षित निधि पर आस्थगित कर देयता सृजित की है और ₹ 3.51 करोड़ की राशि को सामान्य आरक्षित खाते से आस्थगित कर देयता को अंतरित किया गया है।

Net addition of Deferred tax assets of ₹ 13.43 lac for the year-ended 31.03.2014 (Previous year DTA ₹ 2.26 crore) has been recognized in the Profit and Loss A/c. In view of the management, there is no timing difference arising in connection with NPA provisions, hence no deferred tax assets have been recognized.

In terms of R.B.I. circular no. DBOD No. B.P.BC.77/21.04.018/2013-14 dated 20.12.2013, the Bank has created DTL on Special Reserve created under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961. Accordingly, the Bank has transferred ₹ 3.51 crore from General Reserve account to deferred tax liability.

9.5 प्रति शेयर आय (ले0मा0. 20) / Earnings Per Share (Accounting Standard 20) :

विवरण / Particulars	31.03.2014	31.03.2013
क) प्रति शेयर आय / Earning per share		
i) मूल / Basic	₹ 9.69	₹ 7.56
ii) तनु / Diluted**	₹ 9.69	₹ 7.56
ख) (कर के बाद) लाभ के रूप में आई राशि Amount used as numerator (Profit after tax)	₹ 65.42 Crores	₹ 51.06 Crores
ग) शेयरों का न्यूनतम मूल्य / Nominal value of shares	₹ 10/- per share	₹ 10/- per share
घ) इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या जिससे भाग दिया गया। Weighted average number of equity shares used as the denominator	67500000	67500000

** बैंक के पास वर्ष के दौरान तनु प्रति शेयर आय की गणना के लिए कोई सम्भावित तनु इक्विटी शेयर नहीं है और प्रति शेयर मूल आय लेमा—20 के अनुसार, कर के बाद आये शुद्ध लाभ को औसत भारित इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित करके निकाली गई है।

**The bank has no dilutive potential equity shares outstanding during the year for the purpose of computing diluted EPS and the basic earnings per share has been computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares as per AS-20.

9.6 आस्तियों की क्षति (लेखा मानक 28) :

बैंक के प्रबन्धन की राय में आस्तियों की ऐसी कोई क्षति नहीं हुई है जिस पर 31.03.14 की स्थिति के अनुसार किसी जोस सीमा तक उपरोक्त लेखा मानक प्रयुक्त होता हो। चालू वर्ष के दौरान ₹5.00 लाख का पूर्ववत् तदर्थ प्रावधान किया गया है।

9.6 Impairment of Assets (Accounting Standard 28) :

In the opinion of the Bank's Management, there is no impairment of the assets to which aforesaid Accounting Standard applies to any material extent as at 31.3.2014. An adhoc provision of ₹ 5.00 Lac has been continued during the current year.

9.7 समाश्रित देयता और प्रावधानों का विवरण (लेो मा0 29)/ Statement of contingent Liability & Provisions (Accounting Standard 29)

रुपये करोड़ में (₹ in crore)

मद/Item	लेखा मानक 29 के अनुसार प्रावधान						Provision as per A.S. 29		
	वह राशि जिसके लिये बैंक समाश्रित रूप से देन्दार हो सकता है	वर्ष के आरम्भ में किया गया प्रावधान	वर्ष के दौरान प्रवर्धन	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	उपयोग न की गई राशि जिसे वर्ष के दौरान वापस किया गया।	वर्ष की समाप्ति पर कुल प्रावधान	भविष्य की गतिविधियों के सम्बन्ध में बड़ी अभिधारणाएँ	टिप्पणी	
	Amt. for which the Bank is contingently Liable	Provision as at the Beginning of the Year	Addition during the Year	Amount used during the Year	Unused amount reversed during the Year	Provision as at the close of the year	Major assumption regarding future events	Remarks	
बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं रामज्ञा गया। Claims against the Bank not acknowledged as debt	0.72 (0.89)	0.31 (0.17)	NIL (0.14)	Nil (Nil)	0.00 (0.00)	0.31 (0.31)	*	-	
संवत्कों की ओर से जारी की गई गारन्टियाँ Guarantees issued on behalf of constituents	59.00 (53.09)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	*	-	
स्वीकृतियाँ, बेचान और अन्य दायित्व Acceptance Endorsements and other obligations	8.89 (2.89)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	N.A. (N.A.)	*	—	
अन्य मद जिसके लिये बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है। Other items, for which the Bank is contingently liable	0.11 (0.11)	0.12 (0.12)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (NIL)	0.12 (0.12)	*	—	

* ऐसी देयताएँ न्यायालय/मध्यस्थ/न्यायालय से बाहर समझौते, मुकदमों के निस्तारण, मांगी जा रही राशि, संविदा की शर्तों, सम्बन्धित पक्षों द्वारा मांग व उसके विकास के परिणाम पर निर्भर हैं।

10. भा0रि0वै0 के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक के निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 31.03.14 की स्थिति के अनुसार निवेशों की स्थिति निम्नानुसार है :-

* Such liabilities are dependent upon the outcome of court/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively.

10. In accordance with RBI guidelines, the Bank's Investment portfolio has been classified into three categories. The position of holding as on 31.03.2014 is as follows:

क्र.सं. विवरण	निवेशों का प्रतिशत	
	31.03.2014	31.03.2013
(i) परिपक्वता अवधि तक रखे गये	63.90%	52.34%
(ii) बिक्री के लिये उपलब्ध	36.10%	47.66%
(iii) व्यापार के लिये रखे गये	शून्य	शून्य

S.No. Particulars	% Holding	
	31.03.2014	31.03.2013
i) Held to Maturity	63.90%	52.34%
ii) Available for Sale	36.10%	47.66%
iii) Held for trading	0.00%	0.00%

11. लाभ-हानि खाते के "व्यय" शीर्ष के अन्तर्गत "प्रावधान और आकस्मिकताओं" में निम्नलिखित सम्मिलित है:

(रु० करोड़ में)

	2013-14	2012-13
(क) आयकर के लिए प्रावधान (चालू कर)	29.00	23.75
(ख) आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर)	-0.13	01.47
(ग) निवेशों के मूल्य हास के लिए प्रावधान	1.76	00.00
(घ) गै.नि. अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.00	24.72
(ङ) मानक, टीजर रेट ऋणों, शिक्षा ऋणों के लिए प्रावधान	00.80	00.55
(च) पुर्नगठित अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.00	0.00
(छ) अन्य प्रावधान	0.00	00.14
जोड़	31.43	50.63
घटाएँ :- प्रतिलेखित निवेशों पर अतिरिक्त प्रावधान / मूल्यह्रास	0.00	04.88
प्रतिलेखित किए गये अन्य प्रावधान	0.00	0.00
जोड़	31.43	45.75

12. शिकायतों की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी
12.1 ग्राहकों से शिकायतें :

क) वर्ष के आरम्भ पर अर्थात् 01.04.2013 को लम्बित शिकायतों की संख्या	02
ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	10
ग) वर्ष के दौरान दूर की गई शिकायतों की संख्या	11
घ) वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् 31.03.2014 को लम्बित शिकायतों की संख्या	01

12.2 बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णय :

क) वर्ष के आरम्भ पर अर्थात् 01.04.2013 को कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य
ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य
ग) वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य
घ) वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् 31.03.2014 को कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य

12.3 बैंक द्वारा जारी लैटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) का प्रकटीकरण — शून्य

13. अनु० जा०/अनु० जन० को ऋण (रु० करोड़ में)	
13.1 31.03.2014 को अनु० जा०/अनु० जन० को दिए गए ऋण की राशि	42.34
13.2 वर्ष के दौरान अनु० जा०/अनु० जन० के उधारकर्ताओं से ऋण की वसूली	20.00

जहाँ आवश्यक समझा गया है विगत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलन योग्य बनाने के लिए पुनर्समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

11. Break-up of the items "Provisions and Contingencies" included under the head Expenditure in the Profit & Loss Account. :

(₹ In crore)

	2013-14	2012-13
a) Provision for Income Tax (Current Tax)	29.00	23.75
b) Provision for Income Tax (Deferred Tax)	-0.13	01.47
c) Provision for Depreciation in investment	1.76	00.00
d) Provision for NPA	0.00	24.72
e) Provision for Standard, Teaser Rate/Edu. Loans	00.80	00.55
f) Provision for Restructured Advances	0.00	0.00
h) Other provision	0.00	00.14
Total	31.43	50.63
Less: Excess Provision /Depreciation on Investment written back	0.00	04.88
Other Provisions written back	0.00	0.00
Total	31.43	45.75

12 Statement showing the position of Complaints
12.1 Customer Complaints

a) No. of complaints pending at the beginning of the year i.e. 01.04.2013	02
b) No. of complaints received during the year	10
c) No of complaints redressed during the year	11
d) No. of complaints pending at end of the year i.e. 31.03.2014	01

12.2 Awards Passed by the Banking OMBUDSMAN

a) No. of unimplemented Awards at the beginning of the year i.e. 01.04.2013	Nil
b) No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	Nil
c) No of Awards implemented during the year	Nil
d) No. of unimplemented Awards at the end of the year i.e.31.03.2014	Nil

12.3 Disclosure of letter of comfort (LOC) issued by Bank - Nil

13. Advances to SC/STs (₹ In crore)	
13.1 Outstanding credit to SC/STs as on 31.03.2014	42.34
13.2 Recovery from SC/STs borrowers during the year	20.00

Figures for the previous year have been regrouped/ recasted wherever considered necessary to make them comparable with current year figures.

अतिरिक्त प्रकटीकरण :
Additional Disclosures
(i) 31.03.2014 को अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण
(i) Concentration of NPAs* as on 31.03.2014

(₹0 करोड़ में)

(₹ in crore)

चार शीर्षस्थ अनर्जक आस्ति खातों में कुल एक्सपोजर	27.13
--	-------

Total Exposure to top four NPA accounts	27.13
---	-------

(ii) क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियाँ*

(₹0 करोड़ में)

(₹ in crore)

क्रमांक क्षेत्र	संबंधित क्षेत्र में कुल अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों का विवरण	
1	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	1.47
2	उद्योग (माइक्रो और लघु, मझौले और बड़े)	4.98
3	सेवाएं	2.82
4	वैयक्तिक ऋण	1.27

(ii) Sector-wise NPAs*

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to total Advances in that sector
1	Agriculture & Allied Activities	1.47
2	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	4.98
3	Services	2.82
4	Personal Loans	1.27

(iii) अनर्जक आस्तियों की उतार-चढ़ाव*

(₹0 करोड़ में)

(₹ in crore)

ब्यौरे	राशि
गत वर्ष के 1 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियाँ (आरंभिक शेष)	67.26
वर्ष के दौरान वृद्धि (नयी अनर्जक आस्तियाँ)	13.50
उप-जोड़ (क)	80.76
घटाएं :-	
(i) श्रेणी उन्नयन	2.89
(ii) वसूली (जिन खातों का श्रेणी उन्नयन हुआ है उनसे वसूली को छोड़कर)	16.57
(iii) बड़े खाते डाले गये	0.20
उप-जोड़ (ख)	19.66
वर्तमान वर्ष के 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियाँ (इति शेष) (क-ख)	61.10

(iii) Movement of NPAs*

Particulars	Amount
Gross NPA* as on 1st April of previous year (Opening Balance)	67.26
Additions (Fresh NPAs) during the year	13.50
Sub - Total (A)	80.76
Less :-	
(i) Upgradations	2.89
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	16.57
(iii) Write - offs	0.20
Sub - Total (B)	19.66
Gross NPA* as on 31st March of current year (closing balance) (A-B)	61.10

* भारि.बैं. के परिपत्र, दिनांक 24.09.2010 की अपेक्षाओं के अनुसार सकल गै.नि.आ. (एन.पी.ए.) में उचित ब्याज खाते के शेष की राशि सम्मिलित नहीं है।

*Gross NPAs are net of balance in interest suspense account as per RBI requirements vide circular dated 24.09.2010.

(iv) अग्रिमों का संकेन्द्रण

(₹0 करोड़ में)

(₹ in crore)

बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दी गई कुल ऋणराशि	351.90
वैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	22.47%

(iv) Concentration of Advances

Total Advances to twenty largest borrowers	351.90
Percentage of advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	22.47%

(v) एक्सपोजर का संकेन्द्रण

	(रु० करोड़ में)
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोजर	397.61
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के प्रति एक्सपोजर का प्रतिशत	16.10%

(vi) जमा राशि का संकेन्द्रण

	(रु० करोड़ में)
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	1357.38
बैंक की कुल जमा राशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशियों का प्रतिशत	29.20%

(vii) बैंक अश्योरेंस व्यवसाय

बैंक को वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक अश्योरेंस व्यवसाय से निम्नानुसार रु. 81.12 लाख की कुल आय हुई :

क्र. सं.	बीमा कम्पनी	राशि
1	आई.एन.जी. वैश्य लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लि.	37.21
2	नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लि.	32.52
3	इंडिया फर्स्ट लाइफ इन्श्योरेंस कं. लि.	05.19
4	बजाज अलाइन्ज लाइफ इन्श्योरेंस कं. इंडिया लि.	06.20
	जोड़	81.12

बैंक को वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अन्य उत्पादों से बैंक को निम्नानुसार रु. 7.35 लाख की आय हुई:

Sr. Company No.	Amount
1 विजमैन फोरेक्स लि.	2.31
2 यू.टी.आई.आई.टी.एस.एल.	00.05
3 स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.	04.99
जोड़	07.35

(v) Concentration of Exposure

	(₹ in crore)
Total Exposures to twenty largest borrowers/ customers	397.61
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the bank on borrowers / customers	16.10%

(vi) Concentration of Deposits

	(₹ in crore)
Total Deposits from twenty largest Depositors	1357.38
Percentage of Deposits from twenty largest customers to Total deposits of the bank	29.20%

(vii) Bancassurance Business

The total income of the bank in respect of bancassurance business was ₹ 81.12 Lac during the financial year 2013-14, with details are as under :

Sr. Insurance Company No.	Amount
1 ING Vysya Life Insurance Company Ltd.	37.21
2 National Insurance Company Ltd	32.52
3 India First Life Insurance Co. Ltd	05.19
4 Bajaj Allianz Life Insurance Co. India Ltd	06.20
Total	81.12

The total income of the bank in respect of other products was ₹ 7.35 Lac during the financial year 2013-14, with details as under

Sr. Company No.	Amount
1 Weizmann Forex Ltd.	02.31
2 UTIITSL	00.05
3 Stock Holding Corporation of India Ltd.	04.99
Total	07.35

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह का विवरण

STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2014

(रु० हजारों में) (₹ In thousands)

		31.3.2014 को समाप्त वर्ष As on 31-03-2014	31.3.2013 को समाप्त वर्ष As on 31-03-2013
क. परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	A. Cash flow from operating activities :		
कराधान रो पहले शुद्ध लाभ	Net profit before taxes.	944234	748110
निम्नलिखित के लिए समायोजन	Adjustments for :		
स्थाई आस्तियों पर मूल्य ह्रास	Depreciation on Fixed Assets	24862	23339
प्रतिलेखित निवेश पर मूल्य ह्रास	Depreciation on Investment Written Back	0	-48840
निवेशो के लिए किया गया प्रावधान	Provision on Investments	17227	0
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision in respect of NPA	0	247200
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for standard assets	8060	5463
अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for other items.	0	1385
स्थाई आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	Profit / Loss on sale of fixed Assets.	-27	145
चालू वर्ष के लिए आस्थगित कर	Deferred Tax for Current year	-36396	14759
अतिरिक्त प्रावधान जो प्रतिलेखित किया गया	Excess Provision written back	0.00	0.00
		957960	991561
निम्नलिखित के लिए समायोजन	Adjustment for :		
निवेशों में वृद्धि/कमी	Increase/Decrease in investments	-1058604	1023521
अग्रिमों में वृद्धि/कमी	Increase/Decrease in advances	-2818510	-2400055
अन्य आस्तियों में वृद्धि/कमी	Increase/Decrease in other assets	-299751	138032
उधार में वृद्धि/कमी	Increase/Decrease in Borrowings	-72275	-6980
जमा में वृद्धि/कमी	Increase/Decrease in deposits	9259514	2461002
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/कमी	Increase/Decrease in other liabilities and provisions	603417	534156
भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर	Direct Taxes paid	-290000	-237500
परिचालनगत कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (क)	Net Cash from operating activities (a)	6281751	2503737
ख. निवेश सम्बन्धी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	B. Cash flow from investing activities :		
स्थाई आस्तियों में वृद्धि/कमी	Increase/Decrease in fixed Assets	-81992	-27327
व्यापार से सम्बन्धित निवेशों में परिवर्तन	Changes in Trade related investments	0.00	0.00
समनुषंगी/अन्य से प्राप्त लाभांश	Dividend received from subsidiaries/others	0.00	0.00
निवेश सम्बन्धी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख)	Net Cash from investing activities (b)	-81992	-27327
शेयर पूंजी	Share Capital	0.00	0.00
शेयर पर वर्धित मूल्य (प्रीमियम)	Share Premium	0.00	0.00
अरक्षित मोचनीय बॉण्ड	Unsecured Redeemable Bonds	0.00	0.00
लाभांश	Dividend	-172590	-172590
अरक्षित मोचनीय बॉण्डों पर दिया गया/देय ब्याज	Interest paid/payable on unsecured redeemable bonds	0.00	0.00
ग. वित्तीय कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ग)	C. Net Cash from financing activities (c)	-172590	-172590
नकदी और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि (क) + (ख) + (ग)	Net increase in cash & cash equivalents (A) + (B) + (C)	6027169	2303820
वर्ष के आरम्भ पर नकदी व समतुल्य	Opening Cash & cash equivalents	10734972	8431152
वर्ष की समाप्ति पर नकदी व समतुल्य	Closing Cash & cash equivalents	16762141	10734972

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

नैनीताल बैंक लिमिटेड के अंशधारकों के प्रति

AUDITORS' REPORT

To The Shareholders of The Nainital Bank Ltd.

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

- हमने नैनीताल बैंक लिमिटेड, नैनीताल की रांलग्न विवरणियों जिनमें 31 मार्च, 2014 का तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता विवरण और उर्री तिथि को समाप्त हुए वर्ष की नकदी प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं सम्मिलित हैं की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 4 शाखाओं की विवरणियां तथा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित 112 शाखाओं की विवरणियां तथा उन शून्य शाखाओं जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गई है तथा जिनके सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 228 के उपखण्ड (1) और (3) के प्रावधानों में से कम्पनी (शाखा लेखा परीक्षा में छूट) नियम 1961 के नियम 4 (1) (क) के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई है की विवरणियां सम्मिलित हैं। वे शाखाएं जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गई है अग्रिमों, जमा, ब्याज से आय और ब्याज पर व्यय के शून्य स्तर को दर्शाती हैं।

वित्तीय विवरणियों के लिये प्रबन्धन का दायित्व

- प्रबन्धन इन वित्तीय विवरणियों को भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप तैयार करने के लिये उत्तरदायी है। इस दायित्व के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय विवरणियां को तैयार करते समय आन्तरिक नियंत्रण की योजना, कार्यान्वयन और रखरखाव में धोखे से या गलती से कोई अवास्तविकता नहीं है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

- हमारा दायित्व है कि हम स्वयं द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय प्रकट करें। हमने इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इन्डिया द्वारा जारी मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा का कार्य किया। इन मानकों के अनुरूप यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये वित्तीय विवरणियां अवास्तविक नहीं हैं लेखा परीक्षा की योजना बनाएं एवं लेखा परीक्षा करें।
- लेखा परीक्षा के कार्य में वित्तीय विवरणियों में दिए गए आंकड़ों और प्रकटीकरण के समर्थन में दिए गए साक्ष्यों की नमूना कार्य निष्पादन की प्रक्रिया पर लेखा परीक्षा सम्मिलित होती है। चयन की गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय जिसमें वित्तीय विवरणियों में अवास्तविकता, धोखे से या गलती से के जोखिम का आंकलन भी सम्मिलित है पर निर्भर करती है। उन जोखिमों का आंकलन करते समय लेखा परीक्षक कम्पनी द्वारा तैयारी और प्रकटीकरण के सम्बन्ध में आन्तरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि वह लेखा परीक्षा की रूपरेखा जो उस स्थिति में उचित हो तैयार कर सके। लेखा परीक्षा में प्रबन्धन द्वारा अपनायी गई लेखा नीतियों की समुचितता, लेखानुमानों के औचित्य तथा वित्तीय विवरणियों के समग्रता प्रकटीकरण का आंकलन भी सम्मिलित है।
- हमें विश्वास है कि जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वे लेखा परीक्षा से सम्बन्धित राय देने के लिये पर्याप्त और उचित आधार प्रदान करते हैं।

राय

- हमारी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के आधार पर, उक्त खाते और उन पर दी गई टिप्पणियां, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 तथा कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अपेक्षित सूचनाएं बैंककारी

REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS

- We have audited the accompanying financial statements of The Nainital Bank Limited, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2014 and the Statement of Profit and Loss and the cash flow statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 4 branches audited by us, 112 branches audited by branch auditors and unaudited returns of Nil branches in respect of which exemption has been granted by the Central Government under Rule 4 (1) (a) of the Companies (Branch Audit Exemption) Rules, 1961 from the provisions of sub-sections (1) and (3) of Section 228 of the Companies Act, 1956. These unaudited branches account for NIL percent of advance, NIL percent of deposit, NIL percent of interest income and NIL percent of interest expense.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

- Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Accounting Standard generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

AUDITOR'S RESPONSIBILITY

- Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
- An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
- We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

OPINION

- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts together with the notes thereon give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act,

कम्पनियों के लिये अपेक्षित विधानों के अनुरूप हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप रही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाता है :

- तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च, 2014 को बैंक के काम-काज का, तथा
- लाभ और हानि खाते के मामले में उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ/हानि का एवं
- नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह का।

अन्य विधिक और नियामक मामलों पर रिपोर्ट

- तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों जिन्हें कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 के साथ पढ़ा जाए, के अनुरार तैयार किए गए हैं।
- हम सूचित करते हैं कि :
 - वे समस्ता सूचनाएं और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे, हमें मिल गए हैं और हमने इन्हें सन्तोषजनक पाया है।
 - हमारी जानकारी में आये बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार क्षेत्र में किए गए हैं।
 - बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां लेखा परीक्षा हेतु पर्याप्त पायी गयीं।
- हमारी राय में तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरणियां कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 के उप खण्ड (अग) में दिए गए लेखा मागकों का अनुपालन करती हैं।
- हम पुनः यह सूचित करते हैं कि :
 - तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाता जिनसे यह रिपोर्ट सम्बन्धित है लेखा बहियों और विवरणियों से मिलान कर तैयार किये गये हैं।
 - हमारी राय में बैंक ने यथोचित लेखा बहियां, जहां तक इनकी जांच से प्रकट होता है यथाविधि तैयार की हैं।
 - शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के खातों पर रिपोर्ट को भी जितना आवश्यक समझा गया इस रिपोर्ट में लिया गया है।
 - हमें दी गई जानकारी और सूचना के अनुरार केन्द्र सरकार ने अभी तक कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 441 क के अन्तर्गत देय कोई प्रतिकर निर्धारित नहीं किया है।
 - निदेशकों द्वारा दिए गए लिखित प्रतिवेदनों जिन्हें निदेशक मंडल ने रिकार्ड में लिया है के आधार पर कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2014 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (ख) के अनुसार निदेशक के पद पर नियुक्त होने के लिए अपात्र नहीं है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28/04/2014

कृते विजय मुकेश एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

ह0/-
(सी.ए. मुकेश जैन)
भागीदार
स0सं0 094199
एफ.आर.एन. 014554एन

1956, in the manner so required for the banking companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2014;
- In the case of the Profit and Loss Account of the profit/loss for the year ended on that date; and
- In the case of the Cash Flow Statement, of cash flows for the year ended on that date.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY MATTERS

- The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 211 of the Companies Act, 1956.
- We report that:
 - We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.
 - The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
 - The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
- In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956.
- We further report that:
 - The Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and the returns.
 - In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as appears from our examination of those books.
 - The reports on the accounts of the branches audited by branch auditors have been dealt with in preparing our report in the manner considered necessary by us.
 - As per information and explanation given to us the Central Government has, till date, not prescribed any cess payable under section 441A of the Companies Act, 1956.
 - on the basis of the written representation received from the directors and taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2014 from being appointed as a director in terms of clause (g) of sub-section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956.

Place: New Delhi
Date: 28/04/2014

For Vijay Mukesh & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
(CA Mukesh Jain)
Partner
M.No: 094199
FRN: 014554N

**दिल्ली / DELHI****(16)**

1. पंचकुंड्या रोड / Panchkuian Road (M)
2. पटपड़गंज / Patparganj (M)
3. लाजपत नगर / Lajpat Nagar (M)
4. पीतमपुरा (पश्चिम) Pitampura (M)
5. शालीमार बाग / Shalimar Bagh (M)
6. आई.पी.0एक्स.टैन्सन / I.P.Extension (M)
7. तिलक नगर / Tilak Nagar (M)

8. न्यू कोंडली / New Kondli (M)
9. विकास मार्ग / Vikas Marg (M)
10. पप्पनकला / Pappankala (M)
11. रोहिणी सेक्टर 16 / Rohini Sector 16 (M)
12. रोहतक रोड / Rohtak Road (M)
13. सर्विस ब्रान्च, पंचकुंड्या रोड / Serv. Br. Panchkuian Road (M)
14. सुरहेड़ा (नजफगढ़) / Surhera (Najfagarh) (R)
15. द्वारका / Dwarka (M)
16. दिलशाद गार्डन / Dilshad Garden (M)

उत्तराखंड / UTTARAKHAND**(65)****जिला - अल्मोड़ा / DISTT.-ALMORA (4)**

17. अल्मोड़ा (मुख्य) / Almora (Main) (SU)
18. लोअर माल, अल्मोड़ा / Lower Mall, Almora (SU)
19. रानीखेत / Ranikhet (SU)
20. द्वारहाट / Dwarahat (R)

जिला - बागेश्वर / DISTT.-BAGESHWAR (3)

21. बागेश्वर / Bageshwar (R)
22. बनलेख / Banlekh (R)
23. कपकोट / Kapkot (R)

जिला - नैनीताल / DISTT.-NAINITAL (17)

24. नैनीताल (मुख्य) / Nainital (Main) (SU)
25. तल्लीताल, नैनीताल / Tallital, Nainital (SU)
26. भीमताल / Bhimtal (R)
27. हल्द्वानी रामपुर रोड / Haldwani Rampur Road (SU)
28. हल्द्वानी रेलवे बाजार / Haldwani Railway Bazar (SU)
29. हल्द्वानी, कालाहूंगी रोड / Haldwani, Kaladhungi Road (SU)
30. हल्द्वानी, एम.बी. डिग्री कालेज / Haldwani, M.B.Degree College (SU)
31. हल्द्वानी, अर्जुनपुर (गोरापड़ाव) / Haldwani, Arjunpur (Goraparao) (R)
32. हल्द्वानी, लोहरियासाल मल्ला (कठघरिया) / Haldwani, Lohariasal Malla (Kathgharia) (R)
33. कमलुवागांजा हल्द्वानी / Kamluwaganja, Haldwani (R)
34. रानीबाग / Ranibagh (SU)
35. लाल कुंआ / Lalkuan (R)
36. रामगढ़ / Ramgarh (R)
37. पहाड़पानी / Paharpani (R)
38. रामनगर / Ramnagar (SU)
39. बैल पड़ाव / Bailparao (R)
40. भवाली / Bhowali (R)

जिला - हरिद्वार / DISTT. - HARIDWAR (3)

41. हरिद्वार / Haridwar (U)
42. रूड़की / Roorkee (SU)
43. ज्वालापुर, हरिद्वार / Jawalpur, Haridwar (U)

जिला - पिथौरागढ़ / DISTT.-PITHORAGARH (2)

44. पिथौरागढ़ / Pithoragarh (SU)
45. धारचूला / Dharchula (R)

जिला - चम्पावत / DISTT. - CHAMPAWAT (6)

46. चम्पावत / Champawat (R)
47. भिंगराड़ा / Bhingrara (R)
48. चौमेल / Chaumel (R)
49. देवीधुरा / Devidhura (R)
50. लोहाघाट / Lohaghat (R)
51. टनकपुर / Tanakpur (SU)

जिला - ऊधम सिंह नगर / DISTT.- U.S. NAGAR (15)

52. बरा / Bara (R)
53. बाजपुर / Bazpur (SU)
54. महेशपुरा(दोराहा), बाजपुर / Maheshpura (Doraha), Bazpur (R)
55. बहरैनी, बाजपुर / Bhareni, Bajpur (R)
56. जसपुर / Jaspur (SU)
57. काशीपुर / Kashipur (SU)
58. किच्छा / Kichha (SU)
59. किलाखेड़ा / Kilakhera (R)
60. नगला (पंतनगर) / Nagla (Pantnagar) (SU)
61. रुद्रपुर / Rudrapur (SU)
62. श्रीपुर बिछवा / Sripur Bichhwa (R)
63. गदरपुर / Gadarpur (SU)
64. भूड़ महोलिया (खटीमा) / Bhoor Mohalia (Khatima) (R)
65. सिडकुल / SIDCUL (SU)
66. सितारगंज / Sitargang (SU)

जिला-पौड़ी (गढ़वाल) / DISTT.- PAURI (GARHWAL) (3)

67. कोटद्वार / Kotdwar (SU)
68. श्रीनगर / Srinagar (SU)
69. पौड़ी / Pauri (SU)

जिला - टेहरी / DISTT. - TEHARI

70. गई टेहरी (SU)

जिला - चमोली / DISTT. - CHAMOLI (2)

71. जोशीमठ / Joshimath (SU)
72. कर्णप्रयाग / Karn Prayag (R)

जिला - देहरादून / DISTT. - DEHRADUN (8)

73. देहरादून / Dehradun (U)
74. विकास नगर / Vikas Nagar (SU)
75. डोईवाला / Doiwala (SU)
76. हरिद्वारा रोड, देहरादून / Haridwar Road, Dehradun (U)
77. सहारनपुर रोड, देहरादून / Saharanpur Road, Dehradun (U)
78. वसन्त विहार, देहरादून / Vasant Vihar, Dehradun (U)
79. ऋषिकेश / Rishikesh (SU)
80. मंसूरी / Mussoorie (SU)

जिला - रुद्रप्रयाग / DISTT. - Rudra Prayag

81. रुद्रप्रयाग / Rudra Prayag (SU)



उत्तर प्रदेश /UTTAR PRADESH (28)		जिला आगरा / DISTT. AGRA	
जिला - बरेली / DISTT.-BAREILLY (4)		97. आगरा / Agra (U)	
82. बरेली सि. लाईन्स / Bareilly Civil Lines (U)		जिला - मेरठ / DISTT.- MEERUT	
83. बरेली, प्रभात नगर (U)		98. मेरठ / Meerut (U)	
Bareilly, Prabhat Nagar		जिला - मुरादाबाद / DISTT.- MORADABAD	
84. बरेली, फरीदपुर / Bareilly, Faridpur (SU)		99. मुरादाबाद / Moradabad (U)	
85. बहेड़ी / Baheri (SU)		जिला - मुजफ्फरनगर / DISTT.- MUZAFFARNAGAR	
जिला - बुलन्दशहर / DISTT.-BULANSHAHR		100. मुजफ्फरनगर / Muzaffarnagar (U)	
86. बुलन्दशहर / Bulandshahar (U)		जिला - पीलीभीत / DISTT.- PILIBHIT	
जिला-गाज़ियाबाद / DISTT.- GHAZIABAD (2)		101. पीलीभीत / Pilibhit (U)	
87. गाज़ियाबाद / Ghaziabad (U)		जिला - रामपुर / DISTT.- RAMPUR (2)	
88. वैशाली / Vaishali (U)		102. रामपुर / Rampur (U)	
जिला - कानपुर / DISTT. - KANPUR (2)		103. बिलासपुर / Bilaspur (SU)	
89. कानपुर / Kanpur (M)		जिला - शाहजहाँपुर / DISTT.- SHAHJAHANPUR	
90. बर्रा-कानपुर / Barra-Kanpur (M)		104. शाहजहाँपुर / Shahjahanpur (U)	
जिला - लखनऊ / DISTT.- LUCKNOW (6)		जिला - सीतापुर / DISTT.- SITAPUR	
91. त्रिलोक नाथ रोड, लखनऊ (M)		105. सीतापुर / Sitapur (U)	
Trijoki Nath Road, Lucknow		जिला - सहारनपुर / DISTT.- SAHARANPUR	
92. महानगर, लखनऊ / Mahangar, Lucknow (M)		106. सहारनपुर / Saharanpur (U)	
93. आशियाना, लखनऊ / Ashiana, Lucknow (M)		जिला - बिजनौर / DISTT.- BIJNOR	
94. नादान महल मार्ग, लखनऊ (M)		107. नजीबाबाद / Nazibabad (SU)	
Nadan Mahal Road, Lucknow		जिला गौठ बुठ नगर / DISTT.-G.B. NAGAR (2)	
95. गोमती नगर, लखनऊ / Gomti Nagar, Lucknow (M)		108. नोएडा सैक्टर - 18 / NOIDA Sect. - 18 (U)	
96. आईआईएम रोड, लखनऊ (M)		109. नोएडा सैक्टर - 50 / NOIDA Sect. - 50 (U)	
IIM Road, Lucknow			

हरियाणा / HARYANA (5)		जिला-अम्बाला / DISTT.-AMBALA	
जिला-गुड़गाँव / DISTT.-GURGAON		113. अम्बाला / Ambala (U)	
110. गुड़गाँव / Gurgaon (U)		जिला-करनाल / DISTT.-KARNAL	
जिला-पानीपत / DISTT.-PANIPAT		114. करनाल / Karnal (U)	
111. पानीपत / Panipat (U)		राजस्थान / RAJASTHAN (2)	
जिला-फरीदाबाद / DISTT.-FARIDABAD		जिला-जयपुर / DISTT.-JAIPUR	
112. फरीदाबाद / Faridabad (U)		115. जयपुर / Jaipur (M)	
		116. जयपुर, कोटपुतली / Jaipur, Kotputli (SU)	

Key : M = Metropolitan महानगरीय केन्द्र, U = Urban Centre शहरी केन्द्र, SU = Semi Urban अर्द्धशहरी केन्द्र, R = Rural Centre ग्रामीण केन्द्र

शाखाओं की संख्या विभिन्न केन्द्रों पर / No.of Branches at various Centers :

1. महानगरीय केन्द्र Metro 24	2. शहरी केन्द्र Urban 27	3. अर्द्धशहरी केन्द्र Semi Urban 38	4. ग्रामीण केन्द्र Rural 27
------------------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------------

क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Offices

1. दिल्ली / Delhi	2. हल्द्वानी / Haldwani	3. देहरादून / Dehradun
-------------------	-------------------------	------------------------

COMPANY SECRETARY : Miss. Sanchita Kapoor, Company Secretary

STATUTORY AUDITORS : M/s. Vijay Mukesh & Company, Chartered Accountants, Delhi.